

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 17—मार्च 23, 2018 (फाल्गुन 26, 1939)

No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 17—MARCH 23, 2018 (PHALGUNA 26, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

[भाग III—खण्ड 1]

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

गृह मंत्रालय

(केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 2018

सं. ओ दो-68374/2018-कार्मिक(स.क.)—सरकारी सेवा से त्याग-पत्र नोटिस सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री कल्बंडे विनय राजभाऊ, सहायक कमाण्डेन्ट(प्रशिक्षु), 50 बैच डी.ए.जी.ओ., मूल प्रशिक्षणरत् केरिपुबल अकादमी, गुरुग्राम (हरियाणा) ने दिनांक 28/02/2018 (अपराहन) से अपना पदभार त्याग दिया है। तदनुसार, उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 28/02/2018 (अपराहन) से निकाला जाता है।

सुधाकर उपाध्याय
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ दो-10902/2018-कार्मिक(स.क.)—सरकारी सेवा से त्याग पत्र नोटिस दिनांक 03/01/2018 सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री टोनी खान, सहायक कमाण्डेन्ट (ईरला-10902), 158 बटालियन केरिपुबल ने दिनांक 28/02/2018 (अपराहन) से अपना पदभार त्याग दिया है। तदनुसार, उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 28/02/2018 (अपराहन) से निकाला जाता है।

सुधाकर उपाध्याय
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सरदार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी

हैदराबाद-500052, दिनांक 27 फरवरी 2018

सं. 15011/03/2018-स्था.—गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. I-21015/26/2017-भा.पु.से.—III दिनांक 15 जनवरी, 2018 के अनुसरण में दिनांक 12 फरवरी 2018 के पूर्वाह्न से श्रीमती अजीता बेगम, भा.पु.से. (केरल-2008) एवं डॉ. एस. सतीश बिनो, भा.पु.से. (केरल-2008) को स.व.प. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, में सहायक निदेशक के पद पर पे-मैट्रिक्स लेवल-12 पर प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों के आधार पर 4 वर्ष या अगला आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले लागू हो नियुक्त किया जाता है। अधिकारी समय-समय पर जारी भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार उक्त पद के वेतन एवं भत्तों के हकदार होंगे।

डी. आर. डोले बर्मन
निदेशक

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 27 फरवरी 2018

शुद्धिपत्र

सं. ए-35013/1/2018-प्रशा. III/04—इस कार्यालय की दिनांक 19.02.2018 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए सुश्री प्रेरणा पुरी, भ.प्र.सं. (एजीएमयूटी: 2006) की निदेशक जनगणना कार्य/निदेशक, नागरिक रजिस्ट्रीकरण, हरियाणा के रूप में नियुक्ति की तारीख को

“02.02.2018 से”

के स्थान पर

“01.02.2018 से”

पढ़ा जाए

संजय
उप महानिदेशक

दिनांक 01 मार्च 2018

सं. ए-22012/1/2016-प्रशा. III/214—नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28.02.2018 के आदेश सं. 36/01/2018-ई.ओ. (एस.एम.-I)(1) के अनुसरण में श्री शैलेश, भा.प्र.से. (एएम:1985), भारत के महारजिस्ट्रार को अधिकारी के लिये एक व्यक्तिगत उपाय के रूप में सचिव, भारत सरकार के पद और वेतन में स्व-स्थाने उन्नयन करते हुए 28.02.2018 (अपराह्न) से भारत के महारजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया जाता है।

संजय
उप महानिदेशक

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
(केन्द्रीय व्यय)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 2 फरवरी 2018

सं. प्रशा. I/का.आ.सं.-381—इस कार्यालय के श्री हरीश चन्द्र, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (पे. मैट्रिक्स के 10वें स्तर में) वार्धक्य की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप दिनांक 31.01.2018 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

उनकी जन्म तिथि 02.01.1958 है और उनकी सरकारी सेवा आरम्भ की तिथि 08.04.1980 है।

हस्ता./—अपठनीय
उप-निदेशक (प्रशासन)

महालेखाकार (ले व ह), केरल का कार्यालय

तिरुवनंतपुरम, दिनांक 26 फरवरी 2018

सं. 01/2018—

क्र.सं.	नाम	पदनाम	स्वानिवृत्ति की तारीख
1.	अनंतकृष्ण एस	वरिष्ठ लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	31.01.2018

के. के. जयकुमार
लेखा अधिकारी/का. स्था. (ह व रो)

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र
(नाभिकीय पुनःचक्रण बोर्ड)
सामान्य सेवाएं संगठन

पालघर, दिनांक 1 फरवरी 2018

सं. जीएसओ(टी)/प्रशा-II/58(2)/2018/ओपीए-22874—मुख्य कार्यकारी, एनआरबी, भापअ केन्द्र, मुम्बई श्री मनोज कुमार, सहायक, परमाणु ऊर्जा विभाग, मुम्बई को दिनांक 16.01.2018 (पूर्वाह्न) से, आगामी आदेशों तक वेतन मैट्रिक्स में लेवल 8 में एन.आर.बी., भापअ केन्द्र, तारापुर में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

ए. डी. राऊल
सहायक कार्मिक अधिकारी

नागर विमानन मंत्रालय
(कार्यालय महानिदेशक नागर विमानन)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 25 जनवरी 2018

सं. ए-32016/2/2011-स्था-I—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रपति जी निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से वेतन मैट्रिक्स स्तर-10 में से नागर विमानन महानिदेशालय (नागर विमानन मंत्रालय) में वैमानिकी अधिकारी के पद पर करते हैं:—

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री प्रवीण कुमार सिंह	27/04/2017
2.	श्री अरविंद कुमार पी	05/06/2017

2. उक्त दोनों अधिकारी अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर होंगे। उनकी परीक्षा अवधि का सफलतापूर्वक पूरा होना कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की तारीख 30.10.2014 के कार्यालय ज्ञापन सं.28020/1/2010-स्थापना (ग) के अनुसार आवश्यक प्रवेश प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने के अधीन है।

दिलावर सिंह रावत
उप निदेशक प्रशासन

दिनांक 1 फरवरी 2018

सं. ए-12025/09/2017-स्था-I—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रपति जी, श्री तरुण गोगोई की नियुक्ति वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 में तारीख 22.01.2018 (पूर्वाह्न) से नागर विमानन महानिदेशालय (नागर विमानन मंत्रालय) में उप निदेशक (वायुयान इंजीनियरी) के पद पर करते हैं।

2. श्री तरुण गोगोई, अपनी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर होंगे। उनकी परीक्षा अवधि का सफलतापूर्वक पूरा होना कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की तारीख 30.10.2014 के कार्यालय ज्ञापन सं.28020/1/2010-स्थापना (ग) के अनुसार आवश्यक प्रवेश प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने के अधीन है।

दिलावर सिंह रावत
उप निदेशक प्रशासन

दिनांक 20 फरवरी 2018

सं. ए-32020/04/2018-स्था-I—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रपति जी, श्री अमित गुप्ता, उप निदेशक (वायुयान इंजीनियरी), नागर विमानन महानिदेशालय को निदेशक (वायुयान इंजीनियरी) के पद पर उनकी पदोन्नति होने पर उन्हें दिनांक 15 फरवरी, 2018 के अपराह्न से नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 में निदेशक (वायुयान इंजीनियरी) के पद पर नियुक्त करते हैं।

दिलावर सिंह रावत
उप निदेशक प्रशासन

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
(कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार)

प्रारूप संख्या एसटीके 7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) और कम्पनी (कम्पनी पंजीयक से कम्पनियों के नामों को हटाना) नियम 2016 के नियम 9 के अनुसरण में]

कम्पनी अधिनियम, 2013 और निम्नलिखित कम्पनियों के मामले में

कानपुर-208001, दिनांक 27 फरवरी 2018

सं. एलसी/248(5)/यूके/920—यह इस कार्यालय के तारीख 20.09.2017 कार्यालय सूचना संख्या 1 से 2 विभिन्न कम्पनियों से प्राप्त हुए आवेदन प्रारूप एसटीके 2 में हैं, और तारीख 02.12.2017 को जारी प्रारूप एसटीके 6 में नोटिस के संबंध में है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि यह कम्पनियां प्रकाशन की तारीख से कम्पनियों के रजिस्टर से हटा दी गयी हैं और उक्त कम्पनियों का नाम विघटन हो गया है।

Sl. No.	Company Name	CIN No	SRN No.
1	हैवनग्रीन इन्फालैण्ड डावलपर्स इण्डिया लिमिटेड	U70100UR2014PLC001337	G52924966
2	उत्तराखण्ड साइनटीफिक मीनिरल डावलपमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U93000UR2007PTC032529	G52789633
3	14 डेस विजनेस सेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U65999UR2015PTC001437	G52559549
4	साफटेक विजनेस सेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U74999UR2015PTC001569	G52554284
5	दास गलाबाइगजामिन प्राइवेट लिमिटेड	U52190UR2014PTC001155	G52011178
6	जय गणेश इन्टरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड	U15549UR2016PTC007228	G50969252
7	सिल्वर फन कंसल्टेंसी एण्ड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	U74120UR2016PTC001980	G50058866
8	अर्थ टूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड	U80902UR2011PTC000268	G49983232
9	द्युमिगो टूर्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999UR2014PTC001351	G49355415
10	देवांश इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	U45400UR2013PTC000790	G49284359
11	बाम्बे लाइजिन प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड	U24246UR2006PTC032319	G48177547
12	एलमिनैती बेब्टैक प्राइवेट लिमिटेड	U72300UR2013PTC000722	G47979216
13	सितारगंज स्टोन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड इण्डिया	U37200UR2013PTC000612	G4759304
14	पिरोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	U93000UR2015PTC001663	G46435665
15	हास नैचूरल प्राइवेट लिमिटेड	U74999UR2013PTC000606	G46025219
16	देस्टीनो कैब्स प्राइवेट लिमिटेड	U63090UR2015PTC001642	G45901865
17	बी. सी. मोगली एण्ड सन्स रियल्टर प्राइवेट लिमिटेड	U45201UR2008PTC032679	G45375581
18	स्पार्किल विजनेस सेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U52300UR2012PTC000098	G45123858
19	एस एम एन टेडलिक कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड	U74999UR2011PTC000038	G45069721
20	आंबानी हर्बल प्राइवेट लिमिटेड	U36100UR2012PTC000216	G44951705
21	ग्रीन नेचर फोरेस्टस प्राइवेट लिमिटेड	U02000UR2012PTC000217	G44951390
22	आंबानी इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U31500UR2012PTC000244	G44950848
23	आबांनी आर्युवेदिक प्राइवेट लिमिटेड	U36109UR2012PTC000214	G44950665
24	सतुष्टी मेगा मार्ट प्राइवेट लिमिटेड	U74900UR2008PTC032610	G44916427
25	गैलक्सी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	U45400UR2013PTC000560	G44666139

26	नवयूसी इन्फ्रा सिटी प्राइवेट लिमिटेड	U70101UR2008PTC032544	G44582641
27	प्राइम मेडिकल एलाइन्स प्राइवेट लिमिटेड	U85110UR2012PTC000431	G44572725
28	शीलचन्द्रा सेल्स एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74992UR2010PTC033343	G44508828
29	अधीपा फरमाक्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड	U24239UR2013PTC000938	G44262889
30	ग्रेट फुोट हबस प्राइवेट लिमिटेड	U33100UR2015PTC001501	G44147148
31	सन एन स्नो होटल एण्ड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U55101UR2009PTC033006	G44032456
32	राजदीप सक्थोरिटी प्लेसमेन्ट एण्ड सर्विसज प्राइवेट लिमिटेड	U22110UR1994PTC017260	G43981992
33	हिमालयन इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड	U29248UR2012PTC000132	G43981240
34	24 वाय 7 सेल्फ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U74999UR2016PTC007130	G43949775
35	हिमालयन टूरीज्म डवलपमेन्ट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	U63090UR2011PTC033656	G43617133
36	श्री राम लिख्योर हालीडेस प्राइवेट लिमिटेड	U45200UR2007PTC032534	G43382696
37	हयूमन एंगेल कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड	U74900UR2011PTC033497	G43375179
38	अर्ध्व इण्डास्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड	U74992UR2010PTC033050	G43260140
39	स्नोमाउन्ट डबलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45209UR2012PTC000402	G43040294
40	नक्षत्रलोक एस्ट्रो सर्विसज प्राइवेट लिमिटेड	U93000UR2010PTC033299	G43039148
41	यूनीडो इन्फ्रास्टेक्चर प्राइवेट लिमिटेड	U45200UR2013PTC000554	G42824367
42	जी.एस. होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	U67120UR1993PTC015219	G42560763
43	उत्तराखण्ड अरबन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड	U60230UR2014SGC001076	G42560748
44	दून वैली बीपो प्राइवेट लिमिटेड	U74900UR2010PTC033308	G42518704
45	अवतार रिसोर्ट एण्ड स्पा प्राइवेट लिमिटेड	U55204UR2011PTC033509	G41956921
46	वीरदाल हाइड्रोमेट प्राइवेट लिमिटेड	U29253UR2013PTC000847	G41793928
47	दूर एग्री ट्रेडक्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UR2011PTC033422	G41716986
48	ग्राण्डीयोसमेरीमेन्ट रियल प्राइवेट लिमिटेड	U74999UR2014PTC001072	G41425877
49	यार्व एग्री प्राडक्ट प्राइवेट लिमिटेड	U15316UR2015PTC001834	G41414483
50	अवसेक फार्माक्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U24233UR2014PTC001218	G40788556
51	एक्सपर्ट लेबर सेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U93000UR2011PTC000058	G40783896

पुनीत कुमार दुग्गल
कम्पनी रजिस्ट्रार व शासकी समापक
उत्तराखण्ड

प्रारूप सं. एसटीके-5

सार्वजनिक सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (1) और उपधारा (4) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में,

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(1) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

ग्वालियर-474009, दिनांक 7 फरवरी 2018

सं. आरओसी-जी/नोटि.248(1)/2018/23510—1. यह नोटिस दिया जाता है कि कंपनी रजिस्ट्रार के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि

i. निम्नलिखित कंपनियों ने अपने निगमन के एक वर्ष के भीतर कारबार आरंभ नहीं किया है।

मैसर्स.....

मैसर्स.....

ii. निम्नलिखित कंपनियों ने दो पूर्ववर्ती वित्त वर्षों में कोई कारबार या प्रचालन नहीं किया है और इस अवधि के भीतर धारा 455 के तहत निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया है।

निम्नलिखित कंपनियाँ

और यह प्रस्ताव है कि ऊपर उल्लिखित कंपनियों का नाम कंपनियों के रजिस्टर से हटाया/काटा जाए और जब तक अन्यथा कारण न हों, सूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर कथित कंपनी का विघटन किया जाए।

2. यदि किसी व्यक्ति को कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर उपर उल्लिखित कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकता है।

S.No.	CIN	कम्पनी का नाम
1	U00151MP1990PTC005909	अरुण नेटरमेन्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
2	U00155MP1983PTC002217	त्रिवेनी वाईन्स प्रा लिमिटेड
3	U00171MP1977PTC001402	शुभम सिन्थेटिक्स प्रायवेट लिमिटेड
4	U00171MP1994PTC008724	नर्मदा कॉटन ओवरसीज प्रायवेट लिमिटेड
5	U00190MP1990PTC005704	ब्रिज सॉक्स प्रायवेट लिमिटेड
6	U00200MP1980PTC001616	सुजाता फोरेस्ट प्रोडक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
7	U00210MP1995PTC008913	एस.एस.कॉर्बन्स प्रायवेट लिमिटेड
8	U00221MP1987PTC004054	रुद्रा पब्लिशर्स एंड प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड
9	U00241MP1975PTC001331	इन्डो फोरेन केमिकल इण्डस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड
10	U00241MP1983PTC002300	भवानी केमिकल्स एंड लेबोरेटरीज प्रायवेट लिमिटेड
11	U00241MP1986PTC003582	उज्जैन केमिकल्स प्रायवेट लिमिटेड
12	U00241MP1986PTC003744	शिखर केमिकल्स प्रायवेट लिमिटेड
13	U00241MP1989PTC005501	मालवा पिगमेन्ट प्रायवेट लिमिटेड
14	U00242MP1985PTC002870	मिडास केमिकल्स प्रायवेट लिमिटेड
15	U00251MP1983PTC002123	मंगलार्थ रबर एन्डरप्राजेज प्रायवेट लिमिटेड
16	U00271MP1994PTC008740	आर.वी. इंजीनियर्स प्रायवेट लिमिटेड
17	U00271MP1995PTC008914	जीआरडी प्रोफाईल्स स्टील प्रायवेट लिमिटेड
18	U00315MP1983PTC002317	ल्युमीनेरल्स एंड स्वीचगियर्स इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
19	U00452MP1992PTC007402	शेप पिगमेन्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
20	U00551MP1983PTC002318	वीमिस होटल इण्डस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड
21	U00551MP2000PTC014328	महाबली होटल्स प्रायवेट लिमिटेड
22	U01100MP2010PTC023970	विल्ली एग्रो टेक नेचुरल प्रायवेट लिमिटेड
23	U01100MP2011PTC025320	प्राईमरुफ एग्रो एंड एनर्जी प्रायवेट लिमिटेड
24	U01111MP1972PTC001145	ग्वालियर कृषि विकास कम्पनी प्रायवेट लिमिटेड
25	U01111MP1990PTC006163	महाकौशल पोल्टोज प्रायवेट लिमिटेड
26	U01111MP1994PTC008622	गार्डन पिक प्रायवेट लिमिटेड
27	U01111MP2004PTC016743	ग्रो वैल फार्म डवलपर्स प्रायवेट लिमिटेड
28	U01111MP2004PTC016744	क्षेत्रीय फार्म डवलपर्स प्रायवेट लिमिटेड
29	U01111MP2004PTC016746	भूमिका फार्म डवलपर्स प्रायवेट लिमिटेड
30	U01122MP1989PTC005177	नेहा एगो इण्डस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड
31	U01122MP1990PTC006113	पवनलता रोजेस एंड नर्सरी प्रायवेट लिमिटेड
32	U01122MP1995PTC009235	महारुद्र फार्मिंग एंड प्लानटेशन प्रायवेट लिमिटेड
33	U01122MP1996PTC010398	पुष्प विहार प्लानटेशन्स एंड लेन्ड डवलपमेन्ट प्रायवेट लिमिटेड
34	U01122MP2002PTC015130	अरिहन्त ऑर्चर्ड्स एंड हर्बल फार्मस प्रायवेट लिमिटेड
35	U01222MP1982PTC002093	शिवपुरी हाई टेक एग्री एक्वा फार्मस प्रायवेट लिमिटेड
36	U01400MP2010PTC024093	प्रकट उन्नति आजीविका फार्मस प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
37	U01400MP2012PTC027814	सोपान प्लायबुड प्लानटेशन प्राड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
38	U01400MP2013PTC029978	पीएसआर कॉर्प केयर प्रायवेट लिमिटेड
39	U01400MP2013PTC030195	मौ जलपा कॉर्प प्राड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
40	U01400MP2013PTC030345	राजगढ कॉर्प प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

41	U01400MP2013PTC031379	बीजीबी फूड प्राइवेट्स इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
42	U01401MP1998PTC012623	यूनिसन कन्सलटेन्ट्स इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
43	U01403MP2012PTC029031	श्रीहरि तुल्सादेवी एर्गी एन्ड रियल एस्टेट
44	U01403MP2013PTC031150	माता बगलामुखी फार्मस प्रायवेट लिमिटेड
45	U01407MP2008PTC021121	गोल्डन ईगल हाई टेक प्रायवेट लिमिटेड
46	U01407MP2013PTC030070	भगवान सीड उपादान प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
47	U01407MP2013PTC030604	आकाहारी एग्रीकल्चर प्रायवेट लिमिटेड
48	U01410MP1989PTC005628	गायत्री मिनरल्स एनड डोलोमाईट्स प्रायवेट लिमिटेड
49	U01511MP1987PTC004078	क्लासिक केटल फीड्स प्रायवेट लिमिटेड
50	U01511MP1993PTC007875	पुष्पमोहन डेयरी प्रायवेट लिमिटेड
51	U01511MP2000PTC013977	इन्सेन्ट स्वीटनस प्रायवेट लिमिटेड
52	U01513MP1986PTC003290	श्री वेंकटेश पोलीमर्स प्रायवेट लिमिटेड
53	U01514MP1987PTC004013	दडवाल ओईल्स प्रायवेट लिमिटेड
54	U01514MP1988PTC004750	नवकार फूड्स प्रायवेट लिमिटेड
55	U01549MP1984PTC002518	एराईज फूड्स प्रोडक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
56	U01711MP1983PTC004491	दीपक जिनकोटस प्रायवेट लिमिटेड
57	U01711MP1994PTC008572	एन.जी.फैब्रिक्स प्रायवेट लिमिटेड
58	U01711MP1995PTC009886	मंगलम स्पीनस प्रायवेट लिमिटेड
59	U01729MP1984PTC002331	इंदिरा सिन्थेटिक्स प्रायवेट लिमिटेड
60	U01911MP1988PTC004777	श्रीनाथ टायर्स प्रायवेट लिमिटेड
61	U02001MP1995PTC010018	नीता प्लानटेशनस प्रायवेट लिमिटेड
62	U02010MP1980PTC001652	इन्डो बुड प्रोडक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
63	U02101MP1990PTC006036	प्रिज्म स्टेशनरी प्रायवेट लिमिटेड
64	U02211MP1987PTC004056	अनय ग्राफिक्स प्रायवेट लिमिटेड
65	U02211MP1993PTC007916	जेफिरिसन प्रिन्ट टेक प्रायवेट लिमिटेड
66	U02211MP1996PTC010627	भोपाल मार्केट प्रोजेक्शन प्रायवेट लिमिटेड
67	U02411MP1983PTC002224	खजुराहो केमिकल्स प्रायवेट लिमिटेड
68	U02411MP1986PTC003659	सर्ग केमिकल्स प्रायवेट लिमिटेड
69	U02411MP1994PTC008540	भापोल इलेक्ट्रोकेम प्रायवेट लिमिटेड
70	U02411MP1995PTC009883	ओमनी कार्बोनिक्स प्रायवेट लिमिटेड
71	U02412MP1975PTC001321	नेत्रजीव केमिकल्स एन्ड फर्टिलाइजर्स प्रायवेट लिमिटेड
72	U02421MP1971PTC001372	पेस्टीसाइड्स मेन्युफैक्चरिंग कम्पनी प्रायवेट लिमिटेड
73	U02421MP1988PTC004585	छत्तीसगढ़ पेस्टीसाइड्स प्रायवेट लिमिटेड
74	U02423MP1977PTC001394	इम्फारलेब प्रायवेट लिमिटेड
75	U02423MP1980PTC001653	एलेन फार्मास्युटिकल्स प्रायवेट लिमिटेड
76	U02423MP1983PTC002172	आलस्पन केमिकल्स प्रायवेट लिमिटेड
77	U02423MP1984PTC002514	मेकवेल फार्मास्युटिकल्स प्रायवेट लिमिटेड
78	U02423MP1984PTC002547	गणेश फार्मास्युटिकल्स प्रायवेट लिमिटेड
79	U02423MP1985PTC002964	समर्पण ड्रग्स एन्ड केमिकल्स प्रायवेट लिमिटेड
80	U02423MP1986PTC003669	एसके मेडिसिन प्रायवेट लिमिटेड
81	U02423MP1988PTC004930	सरोज फार्मास्युटिकल्स प्रायवेट लिमिटेड
82	U02423MP1990PTC005903	रॉयल ड्रग्स प्रायवेट लिमिटेड
83	U02423MP1990PTC006171	जयलीन फार्मास्युटिकल्स प्रायवेट लिमिटेड
84	U02423MP1995PTC009080	वासव फार्मास्युटिकल्स प्रायवेट लिमिटेड
85	U02423MP2000PTC013981	राजेश्वरी हर्बल्स प्रायवेट लिमिटेड
86	U02424MP1976PTC001373	ग्रोवन साूप प्रायवेट लिमिटेड
87	U02472MP1996PTC011354	विसाईव फार्मा प्रायवेट लिमिटेड
88	U02511MP1989PTC005114	स्वाती टियूल्स प्रायवेट लिमिटेड
89	U02511MP1996PTC010516	सिमरन टियूल्स प्रायवेट लिमिटेड
90	U02511MP1996PTC010552	अपूर्वा रबर्स प्रायवेट लिमिटेड
91	U02519MP1997PTC011786	सिदार्थ फोम एन्ड फर्निशिंग प्रायवेट लिमिटेड
92	U02520MP1980PTC001660	पेकिंग एन्ड प्लास्टिक इन्ड प्रायवेट लिमिटेड
93	U02520MP1985PTC003133	शिव शक्ति पोलीमोल्ड प्रायवेट लिमिटेड
94	U02520MP1987PTC003949	प्रिन्टो प्लास्ट प्रायवेट लिमिटेड

95	U02520MP1994PTC008318	प्रीती रेजिन प्लास्ट प्रायवेट लिमिटेड
96	U02611MP1993PTC007796	चम्बल पम्पस प्रायवेट लिमिटेड
97	U02694MP1983PTC002201	वल्लभ सीमेन्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
98	U02694MP1984PTC002387	चंचल सीमेन्ट प्रायवेट लिमिटेड
99	U02694MP1984PTC002448	राछो कार्मशियल एन्ड सीमेन्ट इण्डस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड
100	U02694MP1990PTC006136	सरबगं मिनरल्स प्रायवेट लिमिटेड
101	U02710MP1972PTC001125	बरजात्या सेल्स प्रायवेट लिमिटेड
102	U02710MP1977PTC001411	विक्रम मेटल पॉवडर्स प्रायवेट लिमिटेड
103	U02710MP1979PTC001539	रागीनी स्टील्स इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
104	U02710MP1983PTC002278	कॉस्मास फ्रेब्रिकेटर्स एन्ड इंजीनियर्स प्रायवेट लिमिटेड
105	U02710MP1985PTC002798	श्री स्टील फब्रो इण्डस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड
106	U02710MP1985PTC002873	जे.डी.गोयल स्टील्स प्रायवेट लिमिटेड
107	U02710MP1985PTC002912	एस.एम.एलॉयज प्रायवेट लिमिटेड
108	U02710MP1985PTC002951	अंजनी स्टील्स प्रायवेट लिमिटेड
109	U02710MP1985PTC003178	जी.टी.बी.स्टील एन्ड एलाय मिक्स प्रायवेट लिमिटेड
110	U02710MP1986PTC003655	भोपाल एलॉय कॉसिटरस प्रायवेट लिमिटेड
111	U02710MP1987PTC003801	भोपाल इन्डकशन्स प्रायवेट लिमिटेड
112	U02710MP1987PTC003848	नवज्योत स्टील री रोलिंग मिक्स प्रायवेट लिमिटेड
113	U02710MP1987PTC003953	तोषनीवाल मेटल इण्डस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड
114	U02710MP1987PTC004273	चिराग आयरन एन्ड एलॉयज प्रायवेट लिमिटेड
115	U02710MP1988PTC004519	जी बी प्रीसीजन इंजीनियरिंग प्रायवेट लिमिटेड
116	U02710MP1989PTC005616	पारस ट्रॉन्सलम प्रायवेट लिमिटेड
117	U02710MP1990PTC006058	महादेव फैंरो एलॉयज प्रायवेट लिमिटेड
118	U02710MP1990PTC006072	लॉर्ड एल्युमिनियम प्रायवेट लिमिटेड
119	U02710MP1991PTC006222	श्री जगदम्बा स्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड
120	U02710MP1991PTC006541	सादुल स्टील्स प्रायवेट लिमिटेड
121	U02710MP1992PTC007081	दुबे स्टील्स प्रायवेट लिमिटेड
122	U02710MP1994PTC008598	विनय मेटलफयुजन प्रायवेट लिमिटेड
123	U02710MP1995PTC009675	क्वालिटी टियुवलर पोल्स प्रायवेट लिमिटेड
124	U02710MP1996FTC011439	ओमेगा फास्टनर्स प्रायवेट लिमिटेड
125	U02710MP1996PTC010957	ग्रेडेड एलायज एन्ड स्टील प्रायवेट लिमिटेड
126	U02710MP2005PTC017395	बाल किशन स्टील प्रायवेट लिमिटेड
127	U02911MP1988PTC004483	टी आर कन्डक्टर्स प्रायवेट लिमिटेड
128	U02911MP1990PTC006154	पूजा एग्रो इक्यूपमेन्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
129	U02911MP1994PTC008678	के.के.हाउस वेयर प्रायवेट लिमिटेड
130	U02919MP1984PTC002585	प्रगतिशील कॉस्टिंग्स प्रायवेट लिमिटेड
131	U02929MP1987PTC003998	गोविन्द इलेक्ट्रोडस प्रायवेट लिमिटेड
132	U02929MP1988PTC004571	ओम इन्जुलेटर्स प्रायवेट लिमिटेड
133	U02930MP1993PTC007891	महालक्ष्मी ऑटो लेम्पस कम्पनी प्रायवेट लिमिटेड
134	U02930MP1995PTC009554	पगारिया पोलीमर्स प्रायवेट लिमिटेड
135	U03110MP1982PTC002034	राम्मा पम्पस प्रायवेट लिमिटेड
136	U03110MP1987PTC004099	रैनबो वायर्स प्रायवेट लिमिटेड
137	U03110MP1988PTC004323	डावर शपर वेयर कम्पनी प्रायवेट लिमिटेड
138	U03210MP1971PTC001444	प्रीसिजन इलेक्ट्रिकल्स एन्ड इलेक्ट्रनिक्स प्रायवेट लिमिटेड
139	U03210MP1984PTC002385	मेकवेल्ड इलेक्ट्रोडस प्रायवेट लिमिटेड
140	U03210MP1985PTC002878	पूजा सेल्स प्रायवेट लिमिटेड
141	U03210MP1987PTC004070	सोरिबा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
142	U03210MP1997PTC011553	सविता इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
143	U03210MP1999PTC013717	कम्पोनेन्ट प्लस प्रायवेट लिमिटेड
144	U03311MP1983PTC002248	हररिप केप्सूल्स प्रायवेट लिमिटेड
145	U03410MP1991PTC006191	शिल्पा आटोमोबाईल्स प्रायवेट लिमिटेड
146	U04520MP1986PTC003235	नीलगिरी कन्सट्रक्शन कम्पनी प्रायवेट लिमिटेड
147	U04520MP1987PTC004030	हिंदुजा बिल्डिंग प्रायवेट लिमिटेड
148	U04520MP2004PTC017030	राजवंश बिल्डर्स एन्ड डवलपर्स प्रायवेट लिमिटेड

149	U04520MP2005PTC017371	जस्सी बिल्टकॉन प्रायवेट लिमिटेड
150	U04520MP2005PTC017486	रामनाथ एस्टेट डब्लपर्स प्रायवेट लिमिटेड
151	U04520MP2005PTC018150	सवित्री कन्सट्रक्शन्स इन्दौर प्रायवेट लिमिटेड
152	U05139MP1984PTC002437	सुपर डोमेस्टिक एप्लायंसेस प्रायवेट लिमिटेड
153	U06302MP1996PTC011281	सत्यम कोल्ड स्टोरेज प्रायवेट लिमिटेड
154	U06302MP2000PTC014226	त्रिकुटा कोल्ड स्टोरेज प्रायवेट लिमिटेड
155	U06591MP2000PTC014034	सतना सिक्कुरिटीज प्रायवेट लिमिटेड
156	U07310MP1995PTC009631	सेन्चुरी फार्मा एन्ड रिसर्च लेब्स प्रायवेट लिमिटेड
157	U07414MP1988PTC004487	फ्रेन्ड्स मेटवैल प्रायवेट लिमिटेड
158	U07414MP1988PTC004853	ट्रेन्ड सेटर कन्सलटेन्ट्स एन्ड ट्रेडर्स प्रायवेट लिमिटेड
159	U07492MP1996PTC011221	रेवांचल इण्डस्ट्रीयल सिक्कुरिटी इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
160	U07495MP1993PTC007830	साई कोरुगेशन एन्ड पैकेजिंग प्रायवेट लिमिटेड
161	U07495MP1994PTC008464	बचन केप्स प्रायवेट लिमिटेड
162	U07495MP1996PTC010613	जी.जे.पैकेजिंग प्रायवेट लिमिटेड
163	U12930MP1989PTC005312	कसारा यूटेन्सिल्स प्रायवेट लिमिटेड
164	U13100MP2012PTC027765	जेनम रिसॉर्सेज मिनरल प्रायवेट लिमिटेड
165	U13100MP2012PTC027825	ओएसिस अथ्र माईनिंग प्रोजेक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
166	U13200MP2011PTC026346	इन्ड माईनिंग एन्ड इस्पात प्रायवेट लिमिटेड
167	U13201MP1999PTC013891	सिसोदिया माईनिंग प्रायवेट लिमिटेड
168	U13209MP1984PTC002616	यूनिवर्सल मेटल प्रेसिंग इण्डस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड
169	U13209MP1990PTC005697	वाधवानी इण्डस्ट्रीयल टूल्स प्रायवेट लिमिटेड
170	U13209MP2013PTC030455	सेलेस्टेल फेरो एलायज प्रायवेट लिमिटेड
171	U14101MP1988PTC004622	महिधर मोजाईक इण्डस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड
172	U14101MP1992PTC007269	अर्चना ग्रनाइट्स प्रायवेट लिमिटेड
173	U14101MP1994PTC008222	भूषन स्टोन्स प्रायवेट लिमिटेड
174	U14101MP2002PTC015445	यश माईन्स एन्ड मार्बल्स इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
175	U14102MP1989PTC005453	हीरामनी ग्रेनाइट्स प्रायवेट लिमिटेड
176	U14102MP1990PTC006037	अरविन्द वाइट मार्बल एन्ड ग्रेनाइट्स प्रायवेट लिमिटेड
177	U14102MP1993PTC008036	कंचन ग्रनाइट्स एन्ड मिनरल्स प्रायवेट लिमिटेड
178	U14106MP1985PTC003096	सुंदरम टाईलस प्रायवेट लिमिटेड
179	U15101MP1990PTC006043	श्रजी न्यूट्रिन्ट्स फूड प्रायवेट लिमिटेड
180	U15111MP1987PTC003872	अरोरा डिस्टीलरीज प्रायवेट लिमिटेड
181	U15111MP1995PTC008966	धनन्जय फूड्स प्रायवेट लिमिटेड
182	U15135MP1985PTC003040	एम.पी.फूड्स प्रायवेट लिमिटेड
183	U15135MP1998PTC012656	मालिनी फूड्स एन्ड ब्रवरेजेज प्रायवेट लिमिटेड
184	U15136MP2008PTC020264	साईजिंग फूड्स इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
185	U15142MP1973PTC001216	मुरैना आईल प्रोडक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
186	U15142MP1980PTC001658	अफरान आईलस इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
187	U15142MP1982PTC002022	विंध्या एक्सट्रूड्स प्रायवेट लिमिटेड
188	U15142MP1991PTC006414	सरायपाली आईल्स प्रायवेट लिमिटेड
189	U15143MP1977PTC001426	शाजापुर सोल्वेन्ट एक्सट्रूड्स प्रायवेट लिमिटेड
190	U15143MP1985PTC003045	पचौरी आईल मिल्स प्रायवेट लिमिटेड
191	U15143MP1986PTC003701	ओ.के.एग्रो इण्डस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड
192	U15143MP2000PTC014173	प्रीसिजन टर्नोमेटिक्स प्रायवेट लिमिटेड
193	U15200MP1982PTC001979	यशोदा डेयरी प्रायवेट लिमिटेड
194	U15203MP1999PTC013465	शिवगंगा डेयरी प्रोडक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
195	U15205MP1999PTC013753	पार्श्वनाथ कोल्ड स्टोरेज प्रायवेट लिमिटेड
196	U15310MP2008PTC020985	संकल्प फूड्स प्रायवेट लिमिटेड
197	U15311MP1983PTC002283	आदर्श फ्लोर मिल्स प्रायवेट लिमिटेड
198	U15311MP1987PTC004242	शुध्द आटा मिल्स प्रायवेट लिमिटेड
199	U15315MP1987PTC004143	जवाधिया पल्सेज प्रायवेट लिमिटेड
200	U15316MP1985PTC002780	एसोसिएट्स फूड प्राडक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
201	U15400MP2010PTC024730	लिब्रा फूड वर्क्स प्रायवेट लिमिटेड
202	U15400MP2011PTC025668	सोहगं एग्रोटेक प्रायवेट लिमिटेड

203	U15400MP2012PTC028689	श्री मोनीकृपा मिल्क प्रोडक्ट्स इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
204	U15400MP2012PTC029447	बंसल ब्रदर्स एग्रो फूड्स प्रायवेट लिमिटेड
205	U15412MP1987PTC004284	बीलाईन विक्क फूड प्रायवेट लिमिटेड
206	U15412MP2003PTC015847	ओम श्री फूड्स प्रायवेट लिमिटेड
207	U15491MP2002PTC015192	एस.एस.टी वर्ल्ड प्रायवेट लिमिटेड
208	U15500MP2010PTC024668	किमबेरलाईट डिस्टीलरीज प्रायवेट लिमिटेड
209	U15500MP2012PTC027540	यूनिक बोटलिंग इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
210	U15510MP2012PTC029512	एजिस स्प्रिट एन्ड वाईन्स प्रायवेट लिमिटेड
211	U15511MP1987PTC003811	गोल्ड वाटर ब्रेवरेजेज प्रायवेट लिमिटेड
212	U15520MP1993PTC007950	महाकाल डिस्टीलरीज प्रायवेट लिमिटेड
213	U15541MP2010PTC023734	गरिमा ब्रेवरेजेज प्रायवेट लिमिटेड
214	U15541MP2012PTC027488	सनराईज बोटलर्स इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
215	U15543MP1998PTC013093	खोडियार ब्रेवरेजेज प्रायवेट लिमिटेड
216	U15549MP1988PTC004435	पेरागोन नैरौ फेब्रिक्स प्रायवेट लिमिटेड
217	U15549MP1993PTC007787	संधई एप्पेरल्स मेन्युफैक्चरिंग कम्पनी प्रायवेट लिमिटेड
218	U16003MP1993PTC007589	मनु पान मसाला प्रायवेट लिमिटेड
219	U16009MP2011PTC025523	रोहित टोम्बाको प्रायवेट लिमिटेड
220	U17101MP1990PTC005651	पदम श्री गारमेन्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
221	U17111MP1991PTC006623	पूणिमा गारमेन्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
222	U17115MP1987PTC004104	संगम स्पीनर्स प्रायवेट लिमिटेड
223	U17116MP1987PTC004107	राडो टेक्सटाईल प्रोसेसर्स प्रायवेट लिमिटेड
224	U17121MP1987PTC004051	महेन्द्र जीनिंग प्रायवेट लिमिटेड
225	U17121MP1989PTC005485	रजत कॉटन मिल्स प्रायवेट लिमिटेड
226	U17121MP1997PTC012488	जमदोकर केमटेक्स प्रायवेट लिमिटेड
227	U17121MP1998PTC013205	सुरेन्द्र कॉटन प्रायवेट लिमिटेड
228	U17124MP1986PTC003490	गालीमार सिन्थेटिक्स प्रायवेट लिमिटेड
229	U17124MP2003PTC015572	डुपिओन फेब्रिक्स प्रायवेट लिमिटेड
230	U17235MP1997PTC012341	टी.एस.फिल्टर एन्ड फेब्रिक्स प्रायवेट लिमिटेड
231	U17290MP1994PTC008604	निकोलस वूलटेक्स प्रायवेट लिमिटेड
232	U17300MP2010PTC023280	मंगल श्री फाईबर एन्ड रियलटी प्रायवेट लिमिटेड
233	U17301MP2010PTC022890	मिडलेण्ड एन्टरप्रायजेज प्रायवेट लिमिटेड
234	U17303MP1995PTC010120	कात्यानी पोलीमर्स प्रायवेट लिमिटेड
235	U17303MP1996PTC010714	भवभूती पोलीमर्स प्रायवेट लिमिटेड
236	U18101MP1997PTC012143	आदिनाथ एप्पेरल्स प्रायवेट लिमिटेड
237	U18101MP2000PTC014053	गोल्डरिच सिन्थेटिक्स प्रायवेट लिमिटेड
238	U18101MP2012PTC027689	बॉस रिटेल एन्ड मेन्युफैक्चरिंग इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
239	U18109MP2005PTC017634	ए.पी.गुलमोहर क्रीएशन प्रायवेट लिमिटेड
240	U18109MP2005PTC017743	प्रोफाई फेसन हाउस प्रायवेट लिमिटेड
241	U18109MP2010PTC023847	रजनीगंधा एन्टरप्रायजेज इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
242	U19120MP1989PTC005510	शेखावत लेदर्स एन्ड स्टील प्रायवेट लिमिटेड
243	U19129MP1980PTC001669	महावीर लेदर्स बोर्ड्स प्रायवेट लिमिटेड
244	U20211MP1989PTC005611	लाहोटी लेमीनेट्स प्रायवेट लिमिटेड
245	U20211MP1997PTC012162	टेफको प्लायवुड प्रायवेट लिमिटेड
246	U20222MP1992PTC007306	श्री सत्या ग्रेनाईट्स प्रायवेट लिमिटेड
247	U21012MP1991PTC006207	विक्टरी पोलीपैक प्रायवेट लिमिटेड
248	U21012MP1992PTC007370	प्रेसेज बोक्स प्रायवेट लिमिटेड
249	U21014MP1974PTC001265	भोपाल पैकर्स प्रायवेट लिमिटेड
250	U21014MP1988PTC004314	पीथमपुर पैकेजिंग्स प्रायवेट लिमिटेड
251	U21014MP2003PTC016259	साज पैकर्स प्रायवेट लिमिटेड
252	U21022MP2006PTC019022	नीलाम्बर प्रिन्ट एन्ड पैकेजिंग प्रायवेट लिमिटेड
253	U21098MP1982PTC001998	कम्प्यूटर स्टेशनरी मेन्युफैक्चरिंग इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
254	U22100MP2013PTC029914	ब्लीटज टूडे प्रकाशन प्रायवेट लिमिटेड
255	U22101MP1988PTC004893	मध्य प्रिन्ट मीडिया प्रायवेट लिमिटेड
256	U22101MP1988PTC004926	शैलेश पेपर्स प्रायवेट लिमिटेड

257	U22110MP1988PTC004877	कोरल केलीग्राफर्स प्रायवेट लिमिटेड
258	U22110MP1990PTC005699	एल.टी.डी.पब्लिशर्स प्रायवेट लिमिटेड
259	U22120MP1990PTC005738	सिग्मा पेपर्स प्रायवेट लिमिटेड
260	U22120MP2008PTC021007	महाकाल मीडिया एन्ड एन्टरटेन्मेन्ट प्रायवेट लिमिटेड
261	U22120MP2009PTC022179	बीएनपी रियल इन्फो मीडिया इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
262	U22121MP1987PTC003795	उलट पलट पब्लिकेशन प्रायवेट लिमिटेड
263	U22121MP1988PTC004811	अफकार राईटर्स एन्ड पब्लिशर्स प्रायवेट लिमिटेड
264	U22122MP1990PTC006151	अभिमत प्रकाशन प्रायवेट लिमिटेड
265	U22122MP1999PTC013926	सुविधा लॉ हाउस प्रायवेट लिमिटेड
266	U22122MP2005PTC017261	नव भारत मल्टीमीडिया प्रायवेट लिमिटेड
267	U22200MP1990PTC005963	कश्यप पब्लिकेशन प्रायवेट लिमिटेड
268	U22210MP2012PTC029104	फेथरलिक प्रिन्टिंग एन्ड एडवर्टाजिंग सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
269	U22211MP1984PTC002358	ई एस डी प्रिन्टिंग हाउस प्रायवेट लिमिटेड
270	U22211MP1995PTC009562	मेकग्रो ऑफसेट प्रायवेट लिमिटेड
271	U22212MP1988PTC004682	कारोनेट प्रिन्टिंग हाउस प्रायवेट लिमिटेड
272	U22219MP1986PTC003460	शिवा प्रिन्टग्राफिक्स प्रायवेट लिमिटेड
273	U22219MP1990PTC005974	कश्यप प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड
274	U22300MP2012PTC029217	सुरभि न्यूज ब्रोडकास्ट एन्ड एन्टरटेनमेन्ट सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
275	U23201MP1987PTC003878	सायनेक्स लेबोरेटरीज प्रायवेट लिमिटेड
276	U23210MP1986PTC003313	तेरा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रायवेट लिमिटेड
277	U24101MP1983PTC002177	शक्ति रेजिन्स प्रायवेट लिमिटेड
278	U24101MP1983PTC002190	हेमू पोलिऑक्सीजन प्रायवेट लिमिटेड
279	U24101MP1983PTC002195	सी.पी.बोटलिंग कम्पनी प्रायवेट लिमिटेड
280	U24101MP1984PTC002599	रजत सॉल्ट एन्ड एलाईड प्रोडक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
281	U24101MP1985PTC002724	स्वास्तिक रीफिल्स प्रायवेट लिमिटेड
282	U24101MP1986PTC003331	आईबीइएल केमिकल्स प्रायवेट लिमिटेड
283	U24101MP1989PTC005103	एन.एच.सिन्थेटिक्स प्रायवेट लिमिटेड
284	U24101MP1989PTC005423	वी.एम.सिन्थेटिक्स प्रायवेट लिमिटेड
285	U24111MP1994PTC008323	अंसलिका केमिकल्स प्रायवेट लिमिटेड
286	U24111MP1995PTC009718	श्री शेषगिरी कैमिकल्स प्रायवेट लिमिटेड
287	U24114MP1978PTC001457	कैपकॉन प्रायवेट लिमिटेड
288	U24114MP1986PTC003439	आर.जी.केमिकल्स प्रायवेट लिमिटेड
289	U24114MP1998PTC012676	निशिथा केमिकल्स प्रायवेट लिमिटेड
290	U24116MP1980PTC001703	सेफक्स इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
291	U24116MP1982PTC002020	सेन्ट्रल इंडिया ऑर्गनिकस प्रायवेट लिमिटेड
292	U24117MP1988PTC004668	केमट्रोन केमिकल्स प्रायवेट लिमिटेड
293	U24117MP1995PTC009945	रूप ज्योति पॉवर प्रोजेक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
294	U24119MP2013PTC031154	जर्मन ओआरजी केम इण्डस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड
295	U24121MP1988PTC004805	अहिल्या फर्टिलाइजर्स प्रायवेट लिमिटेड
296	U24123MP1990PTC005742	मयूर फर्टिलाइजर्स एन्ड पेस्टीसाइड्स प्रायवेट लिमिटेड
297	U24129MP1997PTC011800	काकडा फर्टिलाइजर्स एन्ड केमिकल्स प्रायवेट लिमिटेड
298	U24132MP1986PTC003285	समग्र प्लास्ट प्रायवेट लिमिटेड
299	U24134MP2001PTC014832	जबली पोलिमर प्रायवेट लिमिटेड
300	U24139MP1994PTC008080	राजा कोयर फोम प्रोडक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
301	U24211MP2012PTC028423	आनंद पेस्टीसाइड्स प्रायवेट लिमिटेड
302	U24219MP1980PTC001684	दुर्गा पेस्टीसाइड्स प्रायवेट लिमिटेड
303	U24219MP1992PTC007107	पेनगुन पेन्ट्स इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
304	U24219MP1998PTC012570	अलहिलाल एग्रो केम एन्ड फर्टिलाइजर्स प्रायवेट लिमिटेड
305	U24222MP1990PTC005985	राली पेन्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
306	U24222MP1998PTC012894	ब्राइट ऑर्गनिक्स प्रायवेट लिमिटेड
307	U24230MP2009PTC022373	कुबेर फार्मास्युटिकल्स प्रायवेट लिमिटेड
308	U24231MP1986PTC003547	रूपल फार्मास्युटिकल्स प्रायवेट लिमिटेड
309	U24231MP1995PTC009300	बून लेबोरेटरीज प्रायवेट लिमिटेड
310	U24231MP1999PTC013558	अरन्तजेन ड्रग्स एन्ड फार्मुलेशन प्रायवेट लिमिटेड

311	U24232MP1976PTC001390	महिन्द्रा फार्मास्युटिकल्स प्रायवेट लिमिटेड
312	U24232MP1985PTC002765	पीथमपुर फार्मा सर्जिकल कॉटन प्रायवेट लिमिटेड
313	U24232MP1986PTC003230	सिस्कॉन ऐरोफार्मा
314	U24232MP1992PTC007095	रोबिन कम्फोर एन्ड ऑर्गनिक्स प्रायवेट लिमिटेड
315	U24232MP1998PTC012853	कलिफ फार्मास्युटिकल्स प्रायवेट लिमिटेड
316	U24232MP2003PTC015781	मेडिटेक लेबोरेटरीज प्रायवेट लिमिटेड
317	U24232MP2003PTC015914	एमसी मोरिओन फार्मास्युटिकल्स प्रायवेट लिमिटेड
318	U24232MP2011PTC026552	अर्वित फार्मा इन्नोवेशन प्रायवेट लिमिटेड
319	U24232MP2011PTC027196	ओकता लाईफसाइन्स प्रायवेट लिमिटेड
320	U24232MP2013PTC029891	फ्रन्डस रेमिडीज प्रायवेट लिमिटेड
321	U24233MP2013PTC030502	पापा फार्मास्युटिकल्स एन्ड कॉस्मेटिक्स प्रायवेट लिमिटेड
322	U24239MP1982PTC002075	यूनो लैब्स प्रायवेट लिमिटेड
323	U24240MP2012PTC029120	एड्वास हाईजिन प्रायवेट लिमिटेड
324	U24241MP1999PTC013524	वास वैल सुरफैक्टेंट्स प्रायवेट लिमिटेड
325	U24244MP1981PTC001805	डेलार्डन स्प्रे सिस्टम्स प्रायवेट लिमिटेड
326	U24249MP2009PTC021717	प्रिन्स फ्लेवर्स एन्ड फ्रेग्रानसीटेक्नोलॉजी एन्ड ट्रेडमार्क प्रायवेट लिमिटेड
327	U24293MP1988PTC004825	श्री एग्रो केमिकल्स प्रायवेट लिमिटेड
328	U24294MP1992PTC007179	नित्या कॅलर लैब्स प्रायवेट लिमिटेड
329	U24297MP1996PTC010877	यम्स इन्डस प्रिन्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
330	U25111MP1984PTC002458	हिम्मत टायर्स प्रायवेट लिमिटेड
331	U25111MP1986PTC003380	साईमा रबर्स प्रायवेट लिमिटेड
332	U25111MP1991PTC006374	नेसन टायर्स एन्ड ट्रेड्स प्रायवेट लिमिटेड
333	U25119MP1984PTC002548	सेन्थम ट्रेड्स प्रायवेट लिमिटेड
334	U25121MP1986PTC003288	जी के टायटनर इण्डस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड
335	U25191MP1974PTC001253	रिजिड टैयूब प्रायवेट लिमिटेड
336	U25191MP1985PTC002783	धीरज पोलिपेक्स प्रायवेट लिमिटेड
337	U25191MP1988PTC004396	पायोनियर रबर्स प्रायवेट लिमिटेड
338	U25200MP1988PTC004385	एमसन्स केबल्स प्रायवेट लिमिटेड
339	U25200MP1989PTC005516	चारु पोली प्लास्ट प्रायवेट लिमिटेड
340	U25200MP2008PTC021177	विश्वास एक्सट्रूजन प्रायवेट लिमिटेड
341	U25200MP2010PTC024551	दक्का पोलीमर्स प्रायवेट लिमिटेड
342	U25200MP2013PTC030617	राजेश पोलीटेक प्रायवेट लिमिटेड
343	U25201MP1995PTC010050	जाजू प्लास्टोवेयर्स प्रायवेट लिमिटेड
344	U25202MP1995PTC009539	ईशकुल पेपर प्लास्ट प्रायवेट लिमिटेड
345	U25202MP2012PTC028844	जय भाले पैकेजिंग प्रोडक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
346	U25204MP1985PTC002732	तिरुपति पोली वोविनसेक्स प्रायवेट लिमिटेड
347	U25207MP1999PTC013587	जे एस एम प्लास्टेक प्रायवेट लिमिटेड
348	U25209MP1984PTC002636	सुमंगल सिन्टेक्स प्रायवेट लिमिटेड
349	U25209MP1984PTC002640	नर्मदा स्टेकवेल प्रायवेट लिमिटेड
350	U25209MP1985PTC003052	डीलक्स कॉउन कार्कस प्रायवेट लिमिटेड
351	U25209MP1985PTC003116	पालेवर बोटलिंग प्रायवेट लिमिटेड
352	U25209MP1986PTC003511	मेथसन्स प्लास्टिक्स एन्ड ग्लासेज प्रायवेट लिमिटेड
353	U25209MP1987PTC003794	संको प्लास्टिक्स प्रायवेट लिमिटेड
354	U25209MP1990PTC006086	सनग्रेस प्लास्टिक्स प्रायवेट लिमिटेड
355	U25209MP1991PTC006455	रेणुकामाता जीनिंग एन्ड प्रेसिंग प्रायवेट लिमिटेड
356	U25209MP2011PTC026716	सती पोलीवेव प्रायवेट लिमिटेड
357	U26915MP1988PTC004656	क्लासिक पाईप्स प्रायवेट लिमिटेड
358	U26921MP1986PTC003402	शुभम टाईल्स प्रायवेट लिमिटेड
359	U26921MP1987PTC004195	विशाल रिफ्रेक्टरीज प्रायवेट लिमिटेड
360	U26921MP1992PTC007364	तोलिया टाईल्स प्रायवेट लिमिटेड
361	U26921MP1998PTC013151	फ्लोर टून टाईल्स प्रायवेट लिमिटेड
362	U26922MP1986PTC003388	श्याम स्पून पाईप्स प्रायवेट लिमिटेड
363	U26922MP1986PTC003684	अनमोल स्पून पाईप्स प्रायवेट लिमिटेड
364	U26931MP1975PTC001343	नर्मदा टाईल्स एन्ड ब्रिक्स कम्पनी प्रायवेट लिमिटेड

365	U26940MP1986PTC003447	ग्वायिलर सीमेन्ट कम्पनी प्रायवेट लिमिटेड
366	U26954MP1984PTC002501	टाईटल टाईल्स प्रायवेट लिमिटेड
367	U27100MP2009PTC022123	बीपीएन स्टील एन्ड आयरन प्रायवेट लिमिटेड
368	U27101MP1982PTC002000	ओमेगा एलायज कास्टिंग्स
369	U27101MP1983PTC002152	गोमतेश्वर मालेबिल्स एन्ड एलायज प्रायवेट लिमिटेड
370	U27101MP1986PTC003339	सगुन मेटल इण्डस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड
371	U27101MP1989PTC005154	आयुष एलायज प्रायवेट लिमिटेड
372	U27102MP2008PTC020727	सतीमेक्स स्टील्स प्रायवेट लिमिटेड
373	U27103MP1984PTC002677	ओलमपियन डाई कास्टिंग्स प्रायवेट लिमिटेड
374	U27104MP1994PTC008871	अंजु स्टील्स प्रायवेट लिमिटेड
375	U27105MP1972PTC001139	मुरेना रिरोलिंग एन्ड इण्डस्ट्रीयन डब्लपमेन्ट कम्पनी प्रायवेट लिमिटेड
376	U27109MP1981PTC001784	डायलाईन कोएटिंग्स प्रायवेट लिमिटेड
377	U27109MP1982PTC001904	न्यु फाउंडरी एन्ड कास्टिंग्स प्रायवेट लिमिटेड
378	U27109MP1986PTC003414	सन्नी स्टील्स प्रायवेट लिमिटेड
379	U27109MP1986PTC003617	कीसेन्ट एलायज प्रायवेट लिमिटेड
380	U27109MP1987PTC004275	गोल्डन लेमीनेटर्स प्रायवेट लिमिटेड
381	U27109MP2011PTC026154	ग्लोबेक्स इण्डस्ट्रीज इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
382	U27201MP1988PTC004397	शारदा एल्युमीनियम कन्डक्टर्स प्रायवेट लिमिटेड
383	U27203MP1985PTC002737	मालवा पाईप्स एन्ड टियूब्स प्रायवेट लिमिटेड
384	U27203MP1987PTC004257	पीथमपुरिया एल्युमिना शीट मेटल वर्क्स प्रायवेट लिमिटेड
385	U27203MP1989PTC005546	गंगा पाईप्स प्रायवेट लिमिटेड
386	U27203MP1991PTC006258	श्रीनाथ केप्स मैनुफैक्चर्स प्रायवेट लिमिटेड
387	U27205MP2011PTC025359	एडवर्ल्ड ज्वैलर्स आई प्रायवेट लिमिटेड
388	U27310MP1980PTC001631	आईडियल कास्ट इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
389	U27310MP1981PTC001769	पारेख रि-रोलिंग प्रायवेट लिमिटेड
390	U27310MP1985PTC003023	सराडिगा डाई कॉस्टर्स प्रायवेट लिमिटेड
391	U27310MP1985PTC003136	नरसिंह स्टील रि रोलिंग मिल प्रायवेट लिमिटेड
392	U27310MP2007PTC019276	केएलएम इस्पात प्रायवेट लिमिटेड
393	U27320MP1985PTC003057	नवदीप मेटल्स प्रायवेट लिमिटेड
394	U27320MP1997PTC011821	ग्वालियर मेटल्स प्रायवेट लिमिटेड
395	U28111MP1986PTC003337	सतीमेक्स फैंब्रिकेटर्स एन्ड इंजीनियर्स प्रायवेट लिमिटेड
396	U28111MP1989PTC005356	शार्इन ओ शार्इन मेटालिक प्रायवेट लिमिटेड
397	U28112MP1992PTC007310	गृह लक्ष्मी फूड्स प्रायवेट लिमिटेड
398	U28112MP1993PTC007990	के के वेल्ड काप्ट प्रायवेट लिमिटेड
399	U28112MP1996PTC010989	एच.जे.एन्अरप्रायजेज प्रायवेट लिमिटेड
400	U28113MP1984PTC002375	बामोर फाउन्डर्स प्रायवेट लिमिटेड
401	U28113MP2004PTC016670	लाईफ एक्सटेंशन टेक्नॉलाजीज प्रायवेट लिमिटेड
402	U28910MP1986PTC003453	आकाश कास्टिंग्स प्रायवेट लिमिटेड
403	U28932MP1980PTC001671	कल्पना मशीन टूल्स प्रायवेट लिमिटेड
404	U28932MP1984PTC002347	स्नेह मेटल्स एलायज प्रायवेट लिमिटेड
405	U28991MP1973PTC001228	निशान सिप्रिंग्स प्रायवेट लिमिटेड
406	U28991MP1992PTC007075	साई वायर प्रोडक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
407	U28993MP1991PTC006433	मन्नालाल ठाकुरिया सेपटी वोल्ट्स एन्ड फायनेन्स प्रायवेट लिमिटेड
408	U28995MP1994PTC008705	आई के.एस. वर्क मास्टर प्रायवेट लिमिटेड
409	U28996MP1985PTC003034	सीओएल टियूब्स प्रायवेट लिमिटेड
410	U28999MP1984PTC002464	जिरकोनिक सिप्रिंग स्टीप्स प्रायवेट लिमिटेड
411	U29100MP2011PTC025247	इपिकयुरेन्स इफिनिटीमशीन इंजीनियरिंग प्रायवेट लिमिटेड
412	U29111MP2000PTC014088	रामकृष्णा ट्रेक्टर्स प्रायवेट लिमिटेड
413	U29199MP1985PTC003068	बुरहानी रोलिंग मिल प्रायवेट लिमिटेड
414	U29212MP1987PTC003939	सिअस ड्रिल टॉल्स प्रायवेट लिमिटेड
415	U29219MP1980PTC001676	इण्डस्ट्रीयल कम्पोनेन्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
416	U29222MP1986PTC003550	स्पेयर ड्रिल प्रायवेट लिमिटेड
417	U29245MP1985PTC003041	एवीएव इंजीनियरिंग प्रायवेट लिमिटेड
418	U29252MP1974PTC001287	रेमो फिल्टर्स प्रायवेट लिमिटेड

419	U29294MP1985PTC003072	हमजा ऑफसेट वर्क्स प्रायवेट लिमिटेड
420	U29300MP2013PTC030747	प्रथमा इंजी टेक एन्ड फोरजिम्स प्रायवेट लिमिटेड
421	U29303MP1985PTC002940	एवर कूल प्रायवेट लिमिटेड
422	U29305MP1990PTC005702	सत्कार इलेक्ट्रोडस प्रायवेट लिमिटेड
423	U29307MP2012PTC028613	पीबीएस सिस्टमस एन्ड एनर्जीज प्रायवेट लिमिटेड
424	U29308MP1989PTC005332	अंजली कूलर्स प्रायवेट लिमिटेड
425	U29308MP1996PTC010593	प्लेसवैल कम्प्यूटर्स प्रायवेट लिमिटेड
426	U29308MP1999PTC013645	सुप्रा स्कीबल प्रायवेट लिमिटेड
427	U30706MP1985PTC003207	अंकक्षत इन्स्युलेटर्स प्रायवेट लिमिटेड
428	U31100MP1984PTC002676	गाबा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रायवेट लिमिटेड
429	U31101MP1985PTC003125	आरियन्स एक्सट्रूशन प्रायवेट लिमिटेड
430	U31101MP1986PTC003377	मेकवेल इलेक्ट्रिकल्स प्रायवेट लिमिटेड
431	U31102MP1998PTC012989	दोएबा इलेक्ट्रिकल्स प्रायवेट लिमिटेड
432	U31200MP1963PTC000956	एवररेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रायवेट लिमिटेड
433	U31200MP1994PTC008837	अर्पित एन्टरप्रायजेज फाईब्रो प्रायवेट लिमिटेड
434	U31300MP1985PTC002899	डी सी इलेक्ट्रिकल्स प्रायवेट लिमिटेड
435	U31300MP1989PTC005377	छिन्दवाडा मेग्नेट वायर प्रायवेट लिमिटेड
436	U31300MP1994PTC008561	विजय वेल्डमेश प्रायवेट लिमिटेड
437	U31300MP2003PTC015839	आक्सफोर्ड केबल्स एन्ड मेटल्स प्रायवेट लिमिटेड
438	U31909MP1985PTC002852	एम.पी.आक्सआईड बैटरीज प्रायवेट लिमिटेड
439	U32101MP1988PTC004817	नर्मदा केबल्स एन्ड कन्डक्टर्स प्रायवेट लिमिटेड
440	U32107MP1987PTC004186	सुपर इलेक्ट्रो लेम्पस प्रायवेट लिमिटेड
441	U32204MP1995PTC009487	जैमसन्स टेलिकम्युनिकेशन्स प्रायवेट लिमिटेड
442	U32204MP1997PTC011914	मिशी टेलिकॉम इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
443	U32204MP2009PTC021744	वैशनवी टेलिकॉम एन्ड कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड
444	U33112MP1960PTC000910	नागरथ इण्डस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड
445	U34102MP1990PTC005764	राजधानी ऑटो उद्योग प्रायवेट लिमिटेड
446	U34102MP1992PTC007255	शिवा पिस्टन एन्ड स्पेयर्स प्रायवेट लिमिटेड
447	U34102MP1994PTC008219	प्रेम ऑटोमोटिव्स एन्ड इंजीनियर्स प्रायवेट लिमिटेड
448	U34102MP1997PTC011854	श्री राम ट्रेक्टर्स एन्ड मोटर्स प्रायवेट लिमिटेड
449	U34300MP1979PTC001554	प्रिंसीजन गियर्स इन्डोर प्रायवेट लिमिटेड
450	U34300MP1982PTC001932	साईलेन्सर्स इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
451	U34300MP1985PTC002962	मानिक ऑटो रेडियेटर्स प्रायवेट लिमिटेड
452	U34300MP1985PTC002977	एम.पी.गियर्स प्रायवेट लिमिटेड
453	U34300MP1987PTC003983	ज्योति ऑटो लाईनर्स प्रायवेट लिमिटेड
454	U34300MP1995PTC008939	विनायक सस्पेंशन ऑटो प्रायवेट लिमिटेड
455	U34300MP2005PTC017369	हरदेव मोटर्स प्रायवेट लिमिटेड
456	U35911MP2003PTC016213	कृष्णा रोड कैरियर प्रायवेट लिमिटेड
457	U36100MP2010PTC024432	कोरे फर्निचर्स प्रायवेट लिमिटेड
458	U36101MP2012PTC028946	सोई वन्दन हेन्डीकाफ्ट प्रायवेट लिमिटेड
459	U36910MP2011PTC026598	डेजीले जेम्स एन्ड ज्वेलरी प्रायवेट लिमिटेड
460	U36911MP1985PTC003059	ओरनामेन्टल फोक्स चैन्स प्रायवेट लिमिटेड
461	U37100MP2013PTC031340	स्वास्तिक ईको टेक ग्रीन प्राइवेटस प्रायवेट लिमिटेड
462	U37200MP2012PTC028082	भोपाल प्लास्टिक रीसाइक्लिंग एन्ड ट्रेडिंग प्रायवेट लिमिटेड
463	U40102MP2011PTC027008	उनागी पॉवर सिस्टमस प्रायवेट लिमिटेड
464	U40107MP1995PTC010144	महामाया थर्मोलिन प्रायवेट लिमिटेड
465	U40108MP2009PTC021497	दवानेर एनर्जी प्रायवेट लिमिटेड
466	U40108MP2012PTC028608	विनडसोल ग्रीन एनर्जी प्रायवेट लिमिटेड
467	U40108MP2013PTC030080	दोहरा हाईड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्रायवेट लिमिटेड
468	U40108MP2013PTC030081	गृह सोलर पॉवर प्रोजेक्ट प्रायवेट लिमिटेड
469	U40108MP2013PTC030082	जानर हाईड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्रायवेट लिमिटेड
470	U40108MP2013PTC031225	साथी पॉवर सोल्यूशन प्रायवेट लिमिटेड
471	U45200MP2007PTC019470	माईलस्टोन एन्टरटेनमेन्ट एन्ड डवलपर्स प्रायवेट लिमिटेड
472	U45200MP2007PTC019751	मातृभूमि डवलपर्स प्रायवेट लिमिटेड

473	U45200MP2007PTC019956	रामपत कन्सट्रक्शन्स प्रायवेट लिमिटेड
474	U45200MP2007PTC019972	अवैल कन्सट्रक्शन्स प्रायवेट लिमिटेड
475	U45200MP2009PTC022312	कमाल इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड इन्वेस्टमेन्ट सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
476	U45200MP2009PTC022548	डीजीआर मार्केटिंग एन्ड कॉलोनाइजस प्रायवेट लिमिटेड
477	U45200MP2010PTC023579	श्रीजी श्रीनिवास इन्फ्रास्ट्रक्चर एनड डब्लपर्स प्रायवेट लिमिटेड
478	U45200MP2010PTC023621	रोमन कॉलोनाइजस प्रायवेट लिमिटेड
479	U45200MP2011PTC026345	विनायक रियलबिल्ड प्रायवेट लिमिटेड
480	U45200MP2011PTC026490	सनीध्या होम्स प्रायवेट लिमिटेड
481	U45200MP2011PTC026792	स्पेलेन्डेड लेण्ड एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड
482	U45200MP2012PTC027479	डीएमबी इन्फ्राटेक प्रायवेट लिमिटेड
483	U45200MP2012PTC027592	बाबा बिल्डसॉफ्ट प्रायवेट लिमिटेड
484	U45200MP2012PTC027810	रुद्रा रियलकॉन प्रायवेट लिमिटेड
485	U45200MP2012PTC028104	एसआरएस इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एन्ड इंजीनियरिंग प्रायवेट लिमिटेड
486	U45200MP2012PTC028425	मौ कृपा इलेक्शन प्रायवेट लिमिटेड
487	U45200MP2012PTC028430	ओम मंगलम देवबिल्ड प्रायवेट लिमिटेड
488	U45200MP2012PTC028922	श्रीनाथ बिल्डर्स एन्ड डब्लपर्स प्रायवेट लिमिटेड
489	U45200MP2012PTC028995	बामन इन्फ्राकन्सट्रक्शन्स प्रायवेट लिमिटेड
490	U45200MP2012PTC029059	सुखराज इन्फ्राडब्लपर्स इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
491	U45200MP2012PTC029065	पुष्पकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड
492	U45200MP2012PTC029630	विशाल ईजीबिल्ड इन्फ्रा प्रायवेट लिमिटेड
493	U45200MP2013PTC029923	मेट्रोविजन इन्फ्राबिल्ड प्रायवेट लिमिटेड
494	U45200MP2013PTC030250	श्री विनायक रियलइन्फ्रा प्रायवेट लिमिटेड
495	U45200MP2013PTC030382	श्री वैशनव इन्फालाइन प्रायवेट लिमिटेड
496	U45200MP2013PTC030684	रियलड्रीम्स इन्फाबुल्स प्रायवेट लिमिटेड
497	U45200MP2013PTC030749	इटर्नल रियल एस्टेट इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
498	U45200MP2013PTC030921	नैनिल कन्सट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड
499	U45200MP2013PTC031360	एस एस मेगाकॉलोनाइजर्स भोपाल प्रायवेट लिमिटेड
500	U45201MP1982PTC002041	पुष्परज एन्सरप्रायजेज प्रायवेट लिमिटेड
501	U45201MP1986PTC003718	आरंभ डबलपर्स इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
502	U45201MP1988PTC004445	पंडित जीएमएस बिल्डर्स प्रायवेट लिमिटेड
503	U45201MP1988PTC004634	दानव कन्सट्रक्शन्स प्रायवेट लिमिटेड
504	U45201MP1989PTC005090	ओमनी डबलपर्स प्रायवेट लिमिटेड
505	U45201MP1990PTC006144	नॉज कन्सट्रक्शन्स प्रायवेट लिमिटेड
506	U45201MP1991PTC006465	शारदा डवलिंग्स प्रायवेट लिमिटेड
507	U45201MP1991PTC006487	साई अपार्टमेन्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
508	U45201MP1992PTC006922	पाटीदार बिल्डर्स प्रायवेट लिमिटेड
509	U45201MP1994PTC008553	महाकौशल प्लानटेशन प्रायवेट लिमिटेड
510	U45201MP1996PTC010473	जी.जे.कौरुगेशन प्रायवेट लिमिटेड
511	U45201MP1997PTC012434	रोमित कन्सट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड
512	U45201MP1998PTC012877	इक्वाटोर कन्सट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड
513	U45201MP1999PTC013532	आरके आधार एवं निर्माण इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
514	U45201MP2001PTC014578	सन साईन डवलिंग प्रायवेट लिमिटेड
515	U45201MP2004PTC016613	देवनारायण इंजीनियर्स एन्ड कॉन्ट्रैक्टर्स प्रायवेट लिमिटेड
516	U45201MP2004PTC016740	सत्यम डब्लपर्स एन्ड फायनेन्स प्रायवेट लिमिटेड
517	U45201MP2006PTC018690	टी.आर.रियल एस्टेट प्रायवेट लिमिटेड
518	U45201MP2009PTC021766	एटलांटा कन्सट्रक्शन कम्पनी प्रायवेट लिमिटेड
519	U45201MP2009PTC022139	गरिमा इन्फ्राबिल्ड प्रायवेट लिमिटेड
520	U45202MP1990PTC006084	डायमंड रिफ्रेक्टरीज प्रायवेट लिमिटेड
521	U45202MP1991PTC006276	प्रेमसन्स कन्सट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड
522	U45202MP1996PTC010594	अमरदीप डब्लपर्स प्रायवेट लिमिटेड
523	U45202MP2006PTC019090	सौर्य प्रोजेक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
524	U45203MP1994PTC008897	डिस्टिनक्ट रियलटी प्रायवेट लिमिटेड
525	U45203MP1997PTC012229	आईकॉन बिल्डर्स प्रायवेट लिमिटेड
526	U45203MP2003PTC015676	टेन्नेससी इंडिया हेल्थ सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड

527	U45209MP2013PTC030213	ओन्नल प्रिफव बिल्डिंग एन्ड स्ट्रक्चर्स प्रायवेट लिमिटेड
528	U45921MP1994PTC008449	धार फायनेन्स प्रायवेट लिमिटेड
529	U50100MP2010PTC023920	जोनसन ट्रेक्टर्स एन्ड मोटर्स प्रायवेट लिमिटेड
530	U50101MP1986PTC003347	आरएवी ऑटो बुल्टस प्रायवेट लिमिटेड
531	U50101MP1986PTC003503	शिवानी साईकल इण्डस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड
532	U50101MP1989PTC005274	बाम्बे व्हीकल्स प्रायवेट लिमिटेड
533	U50101MP1995PTC009548	शिवा मोटर्स प्रायवेट लिमिटेड
534	U50102MP1986PTC003283	भोपाल ऑटोमोबाईल्स प्रायवेट लिमिटेड
535	U50300MP1998PTC012559	शेठसन्स मार्केटिंग इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
536	U50300MP2000PTC014188	साहनी ऑटो कम्पोनेन्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
537	U50300MP2012PTC028504	आशी ऑटो कम्पनी प्रायवेट लिमिटेड
538	U50500MP1988PTC004383	स्नेह स्प्रिंग ऑटो प्रोडक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
539	U51101MP1985PTC003127	ग्रोथ मार्केटिंग प्रायवेट लिमिटेड
540	U51101MP1997PTC011701	कामत कार्गो प्रायवेट लिमिटेड
541	U51101MP1998PTC012886	के.पी.आर.ट्रेडलिंक्स प्रायवेट लिमिटेड
542	U51102MP1988PTC004345	किंग्सवे टायर्स रीट्रडिंग कम्पनी प्रायवेट लिमिटेड
543	U51102MP1997PTC012101	ए ए आईल ट्रेड प्रायवेट लिमिटेड
544	U51102MP1998PTC012903	भूमिका मार्केटिंग प्रायवेट लिमिटेड
545	U51102MP1998PTC013045	मोहितराज डिस्ट्रिब्यूटर्स प्रायवेट लिमिटेड
546	U51102MP2002PTC015009	अर्न कॉन्सेप्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
547	U51103MP1999PTC013840	राहुल ट्रेड लिक्स इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
548	U51103MP2013PTC030631	अराध्या सिक्युरिटी एन्ड मेनपॉवर प्रायवेट लिमिटेड
549	U51109MP1973PTC001172	चिमो एजेन्सीज प्रायवेट लिमिटेड
550	U51109MP1984PTC002590	डिअना टेलिविजन्स प्रायवेट लिमिटेड
551	U51109MP1988PTC004643	पी.डी.व्यास मार्केटिंग प्रायवेट लिमिटेड
552	U51109MP1994PTC008261	दीपल मार्केटिंग कार्पोरेशन प्रायवेट लिमिटेड
553	U51109MP1994PTC008785	अभय नरेन्द्र कॉन्ट्रैक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
554	U51109MP1998PTC012728	सुयश डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रायवेट लिमिटेड
555	U51109MP2004PTC016491	इन्डप्राईड ईम्पेक्स प्रायवेट लिमिटेड
556	U51109MP2005PTC018044	इन्डस 7सीज एक्सपोर्ट प्रायवेट लिमिटेड
557	U51109MP2006PTC018978	जन विज्ञान भारती प्रायवेट लिमिटेड
558	U51109MP2012PTC029415	राउती इम्पेक्स प्रायवेट लिमिटेड
559	U51109MP2012PTC029469	रामा विनट्रेड प्रायवेट लिमिटेड
560	U51220MP2008PTC020898	श्रीनाथ एग्रीको प्रायवेट लिमिटेड
561	U51225MP1997PTC012108	ग्रीनलाईन सेल्स कम्पनी प्रायवेट लिमिटेड
562	U51226MP1986PTC003665	एच.आर.टी कम्पनी प्रायवेट लिमिटेड
563	U51311MP2008PTC020909	माया लाईफस्टायल प्रायवेट लिमिटेड
564	U51397MP1991PTC006674	केलविन मेडिको प्रायवेट लिमिटेड
565	U51397MP1999PTC013704	महाकाल सेल्स प्रायवेट लिमिटेड
566	U51397MP2005PTC017717	वरसाटाईल एक्सपोर्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
567	U51397MP2008PTC020499	मोविओ फार्मास्युटिकल्स प्रायवेट लिमिटेड
568	U51397MP2013PTC031288	स्नोट्री हेल्थकेयर प्रायवेट लिमिटेड
569	U51410MP1999PTC013413	कान्हा एजेन्सीज प्रायवेट लिमिटेड
570	U51431MP1984PTC002608	आनंद लेमीनेट्स प्रायवेट लिमिटेड
571	U51503MP2012PTC029609	मेगविजन ट्रेडकॉन प्रायवेट लिमिटेड
572	U51505MP1997PTC011885	पंकज मार्केटिंग प्रायवेट लिमिटेड
573	U51900MP2010PTC024237	पशुपतिनाथ ग्लोबल प्रायवेट लिमिटेड
574	U51900MP2012PTC028427	न्यु लीफ मल्टीट्रेड प्रायवेट लिमिटेड
575	U51900MP2012PTC028557	पेस्ट कन्ट्रोल इंडिको प्रायवेट लिमिटेड
576	U51900MP2013PTC030131	दक्ष रक्षण डिस्ट्रीब्यूटर्स एन्ड सप्लायर्स प्रायवेट लिमिटेड
577	U51902MP1990PTC005734	सविधा एजेन्सीज प्रायवेट लिमिटेड
578	U51902MP1992PTC007085	इन्नोवेटिव पुलट्रुशन टेक्नोलॉजी प्रायवेट लिमिटेड
579	U51902MP1993PTC008014	श्री हथसेस डाई केम प्रायवेट लिमिटेड
580	U51902MP1996PTC010353	ब्रायलम पाली टेक्निक्स प्रायवेट लिमिटेड

581	U51902MP1997PTC011611	गुरुबचन बेवरेजेज प्रायवेट लिमिटेड
582	U51904MP1996PTC010469	त्रिवेनी हेल्थ केयर प्रायवेट लिमिटेड
583	U51909MP1987PTC004096	वेरशिना मेन्था एक्सपोर्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
584	U51909MP1990PTC005673	न्यु वेव मार्केटिंग प्रायवेट लिमिटेड
585	U51909MP1992PTC006987	नमन डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रायवेट लिमिटेड
586	U52100MP2011PTC025802	ग्लोबल रिटेल मल्टीट्रेड प्रायवेट लिमिटेड
587	U52311MP2012PTC028266	गोल्डन ऐरो हेल्थकेयर इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
588	U52392MP1991PTC006351	केलकर ट्रेडिंग लीजिंग एन्ड फायनेन्स प्रायवेट लिमिटेड
589	U52392MP1997PTC011888	माईलेस टेक्नोलॉजीज प्रायवेट लिमिटेड
590	U52392MP2002PTC015165	सिस्नेट कम्प्यूटिस्टम प्रायवेट लिमिटेड
591	U52392MP2012PTC027455	इएमइट्रोनिक्स मार्केटिंग प्रायवेट लिमिटेड
592	U52491MP1996PTC010731	बाबूलाल जोशी कॉटन प्रायवेट लिमिटेड
593	U52510MP1995PTC009364	यूरो लिंक ईम्पेक्स प्रायवेट लिमिटेड
594	U52511MP1969PTC001048	यूनाईटेड टायर्स इन्दौर प्रायवेट लिमिटेड
595	U52520MP1993PTC007807	मैरी गोल्ड फूड्स कम्पनी प्रायवेट लिमिटेड
596	U52520MP1994PTC008607	मिन्टो वीस्टर फायनेन्स एन्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
597	U52520MP1995PTC008938	पुटलीज पैकेजिंग प्रायवेट लिमिटेड
598	U52590MP2008PTC020779	एन डायनामिक सेल्स प्रायवेट लिमिटेड
599	U52590MP2009PTC022069	बीएनपी इंडिया कॉन्सेप्स मार्केटिंग प्रायवेट लिमिटेड
600	U52590MP2010PTC023398	ई-टेक इंडिया मार्केटिंग सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
601	U52590MP2010PTC023958	आकृति रियल एस्टेट एन्ड कमोडिटीज प्रायवेट लिमिटेड
602	U52590MP2010PTC025032	समुद्रि प्रोडक्ट्स एन्ड बिजनेस सोल्यूशन्स प्रायवेट लिमिटेड
603	U52590MP2011PTC025895	स्वास्तिक प्रमोशन एन्ड कॉन्सेप्ट मार्केटिंग प्रायवेट लिमिटेड
604	U52599MP2003PTC015638	उज्जवल टेक्ना एड प्रायवेट लिमिटेड
605	U52599MP2011PTC025898	केश किंग लाइफ मार्केटिंग प्रायवेट लिमिटेड
606	U52599MP2011PTC027030	एमएचएस ट्रेडलिक प्रायवेट लिमिटेड
607	U52599MP2011PTC027360	गुड मोर्निंग इंडिया बिजनेस प्रायवेट लिमिटेड
608	U55100MP2007PTC019437	वीआईए फूड्स प्रायवेट लिमिटेड
609	U55101MP1984PTC002598	जी.बी.सी.होटल्स एन्ड ऑटो ट्रेड्स प्रायवेट लिमिटेड
610	U55101MP1987PTC004177	पालीवाल होटल्स प्रायवेट लिमिटेड
611	U55101MP1990PTC005740	होटल शिमला पैलेस प्रायवेट लिमिटेड
612	U55101MP1995PTC009858	रिथम होटल्स एन्ड क्लब प्रायवेट लिमिटेड
613	U55101MP1999PTC013402	गजानन मोटल काम्पलेक्स प्रायवेट लिमिटेड
614	U55101MP2005PTC017705	आरईडी स्कोरपिओन प्रायवेट लिमिटेड
615	U55101MP2012PTC028543	उमेर इंडिया ईम्पेक्स प्रायवेट लिमिटेड
616	U55101MP2012PTC029580	स्पिन्दले टोप होटल प्रायवेट लिमिटेड
617	U55101MP2013PTC030151	स्वर्णभूमि होलीडेहोम प्रायवेट लिमिटेड
618	U55109MP1984PTC002350	एस.एस.होटल्स प्रायवेट लिमिटेड
619	U55201MP1989PTC005561	चन्द्रा इन प्रायवेट लिमिटेड
620	U60101MP1977PTC001429	ट्रेकवेज प्रायवेट लिमिटेड
621	U60220MP2013PTC031303	दिव्य रोडवेज प्रायवेट लिमिटेड
622	U60221MP1960PTC000901	पन्ना ट्रान्सपोर्ट कम्पनी प्रायवेट लिमिटेड
623	U60230MP2012PTC027808	नवजीवन लॉजिस्टिक्स प्रायवेट लिमिटेड
624	U60230MP2012PTC028886	एस.के.टी.ट्रान्सपोर्ट इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
625	U61100MP1980PTC001623	मन्डोवी मेरीन प्रायवेट लिमिटेड
626	U61100MP2011PTC027336	विन्डशोर मेरीन सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
627	U62100MP1990PTC006030	फ्रन्क एयरवेज प्रायवेट लिमिटेड
628	U63020MP2012PTC029778	उदित वेयरहाउस प्रायवेट लिमिटेड
629	U63022MP1981PTC001768	श्री गायत्री कोल्ड स्टोरेज प्रायवेट लिमिटेड
630	U63022MP1985PTC003176	महात्मा लोचनदास कोल्ड स्टोरेज प्रायवेट लिमिटेड
631	U63022MP1993PTC008026	सनमान कोल्ड स्टोरेज एन्ड फूड्स प्रायवेट लिमिटेड
632	U63022MP1995PTC010281	श्री महाकाल आईस एन्ड कोल्ड स्टोरेज प्रायवेट लिमिटेड
633	U63040MP1998PTC012862	सोलिएल टूर्स एन्ड ट्रेवल्स प्रायवेट लिमिटेड
634	U63040MP2000PTC014486	फ़िक्वेन्ट ट्रेवल्स डॉटकाम प्रायवेट लिमिटेड

635	U63040MP2010PTC023577	मधुर टूरिज्म एन्ड मर्कन्टाईल प्रायवेट लिमिटेड
636	U63040MP2012PTC027782	बुन्देलखण्ड ट्रेवल प्लानर्स प्रायवेट लिमिटेड
637	U64100MP2013PTC031166	एनी टाईम पार्सल प्रायवेट लिमिटेड
638	U64202MP2000PTC014434	सीजोन डॉटकाम प्रायवेट लिमिटेड
639	U64204MP2010PTC024546	स्कॉय डिजिटल टीवी नेटवर्क प्रायवेट लिमिटेड
640	U64991MP1974PTC001292	एम.पी.इन्वेस्टमेन्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
641	U65110MP1995PTC009297	सोजातिया फायनेन्स प्रायवेट लिमिटेड
642	U65921MP1992PTC007339	मुच्छल फायनेन्स प्रायवेट लिमिटेड
643	U65921MP1995PTC009633	महर्षी इन्वेस्टमेन्ट्स एन्ड फायनेन्स प्रायवेट लिमिटेड
644	U65921MP1996PTC010570	विजय श्री कृष्ण टॉन्सपोर्ट लीजिंग एन्ड फायनेन्स कम्पनी प्रायवेट लिमिटेड
645	U65921MP1996PTC011272	तराना फिनवेस्ट प्रायवेट लिमिटेड
646	U65921MP1996PTC028908	चन्देल हायर परचेज प्रायवेट लिमिटेड
647	U65921MP1997PTC011831	सीवकॉन फायनेन्स एन्ड इन्वेस्टमेन्ट इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
648	U65921MP1998PTC012750	एसआरएस फिनवेस्ट प्रायवेट लिमिटेड
649	U65922MP1988PTC004730	संतोषनम हाउसिंग फायनेन्स एन्ड इन्वेस्टमेन्ट प्रायवेट लिमिटेड
650	U65991MP1982PTC001937	अरिहन्त ट्रेडिंग एन्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी प्रायवेट लिमिटेड
651	U65991MP1983PTC002311	एन.एस.फेब्रिकेशन प्रायवेट लिमिटेड
652	U65991MP1990PTC006078	कॉन्टीनेन्टल एविएशन प्रायवेट लिमिटेड
653	U65991MP1994PTC008445	सुवी इन्वेस्टमेन्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
654	U65991MP1995PTC009917	मोंगिया फायनेन्स प्रायवेट लिमिटेड
655	U65993MP1972PTC001141	लश्कर इन्वेस्टमेन्ट एन्ड फायनेन्स कम्पनी प्रायवेट लिमिटेड
656	U66010MP2010PTC025037	प्रग्या इश्योरेन्स सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
657	U66202MP1997PTC011767	एनजीसी फायनेन्स एन्ड इन्वेस्टमेन्ट इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
658	U67110MP1996PTC010782	कोटटापुरम फायनेन्स एन्ड लीजिंग प्रायवेट लिमिटेड
659	U67120MP1971PTC001103	आशा फायनेन्स प्रायवेट लिमिटेड
660	U67120MP1981PTC001868	सावित्री इन्वेस्टमेन्ट एन्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्रायवेट लिमिटेड
661	U67120MP1991PTC006656	सरल कृषि एन्ड फायनेन्स प्रायवेट लिमिटेड
662	U67120MP1993PTC007567	पथ प्रदर्शक फायनेन्स एन्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
663	U67120MP1994PTC008442	रानीसती सिक्युरिटी प्रायवेट लिमिटेड
664	U67120MP1994PTC008450	श्रुति सिक्युरिटीज प्रायवेट लिमिटेड
665	U67120MP1994PTC008710	टेग फिनवेस्ट प्रायवेट लिमिटेड
666	U67120MP1995PTC010137	सोनल फिनकेप प्रायवेट लिमिटेड
667	U67120MP1996PTC010531	एबीसी इन्फोपुडित प्रायवेट लिमिटेड
668	U67120MP1996PTC010574	जे.एम.डी.फायनेन्स एन्ड इन्वेस्ट प्रायवेट लिमिटेड
669	U67120MP1996PTC011436	राज भास्कर फिनवेस्ट प्रायवेट लिमिटेड
670	U67120MP1997PTC011877	बीसीआई फायनेन्स एन्ड एलाइड सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
671	U67120MP2012PTC028421	बनियान ब्रोकिंग प्रायवेट लिमिटेड
672	U67190MP1971PTC001106	जबलपुर सेविंग एन्ड फायनेन्स प्रायवेट लिमिटेड
673	U67190MP2005PTC017624	राशी केपिटल प्रायवेट लिमिटेड
674	U67200MP2003PTC015630	स्टेण्डर्ड एश्योरेन्स ब्रोकिंग प्रायवेट लिमिटेड
675	U70100MP2008PTC020774	आईबीडी स्पेस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड
676	U70100MP2009PTC022828	एसडब्ल्यू निर्माण इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
677	U70100MP2010PTC024140	सूर्या अमित बिल्डर्स एन्ड डवलपर्स प्रायवेट लिमिटेड
678	U70100MP2010PTC024146	श्योर लेण्ड बिल्डर्स एन्ड डवलपर्स प्रायवेट लिमिटेड
679	U70100MP2011PTC025202	श्योर शॉट इन्फ्रास्ट्रक्चर मार्केटिंग प्रायवेट लिमिटेड
680	U70100MP2011PTC025338	पनाचे रियल्टी प्रायवेट लिमिटेड
681	U70100MP2011PTC025900	ओसकर बिल्डकॉन प्रायवेट लिमिटेड
682	U70100MP2011PTC026844	ठाकुर श्री इन्फाडवलपर्स प्रायवेट लिमिटेड
683	U70100MP2011PTC026845	ठाकुर श्री रियलबिल्ड प्रायवेट लिमिटेड
684	U70100MP2011PTC026854	ठाकुर श्री रियल एस्टेट सोल्यूशन्स प्रायवेट लिमिटेड
685	U70100MP2011PTC026864	बाजपेयी डवलपर्स प्रायवेट लिमिटेड
686	U70100MP2013PTC030301	रुद्रा देवबिल्ड प्रायवेट लिमिटेड
687	U70100MP2013PTC030610	सफारे बिल्डर्स एन्ड डवलपर्स प्रायवेट लिमिटेड
688	U70101MP1996PTC011106	स्नेहओम डवलपर्स एन्ड रियल एस्टेट प्रायवेट लिमिटेड

689	U70101MP1996PTC011192	आरएसडी सिक्कुरिटीज प्रायवेट लिमिटेड
690	U70101MP1997PTC011838	सोनीसन्स रियल एस्टेट प्रायवेट लिमिटेड
691	U70101MP1997PTC012514	नेहा रियल्टी प्रायवेट लिमिटेड
692	U70101MP1999PTC013914	जैनी रियल्टी प्रायवेट लिमिटेड
693	U70101MP2005PTC017474	ब्लूवुड बिल्डकॉन एन्ड रियल्टी प्रायवेट लिमिटेड
694	U70101MP2011PTC025936	त्रिशूल देवकॉन प्रायवेट लिमिटेड
695	U70101MP2011PTC026975	रेसमोस डवलपर्स प्रायवेट लिमिटेड
696	U70101MP2011PTC027295	जय रियल एस्टेट प्रायवेट लिमिटेड
697	U70101MP2012PTC027928	मों दुर्गा देवकॉन प्रायवेट लिमिटेड
698	U70101MP2012PTC027977	गोल्ड सफारे डवलपर्स प्रायवेट लिमिटेड
699	U70101MP2012PTC028116	श्री गुरु हरगोविन्द लेण्ड डवलपर्स प्रायवेट लिमिटेड
700	U70101MP2012PTC028243	इन्द्रा देवकॉन इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
701	U70101MP2012PTC028244	इन्द्रा रियलइन्फ्रा प्रायवेट लिमिटेड
702	U70101MP2012PTC028399	निमित्त बिल्डकॉन प्रायवेट लिमिटेड
703	U70101MP2012PTC028467	आकृति इन्फ्राएस्टेट प्रायवेट लिमिटेड
704	U70101MP2012PTC028652	केबीएस विला बिल्डकॉन इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
705	U70101MP2012PTC028864	इफिनिटी देवबिल्ड प्रायवेट लिमिटेड
706	U70101MP2012PTC029529	विद्यार्थी रियल एस्टेट एन्ड डवलपर्स प्रायवेट लिमिटेड
707	U70101MP2013PTC029861	ताल वेरी इम्पोर्टेन्ट प्रापर्टी इन्फ्रा बुल्स प्रायवेट लिमिटेड
708	U70101MP2013PTC030119	केलाइन रियलटेक प्रायवेट लिमिटेड
709	U70101MP2013PTC030140	शिवयश विला मल्टीकॉन डवलपर्स प्रायवेट लिमिटेड
710	U70101MP2013PTC030337	अनुज देवकॉन प्रायवेट लिमिटेड
711	U70101MP2013PTC030775	मिड इंडिया रियलकॉन प्रायवेट लिमिटेड
712	U72100MP1995PTC009320	मिडलेण्ड कम्प्यूटर्स प्रायवेट लिमिटेड
713	U72100MP2012PTC029067	रिलायबल पेरीफेरल्स एन्ड टेक्नोलॉजी प्रायवेट लिमिटेड
714	U72200MP1988PTC004509	ऑर्बिट सॉफ्टवेयर प्रायवेट लिमिटेड
715	U72200MP1997PTC011983	निर्मला टेलिकम्युनिकेशन प्रायवेट लिमिटेड
716	U72200MP2000PTC014250	आईबीडी इन्फोकॉम इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
717	U72200MP2000PTC014453	बाइटफील्ड इन्फांटेक प्रायवेट लिमिटेड
718	U72200MP2004PTC016894	बीन्स साफ्टेक प्रायवेट लिमिटेड
719	U72200MP2005PTC017226	एस आर साफ्टेक प्रायवेट लिमिटेड
720	U72200MP2005PTC017942	परादिगम प्राईम प्रायवेट लिमिटेड
721	U72200MP2009PTC021723	हिटज टेक्नो प्रायवेट लिमिटेड
722	U72200MP2009PTC022212	एजीराज टेक्नोलॉजीज प्रायवेट लिमिटेड
723	U72200MP2009PTC022529	शार्इन लिंक ई-सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
724	U72200MP2010PTC023403	नीलम टेक्नोलॉजीज एन्ड सोल्यूशन्स प्रायवेट लिमिटेड
725	U72200MP2010PTC023419	बीसाफट सोल्यूशन्स प्रायवेट लिमिटेड
726	U72200MP2010PTC024883	ओप्टीमीजर्स टेक सोल्यूशन प्रायवेट लिमिटेड
727	U72200MP2011PTC026491	मनोटेक सॉफ्टवेयर प्रायवेट लिमिटेड
728	U72200MP2011PTC026904	टेम्पुस टेलकोसिस प्रायवेट लिमिटेड
729	U72200MP2012PTC028601	इन्कारनेट सॉफ्टवेयर प्रायवेट लिमिटेड
730	U72200MP2012PTC028814	यूजेनेट इन्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रायवेट लिमिटेड
731	U72200MP2012PTC029688	सुसटेन बीपीओ एन्ड आईटी सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
732	U72200MP2013PTC029886	टेकमेन कम्प्यूसॉफ्ट प्रायवेट लिमिटेड
733	U72200MP2013PTC030176	हजरत नाहर सययद शाह वालीटेक्नोलॉजीज प्रायवेट लिमिटेड
734	U72200MP2013PTC030420	स्पिरन्ट आईटी सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
735	U72200MP2013PTC031121	एक्स्टिक आईटी सोल्यूशन्स प्रायवेट लिमिटेड
736	U72200MP2013PTC031136	सानवी कम्प्यूसॉफ्ट सोल्यूशन प्रायवेट लिमिटेड
737	U72200MP2013PTC031189	एटरनिटी इन्फोसॉफ्ट प्रायवेट लिमिटेड
738	U72300MP1988PTC004546	फिनकॉन कम्प्यूटर सिस्टम्स प्रायवेट लिमिटेड
739	U72300MP2000PTC014196	एकॉम सिस्टम्स प्रायवेट लिमिटेड
740	U72300MP2007PTC019787	स्मार्ट मेडिग्राफिक क्रीएशन्स प्रायवेट लिमिटेड
741	U72300MP2011PTC027231	साई पीतम्बरा कम्प्युनिकेशन इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
742	U73100MP2003PTC015817	उजाई एस्टेट्स प्रायवेट लिमिटेड

743	U74140MP1979PTC001505	ओरियन्टल बिजनेस कन्सलटेन्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
744	U74140MP1984PTC002629	सुनेग्रा फूड्स प्रायवेट लिमिटेड
745	U74140MP1987PTC003828	ईटकोम ग्रुप ऑफ कन्सलटेन्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
746	U74140MP1991PTC006393	ओवल कन्सलटेन्सी प्रायवेट लिमिटेड
747	U74140MP1991PTC006727	मेग्नीफिसेन्ट कन्सलटेन्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
748	U74140MP1995GAT009997	इंडियन इंस्टिट्यूट आफ एनवायमेन्ट मेनेजमेन्ट रिसर्च एन्ड डवलपमेन्ट प्रायवेट लिमिटेड
749	U74140MP1995PTC009650	वेस्ट एन्ड मेनेजमेन्ट टेक्नोलॉजी प्रायवेट लिमिटेड
750	U74140MP2007PTC019672	पॉवर इन्टेलिजेन्सियल रिक्रूटमेन्ट एन्ड आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
751	U74140MP2009PTC022038	नयन दृष्टि सोल्यूशन्स प्रायवेट लिमिटेड
752	U74140MP2010PTC023915	भंडारी बिजनेस सोल्यूशन्स प्रायवेट लिमिटेड
753	U74140MP2011PTC025216	बाबाश्री मेनेजमेन्ट कन्सलटेनट्स प्रायवेट लिमिटेड
754	U74140MP2012PTC029741	रिलायबल मल्टी मार्केटिंग एन्ड एडवायजरी सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
755	U74140MP2013PTC029996	ईमोशन केपिटल मार्केट प्रायवेट लिमिटेड
756	U74210MP1986PTC003312	सीमेक इंजीनियर्स प्रायवेट लिमिटेड
757	U74210MP1991PTC006287	टायकून इंजीनियर्स प्रायवेट लिमिटेड
758	U74300MP1997PTC012342	मॉस इन्फोरमेटिक्स प्रायवेट लिमिटेड
759	U74900MP1990PTC005822	आयन एन्ड गेटटी इन्स प्रायवेट लिमिटेड
760	U74900MP2009PTC021789	एडरेस्ट टेक सोल्यूशन्स प्रायवेट लिमिटेड
761	U74900MP2012PTC028555	वेलिएन्ट डेबिट रिकावरी फेसिलिएटर्स प्रायवेट लिमिटेड
762	U74900MP2013PTC030276	ओम ज्योतिष केन्द्र प्रायवेट लिमिटेड
763	U74910MP2010PTC024438	उसी कारपोरेट कैरियर कन्सलटेन्सी प्रायवेट लिमिटेड
764	U74910MP2012PTC029200	फोर स्टार मल्टी सिक्युरिटी इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
765	U74910MP2012PTC029731	श्री संकट मोचन डिटेक्टिव एन्ड सिक्युरिटी सर्विस प्रायवेट लिमिटेड
766	U74920MP2010PTC024423	डाटा विटुम रिकवरीज प्रायवेट लिमिटेड
767	U74920MP2011PTC027202	एसपीएमआई इन्वेस्टीगेशन एन्ड सिक्युरिटी सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
768	U74920MP2012PTC029506	ग्रुप सिक्युरिटी सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
769	U74920MP2013PTC030203	रवि कार्मिक सिक्युरिटी सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
770	U74930MP2011PTC026971	ट्रिपल एस मेन्टेनेन्स एन्ड सोल्यूशन्स प्रायवेट लिमिटेड
771	U74940MP1987PTC004113	सत्यम कॅलर लैब प्रायवेट लिमिटेड
772	U74994MP2000PTC014166	जेलेक एम्ब्रायडरी प्रायवेट लिमिटेड
773	U74999MP1981PTC001835	प्रेमा एन्टरप्रायजेज प्रायवेट लिमिटेड
774	U74999MP1986PTC003342	राजदीप स्पोर्ट प्रायवेट लिमिटेड
775	U80211MP2001PTC014806	प्रोग्रेसिव कैरियर एकेटमी प्रायवेट लिमिटेड
776	U80300MP2007PTC019391	सैनर्जी एजुकेशन इन्टरनेशनल प्रायवेट लिमिटेड
777	U80300MP2011PTC026855	एम्बीएन्स इन्स्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एन्ड लेग्ज प्रायवेट लिमिटेड
778	U80301MP2009PTC022399	केएलएम एजुकेशन सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
779	U80302MP2012PTC028126	एक्सटरा ब्रेन एजुकेशन प्रायवेट लिमिटेड
780	U80302MP2013PTC029977	यूथ इंडिया स्किल डवलपमेन्ट इनीशिएटिव प्रायवेट लिमिटेड
781	U80902MP2011PTC027097	स्किल होरीजेन एजुटेक प्रायवेट लिमिटेड
782	U80903MP2000PTC014322	गुप्ता इन्फोरमेशन एन्ड टूटोरियल्स इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
783	U80903MP2006PTC018475	निदान एडवरटायजिंग एन्ड रीजिड प्रायवेट लिमिटेड
784	U80903MP2011PTC027181	इन्नोवेटिव स्टेडी सर्किल प्रायवेट लिमिटेड
785	U85100MP2009PTC021954	ट्रीउन हेल्थकेयर प्रायवेट लिमिटेड
786	U85110MP1992PTC007338	ओमनी मेडिकल सर्विसेज एन्ड रिसर्च प्रायवेट लिमिटेड
787	U85110MP1993PTC007448	पीयूष हॉस्पिटल प्रायवेट लिमिटेड
788	U85110MP1995PTC008997	सतना हॉस्पिटल प्रायवेट लिमिटेड
789	U85110MP1999PTC013469	ताप्ती हेल्थकेयर सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
790	U85110MP2003PTC016221	रिसर्च हेल्थकेयर प्रायवेट लिमिटेड
791	U85195MP1987PTC003992	त्रिमूर्ति लेबोरेटरीज प्रायवेट लिमिटेड
792	U85199MP1990PTC005998	महाकौशल नर्सिंग होम प्रायवेट लिमिटेड
793	U92100MP2010PTC025057	सॉफ्ट टेलिनेटवर्क प्रायवेट लिमिटेड
794	U92111MP1995PTC010310	सिने एक्सीलेन्सी प्रायवेट लिमिटेड
795	U92112MP1951PTC000723	टाकीज फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रायवेट लिमिटेड

796	U92120MP2013PTC030807	विक्रमराज पिक्चर्स प्रायवेट लिमिटेड
797	U92130MP2008PTC021139	गीतला विजन प्रायवेट लिमिटेड
798	U92190MP2010PTC023463	वाईअ पर्ल हॉस्पिटलिटी प्रायवेट लिमिटेड
799	U93000MP2013PTC031116	अभषेकमिश्रा हाउस कीपिंग वर्क प्रायवेट लिमिटेड
800	U00011MP1996PLC010515	टारगेट प्लांटेशन एंड रिसॉर्ट लिमिटेड
801	U00171MP1948PLC000459	द न्यू भोपाल टेक्सटल्स लिमिटेड
802	U01100MP2010PLC023633	जन रक्षा कृषि विकास लिमिटेड
803	U01110MP2008PLC021431	एल जी पी साईं फूड एण्ड स्टॉक ब्रोकर्स इण्डिया लिमिटेड
804	U01119MP1986PLC003275	महेश्वरी न्यूट्रीनट्स लिमिटेड
805	U01122MP1994PLC008244	आलपाईन एगोटेक लिमिटेड
806	U01300MP2009PLC021478	नर्मदा कैटल फीड कार्पोरेशन लिमिटेड
807	U01400MP2008PLC021344	एन सी एफ सी ऑफ इंडिया लिमिटेड
808	U01400MP2011PLC027224	एलटीआई हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल स्वेन्डी लिमिटेड
809	U01400MP2012PLC028203	गोल्ड एग्रीकल्चर इंडिया लिमिटेड
810	U01400MP2012PLC029491	आई जी आई एस एगोटेक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
811	U01400MP2013PLC029833	विध्याचलल डेयरी एण्ड एगो फार्म लिमिटेड
812	U01403MP2008PLC021111	एस आर एग्री एण्ड हॉर्टिकल्चर लिमिटेड
813	U01403MP2009PLC021511	रतलाम एग्रीकल्चर प्रॉडक्स कम्पनी लिमिटेड
814	U01403MP2009PLC022208	प्रगति वाई प्लानटेक लिमिटेड
815	U01403MP2012PLC028627	एसटीएम एग्रीटेक कार्पोरेशन लिमिटेड
816	U01403MP2012PLC028847	जनम एग्रीकोप सर्विसेज लिमिटेड
817	U01405MP1989PLC005444	मालव जीनिंग एण्ड प्रेसिंग लिमिटेड
818	U01407MP2012PLC027686	एजेसीबी एग्रीकल्चर एण्ड बायो-टेक्नोलॉजी लिमिटेड
819	U01513MP1994PLC008563	विशाल एग्रीटेक इंडिया लिमिटेड
820	U01520MP1995PLC009603	सिम्फनी डेयरी एण्ड एगोनिक्स लिमिटेड
821	U01542MP2006PLC018392	डी डी एगो एनर्जी लिमिटेड
822	U01600MP2005PLC017376	के.पी.फ्रेन्सेज लिमिटेड
823	U02001MP1995PLC009553	प्रीमियर फोरेस्ट (इण्डिया) प्रायवेट लिमिटेड
824	U02411MP1994PLC008205	स्नेह डाईकेम लिमिटेड
825	U02412MP1973PLC001229	देवास केमिकल्स लिमिटेड
826	U02423MP1986PLC003385	डबल्यू एच फामास्युटिकल्स लिमिटेड
827	U02423MP1996PLC010361	समरितन फार्मा (इंडिया) लिमिटेड
828	U02520MP1988PLC004413	पूजा इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
829	U02911MP1994PLC008516	एस जे इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
830	U03110MP1995PLC009496	जे एस स्टोरेज बैटरी लिमिटेड
831	U03210MP1982PLC001981	कोहीनूर इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
832	U11101MP1991PLC006613	विनायक गैसेज लिमिटेड
833	U11205MP1996PLC010971	अल-फहाद कोल्ड स्टोरेज लिमिटेड
834	U13100MP1987PLC003918	मेल्टेक एलायज पावडर्स इण्डिया लिमिटेड
835	U14102MP1992PLC007355	कन्सोलीडेटेड ग्रनाईट्स लिमिटेड
836	U15142MP1981PLC001810	मयूर ऑयल्स एण्ड फूड्स लिमिटेड
837	U15142MP1982PLC002015	राठी ऑयल लिमिटेड
838	U15200MP2007PLC019403	एकेएस एगो इंडिया लिमिटेड
839	U15209MP1990PLC006021	हिमांशी फूड प्रोसेसिंग लिमिटेड
840	U15311MP1997PLC011880	स्वागत फ्लोर्स लिमिटेड
841	U15314MP1998PLC013061	हनुमान न्यूट्रीन्ट्स लिमिटेड
842	U15321MP1986PLC003581	श्री लक्ष्मीकान्त मेज प्रोडक्स लिमिटेड
843	U15331MP1991PLC006800	वर्तमान स्नेक फूड लिमिटेड
844	U15400MP2012PLC027960	जीवन सरल फूड एण्ड एलाइड लिमिटेड
845	U16008MP1992PLC007392	मुख सुद्धि फूड्स लिमिटेड
846	U17111MP1984PLC002427	विकास स्पिननिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड
847	U17111MP1985PLC003095	जेठा फाइवर्स लिमिटेड
848	U21012MP1978PLC001436	सतपुरा पेपर एण्ड शुगर मिल्स लिमिटेड

849	U21012MP1985PLC003205	प्रकाश पेपर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
850	U22210MP2012PLC028213	राष्ट्रीय हिन्दू मेल कॉर्प लिमिटेड
851	U24108MP1989PLC005644	कृपालिनी स्टील्स लिमिटेड
852	U24110MP2008PLC020921	एपेक्स बायोकम लिमिटेड
853	U24111MP1982PLC002077	देवास गैसेज लिमिटेड
854	U24120MP2010PLC023499	मधु फास्फेट लिमिटेड
855	U24133MP1981PLC001867	पजाव सेलुलोज लिमिटेड
856	U24134MP1989PLC005523	कून्सटस्टाफ पोलिमर्स लिमिटेड
857	U24221MP1989PLC005621	कैमटेक केमिकल्स लिमिटेड
858	U24231MP1988PLC004525	महावीन फाईन केमिकल्स लिमिटेड
859	U24232MP1984PLC002622	वरटेक्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
860	U24232MP1996PLC010422	लेपिस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
861	U24232MP2004PLC017126	एमीकेयर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
862	U24304MP1984PLC002648	खेतान पोलीसेक्स लिमिटेड
863	U25209MP1989PLC005228	पजंवानी पोलीप्रोपलीन लिमिटेड
864	U25209MP1990PLC005843	कोठारी पोलीमर्स लिमिटेड
865	U26102MP1984PLC002682	एजी ग्लास लिमिटेड
866	U26941MP1983PLC002135	क्वालिटी सीमेन्ट इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
867	U27101MP1983PLC002209	अचल एलार्थ लिमिटेड
868	U27104MP1981PLC002302	आरजे क्लेड मेटल्स लिमिटेड
869	U28994MP1977PLC001417	जॉनसन पेडर लिमिटेड
870	U29100MP1994PLC008254	एस एम सोलर प्रोडक्ट्स लिमिटेड
871	U29111MP1986PLC003459	एनसेव बॉयलर इंजीनियर्स लिमिटेड
872	U29119MP1960PLC000902	न्यू प्रसीजन इण्डिया लिमिटेड
873	U29191MP1999PLC013588	कैरोल इक्सनमेल्ट इण्डिया लिमिटेड
874	U29308MP2008PLC020281	भूमी उर्जा अभिकरण लिमिटेड
875	U29309MP1988PLC004551	माइक्रोविन इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड
876	U30007MP1998PLC012633	इन्नोवेटिव एलाइड सर्विसेज एन्ड इन्फोरमेशन लिमिटेड
877	U31101MP1985PLC002759	आईबीईएल मशीन्स लिमिटेड
878	U31300MP1995PLC010268	वीकेएम इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
879	U34300MP2005PLC018144	एस-आर- ऊर्जा एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
880	U40100MP2012PLC027642	साई प्रकाश पॉवर इंडिया लिमिटेड
881	U40106MP2013PLC030316	पर्ल पैन इंडिया सोलर एनर्जी लिमिटेड
882	U40200MP2011PLC026742	सिंगरोली पॉवर लिमिटेड
883	U45200MP2010PLC023906	स्टार इंडिया रियल एस्टेट एन्ड डेवलपर्स लिमिटेड
884	U45200MP2010PLC024121	महाकाली देव-कॉन लिमिटेड
885	U45200MP2011PLC025214	अस्वाद इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
886	U45200MP2011PLC025955	तपिशक इन्फ्रास्ट्रेट लिमिटेड
887	U45200MP2011PLC026737	सम्पर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड
888	U45200MP2012PLC027423	विशाल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
889	U45200MP2012PLC027472	साई सरकार कॉलोनाईजर्स एन्ड डेवलपर्स लिमिटेड
890	U45200MP2012PLC027841	भूमी ऐशवर्य लैंडिजाइन्स कंपनी लिमिटेड
891	U45200MP2012PLC028512	रिलायबल विलास प्रॉपटी डेवलपमेंट लिमिटेड
892	U45200MP2012PLC028726	वालकिन रियलइन्फा इंडिया लिमिटेड
893	U45200MP2012PLC028911	हेकक्सीओन रीयकॉन इंडिया लिमिटेड
894	U45200MP2013PLC031239	अस्वाद कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
895	U45201MP1987PLC004071	निर्माण प्रापरटीज लिमिटेड
896	U45201MP2009PLC022258	आर बी एन इण्डिया इन्फा बिल्डर्स लिमिटेड
897	U45201MP2010PLC024330	सुविधा लेण्ड डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड
898	U45201MP2011PLC026286	बीएमआर निमार्ण इंडिया लिमिटेड
899	U45203MP2001PLC014753	इंडियन अर्बन सिटी डवलपमेन्ट लिमिटेड

900	U45205MP1998PLC013021	देवास इण्डस्ट्रीयल वाटर सप्लाई कम्पनी लिमिटेड
901	U51102MP1998PLC013191	प्राइम प्रीविलेज लिमिटेड
902	U51102MP1999PLC013338	क्रासबाईस ओवरसीज लिमिटेड
903	U51102MP1999PLC013703	सनमति ओवरसीज लिमिटेड
904	U51109MP1991PLC006616	श्रीनिवास कॉर्मर्शियल कम्पनी लिमिटेड
905	U51109MP1992PLC007112	राजवीर मार्केटिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
906	U51410MP1988PLC004472	एवन मार्केटिंग लिमिटेड
907	U52190MP2006PLC018681	सहयोग ड्रीम मार्क केअर लिमिटेड
908	U52390MP2008PLC020313	एचएफसी मार्केटिंग एण्ड एडवायजरी लिमिटेड
909	U52393MP2009PLC022694	विन मिराकल ज्वैल्स लिमिटेड
910	U52590MP2010PLC023522	संकल्प इडिण्या इन्वोवेशन्स मार्केटिंग लिमिटेड
911	U52599MP2009PLC021889	गंगासागर मार्केटिंग इंडिया लिमिटेड
912	U55101MP2013PLC030231	डॉल्फिन कॉन्टीनेन्टल इन्न लिमिटेड
913	U60210MP1995PLC010311	मल्टीकेम ड्रग्स इंटरनेशनल लिमिटेड
914	U63013MP1995PLC009450	एनबी एविएशन लिमिटेड
915	U65100MP2010PLC023780	जयकुमार फिनकॉम लिमिटेड
916	U65910MP2008PLC020625	जीएसएस इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनेन्स सर्विसेज लिमिटेड
917	U65921MP1996PLC010476	राजधान फिनवेस्ट लिमिटेड
918	U65921MP1996PLC010512	एनबी फिनलीज लिमिटेड
919	U65922MP1989PLC005574	चामुन्डा हाउसिंग एण्ड लीजिंग लिमिटेड
920	U65922MP2008PLC021358	एसआर ग्लोबल हॉउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
921	U65922MP2010PLC025015	योरहोम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
922	U65923MP2009PLC022625	गुरुसाई फायनांस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
923	U65993MP2012PLC029620	उन्नति ग्लोबल एस्टेट होल्डिंग्स लिमिटेड
924	U67120MP1994PLC008854	लुल्कड सिक्योरिटीज लिमिटेड
925	U67120MP1995PLC009182	पार्कसन्स सिक्योरिटीज लिमिटेड
926	U67120MP1995PLC010173	समता फिनलीज लिमिटेड
927	U67120MP2005PLC017379	बी.एल.ए.इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
928	U67120MP2009PLC021825	फ्युचर इंडिया इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड
929	U67190MP2008PLC020645	एस.आर.एन.इन्वेस्टमेंट एण्ड एलाइड लिमिटेड
930	U67190MP2009PLC022796	इन्फिनिटी ग्रोथ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड
931	U70100MP2010PLC023290	सार्थक परिवार इन्फ्राबिल्ड लिमिटेड
932	U70100MP2010PLC023299	रियल सनसाईन प्रोपर्टीज लिमिटेड
933	U70100MP2010PLC023445	फेयरडेल रिलएस्टेट एण्ड प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
934	U70100MP2010PLC024029	सनराईज गोल्ड इन्फ्राबिल्ड इंडिया लिमिटेड
935	U70100MP2010PLC024464	किसान विकस रियल एस्टेट एंड एलाइड लिमिटेड
936	U70100MP2010PLC024803	एनआईसीएल इंडिया लिमिटेड
937	U70100MP2011PLC025713	एस के डी लैंडमार्क एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड
938	U70100MP2011PLC025914	सरल इंडिया इन्फ्रा लिमिटेड
939	U70100MP2013PLC030596	एमएनपी रीयलबिल्ड और एलाइड लिमिटेड
940	U70101MP1986PLC003417	श्री लक्ष्मीकांत सोया पलार बेसन लिमिटेड
941	U70101MP1995PLC009197	लुल्कड मीडिया एंड एंटरटेनमेंट लिमिटेड
942	U70101MP2007PLC020109	अंबेडकर रियल एस्टेट एंड डेयरीज लिमिटेड
943	U70101MP2010PLC022925	बीएनपी फैंडशिप एंड एस्टेट लिमिटेड
944	U70101MP2010PLC022954	मधुर इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड एलाइड लिमिटेड
945	U70101MP2011PLC026944	जीवन सरल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज लिमिटेड
946	U70101MP2011PLC026990	साई सुन्दरम मालवा परिवार रियल एस्टेट लिमिटेड
947	U70101MP2012PLC028132	त्रिभुवन रीयलकॉन लिमिटेड

948	U70101MP2012PLC028194	पीआईडीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेवलपर्स लिमिटेड
949	U70101MP2012PLC028346	सहारा लैंडमार्क एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड
950	U70101MP2012PLC028520	इन्फ्रा इन्फिनिटी लिमिटेड
951	U70101MP2012PLC028721	जीएनटी रीयकॉन लिमिटेड
952	U70101MP2012PLC028805	माहिमा इन्फ्राबिल्डि एंड प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड
953	U70101MP2012PLC028828	आरबीएक्स लैण्ड डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड
954	U70101MP2012PLC029360	साईदीप फ्यूचर एस्टेट डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड
955	U70101MP2013PLC029927	साई वरदान इंडिया लिमिटेड
956	U70101MP2013PLC030679	जीनाईन इफाकॉन इण्डिया लिमिटेड
957	U70102MP2009PLC021499	अमन इन्फ्रा हाइट्स एंड प्रॉपर्टीज लिमिटेड
958	U70102MP2009PLC021531	ज्ञानगंगा डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड
959	U70102MP2009PLC021618	साई भारती शक्ति रियल एस्टेट एंड एलाइडा इंडिया लिमिटेड
960	U72200MP2000PLC014454	सोकर्स इंपोटेक लिमिटेड
961	U74140MP1988PLC004794	क्रॉउन कंसल्टेंट्स लिमिटेड
962	U74140MP1995PLC009881	सीकॉन इनवायरोनमेन्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
963	U74140MP2008PLC021253	केडीजी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी लिमिटेड
964	U74140MP2009PLC021518	एसबीएन इश्योरेन्स एण्ड इनवेस्टमेंट लिमिटेड
965	U74140MP2009PLC022555	ए एस इश्योरेंस एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड
966	U74140MP2012PLC027792	संजीवनी फायनेन्स एडवायजरी इण्डिया लिमिटेड
967	U74900MP1992PLC007061	आर्कसन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
968	U74900MP2010PLC022935	स्पेक्ट्रम केपिटल वेन्चर्स लिमिटेड
969	U74920MP1995PLC009211	मोड्यूलर सिक्युरिटीज लिमिटेड
970	U74992MP2012PLC028054	साइन ब्रोकिंग इंडिया वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड
971	U74995MP2008PLC021335	साइन इन्वोरेन्स इण्ड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज इण्डिया लिमिटेड
972	U74995MP2010PLC023345	तनिष्क इन्वोरेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज इण्डिया लिमिटेड
973	U76120MP1993PLC007600	प्रमिला इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनेन्स लिमिटेड
974	U80211MP1998PLC012613	डायनामिक ऐजुकेशन सिस्टम्स (इन्टरनेशनल)लिमिटेड
975	U80302MP1997PLC011960	ओशो विजन्स लिमिटेड
976	U85110MP1988PLC004419	लोकप्रिय हॉस्पिटल्स लिमिटेड
977	U85195MP1985PLC003223	केडेन्स लेबोरेटरीज लिमिटेड
978	U92413MP2012PLC028960	ईएमजी माल्टी सर्विस (इण्डिया) लिमिटेड

हरिहर साहू
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश

प्रारूप संख्या एसटीके 6

सार्वजनिक सूचना

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों के नाम हटाना) नियम 2016 के नियम 7 के अनुसारण में]

कम्पनी अधिनियम, 2013 के धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों के नाम हटाने के मामले में:

पुणे-400411, दिनांक 30 जनवरी 2018

सं. आरओसी/एसटीके 6/248(2)/2018/10418/10492—

अ. क्र.	सीआयएन	कम्पनि का नाम	एसआरएन
1	U74900PN2010FTC138060	आईटीकॉन्सप्ट्स प्रोफेशनल प्राइवेट लिमिटेड	G69788511
2	U72909PN2016PTC166165	टेकिनफी ग्लोबल सरविसेस प्राइवेट लिमिटेड	G68185651
3	U72900PN2014PTC152979	विमॉनटेक प्राइवेट लिमिटेड	G74621137
4	U72900PN2012PTC145414	इक्वीप्रोकल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	G73245003
5	U72900PN2010PTC137821	वीसे नेटवर्क टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	G72801863

6	U72900PN2004PTC129232	काँपसिलोन टेक्नोलॉजी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	G71131908
7	U72500PN2016PTC164138	वे टु बीज़ ज बिज़नेस सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	G73134009
8	U72200PN2011PTC138484	ए एंड एफ टेक देन प्राइवेट लिमिटेड	G73306292
9	U72200PN2010PTC136188	सेब्रियम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	G73184095
10	U65923PN2014PTC151265	अर्थविश्वा चित फण्ड प्राइवेट लिमिटेड	G71419857
11	U63090PN2013PTC148711	जिप्सी ट्रेवल प्राइवेट लिमिटेड	G74356593
12	U52399PN2013PTC147280	श्री कौमारी स्पेशलिटी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड	G74131368
13	U51909PN2014PTC151033	टचपॉइंट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	G71872311
14	U51100PN2010PTC137403	छत्रपति इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	G71151112
15	U45400PN2014PTC151273	हारमनी सूर्य इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	G72533086
16	U45309PN2016PTC167426	बी & बी एसोसिएट इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	G73174245
17	U45309PN2016PTC164899	सी आर वि होम्स प्राइवेट लिमिटेड	G69736171
18	U45201MH1989PTC050848	गियो -मरीन कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	G72179229
19	U45200PN2013PTC148410	साई रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड	G68914779
20	U45200PN2012PTC143574	राइट मार्क प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	G74587015
21	U45200PN2012PTC142283	अनिरुद्धा लैंडमार्क्स प्राइवेट लिमिटेड	G74114182
22	U40300PN2014PTC150579	एस डी टी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	G72352644
23	U40108PN2007PLC131211	सप्तश्री विंड पावर लिमिटेड	G74464488
24	U40106PN2015PTC154257	मैत्रिकीरण रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	G73069478
25	U40103PN2011PTC140364	सहयाद्रि एनरको प्राइवेट लिमिटेड	G69884484
26	U40101PN2016PTC165991	बेकोमेस पावर प्राइवेट लिमिटेड	G73669129
27	U37100PN2010PTC136857	जी एफ - पावर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	G71280341
28	U36912PN2015PTC153796	शील्ड मैनुफैक्चरिंग एंड ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड	G73291833
29	U32109PN1984PTC033951	इमपेल कण्ट्रोल् इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	G73011645
30	U29268PN2015PTC156856	मेरीडियन प्रिंसिशन प्राइवेट लिमिटेड	G72995830
31	U29222PN2013PTC149256	श्रियंस कंपोनेंट्स एंड टूल्स प्राइवेट लिमिटेड	G72749971
32	U17115PN2005PTC020836	S2 फैशन हाउस प्राइवेट लिमिटेड	G70045828
33	U15490PN2016PTC167545	होराइजन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड	G73068850
34	U15203PN2004PTC020085	गावलीबाबा दूध प्राइवेट लिमिटेड	G68730340
35	U15203PN2002PTC016823	प्रवरा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड	G73350795
36	U15139PN2010PTC136479	आर एम पि ब्रांड वेगन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	G73258386
37	U02001PN1996PTC098518	आमराई फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड	G71731947
38	U01122PN2013PTC149628	सुपार्श्वनाथ एगो फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	G73355901
39	U01122PN1995PTC095437	इक्सोरा फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड	G71730840
40	U01122MH1995PTC095440	जकरण्डा प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड	G71730196
41	U93000PN2014PTC152381	जय एक्सप्रेस लोजिस्टिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	G71309769
42	U93000PN2013PTC146041	शाश्वत एक्सेक्यूटर्स & ट्रस्टीज प्राइवेट लिमिटेड	G74078155
43	U91990PN2004PTC018836	सृजन फिटनेस फर्स्ट प्राइवेट लिमिटेड	G71851083
44	U85100PN2011PTC139179	जंबुस्टर लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड	G73278269
45	U74999PN2017OPC170630	बालाजी इंटरकेडेरस (OPC) प्राइवेट लिमिटेड	G73803850
46	U74999PN2016PTC165982	युनिकोर्निआ स्टार्टअप सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	G72955818
47	U74999PN2016PTC165057	शानरोह एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड	G71078653
48	U74999PN2016PTC164348	पेमल मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड	G73708166
49	U74999PN2015PTC157003	ए के ऑटो वर्ल्ड & इंजीनियरिंग सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	G73742348
50	U74999PN2015PTC156301	गोल्डनवीवर होमसोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	G74203563

51	U74999PN2014PTC151268	अग्रवाल नेस्टजेन रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड	G72687502
52	U74999PN2013PTC149021	जी .बी.आर.सी हआर सोलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	G71183156
53	U74990PN2014PTC151784	स्कीराय इंफ्रा एग्री सेर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	G68341072
54	U74900PN2014PTC153383	न्यूडज होलिस्टिक सोलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	G71534580
55	U74900PN2014PTC152283	व्याल्यू कनेक्ट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	G68855493
56	U74900PN2014PTC152248	लॉजिक एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	G73221038

(1) इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी रजिस्टार को उपर उल्लिखित कंपनियों से कंपनी से कंपनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त किया है कि वे उनकी कंपनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कंपनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारबार नहीं कर पायी है और इस अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त कर का आवेदन नहीं किया है या कंपनी ने निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कंपनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कंपनी रजिस्टर से से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

(2) तदनुसार कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्टर से ऊपर उल्लिखित कंपनियों का नाम हटाने का प्रस्ताव करता है।

(3) यदि किसी को रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर ऊपर उल्लिखित कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकता है।

पी. एस. खाडे
सहायक कंपनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(CENTRAL RESERVE POLICE FORCE DIRECTORATE GENERAL)

New Delhi, the 9th March 2018

No.O.II-68374/2018-Pers-DA(A/C)—Consequent on acceptance of his notice for resignation from Government service, Shri Kalbande Vinay Rajabhau, Assistant Commandant (Trainee) of DAGOs 50th Batch, undergoing Basic Training at CRPF Academy, Gurugram (Haryana) relinquished the charge of his post in the afternoon of 28/02/2018. Accordingly, he has been struck off from the strength of this Force with effect from the same date i.e. 28/02/2018 (AN).

SUDHAKAR UPADHYAY
DIG (Pers)

No.O.II-10902/2018-Pers-DA(A/C)—Consequent on acceptance of his notice dated 03/01/2018 for resignation from Government service, Shri Toni Khan, Assistant Commandant (IRLA No. 10902) of 158 Bn, CRPF relinquished the charge of his post in the afternoon of 28/02/2018 (AN). Accordingly, he has been struck off from the strength of this Force with effect from the same date i.e. 28/02/2018 (AN).

SUDHAKAR UPADHYAY
DIG (Pers)

SARDAR VALLABHABHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY

Hyderabad-500052, the 27th February 2018

No. 15011/03/2018-Estt.—In pursuance of MHA letter No. I-21015/26/2017-IPS.III dated 15.01.2018. Ms. Ajeetha Begum, IPS (KL : 2008) and Dr. S. Sateesh Bino, IPS (KL:2008), are appointed as Assistant Director in the SVP National Police Academy, Hyderabad in level 12 in the pay matrix on deputation basis for a period of four years with effect from 12.02.2018 (FN) or until further orders, whichever event takes place earlier, on usual terms and conditions of deputation. The officers will be entitled to the pay and allowances of the said post, as per GOI instructions issued from time to time.

D.R. DOLEY BARMAN
Director

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi, the 1st March 2018

No. A-22012/1/2016-Ad.III/214—In pursuance of Appointments Committee of the Cabinet, DoP&T Order No. 36/01/2018-EO(SM-I) (1) dated 28.02.2018, Shri Sailesh, IAS (AM:85), Registrar General of India is appointed as Registrar General of India in the rank and pay of Secretary to the Government of India on in-situ upgradation as a measure personal to the officer, with effect from 28.02.2018 (afternoon).

SANJAY
Dy. Director General

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
(CENTRAL EXPENDITURE)

New Delhi-110002, the 2nd February 2018

No. Admn.I/O.O. No. 381—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri Harish Chander, Senior Audit Officer (Level 10 in pay matrix) of this office has retired from Government Service on 31.01.2018 (A/N).

His date of birth is 02.01.1958 and he joined Government service on 08.04.1980.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Director (Admn.)

New Delhi-110002, the 2nd February 2018

No. Admn. I/O.O. No.-381—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri Harish Chander, Senior Audit Officer (Level 10 in pay matrix) of this office has retired from Government Service on 31.01.2018 (A/N.)

His date of birth is 02.01.1958 and he joined Government service on 08.04.1980.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Director (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), KERALA

Thiruvananthapuram, the 26th February 2018

No. 01/2018—

Name	Designation	Date of Retirement
Ananthakrishnan S	Sr. Accounts Officer Main Office, Thiruvanthapuram	31.01.2018

K. K. JAYA KUMAR
Accounts Officer/O. Estate

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

(NUCLEAR RECYCLE BOARD)

GENERAL SERVICES ORGANISATION

Palghar-401502, the 1st February 2018

No. GSO(T)/Admin-II/58(2)/2018/OPA-22874—Chief Executive, NRB, BARC, Mumbai appoints Shri Manoj Kumar, Assistant, DAE, Mumbai to officiate as Assistant Personnel Officer in the Level-8 in Pay Matrix of in NRB, BARC, Tarapur with effect from the forenoon of 16.01.2018 on regular basis until further orders.

A. D. RAUL
Assistant Personnel Officer

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION)

New Delhi-110003, the 25th January 2018

No.A.32016/2/2011-E-I (Vol.II).—On the basis of the recommendations of Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint the following officers to the post of Aeronautical Officer in Level-10 of the Pay Matrix in the Directorate General of Civil Aviation (Ministry of Civil Aviation) with effect from the dates shown against their names:-

Sl. NO.	Name	Date of joining
1.	Shri Praveen Kumar Singh	27/04/2017
2.	Shri Aravindh Kumar P	05/06/2017

2. They will be on probation for a period of two years from the date of their appointment and their successful completion of probation period is subject to the successful completion of the mandatory induction training in terms of DoP&T's OM No. 28020/1/2010-Estt.(C) dated 30/10/2014.

D. S. RAWAT
Dy. Dir. of Admn.

The 1st February 2018

No.A.12025/09/2017-E-I.—On the basis of the recommendations of Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Tarun Gogoi to the post of Deputy Director (Aircraft Engineering) in Level-12 of the Pay Matrix in the Directorate General of Civil Aviation (Ministry of Civil Aviation) with effect from 22/01/2018 (F.N).

2. He will be on probation for a period of one year from the date of his appointment and his successful completion of probation period is subject to the successful completion of the mandatory induction training in terms of DoP&T's OM No. 28020/1/2010-Estt.(C) dated 30/10/2014.

D. S. RAWAT
Dy. Dir. of Admn.

The 20th February 2018

No. A. 32020/04/2018-E-I.— On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Amit Gupta, Deputy Director (Aircraft Engineering) in the office of Director General of Civil Aviation, on his promotion to the post of Director (Aircraft Engineering) in level-13 of the Pay Matrix on regular basis with effect from the afternoon of 15th February, 2018.

D. S. RAWAT
Dy. Dir. of Admn.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
(OFFICE OF REGISTRAR OF COMPANIES)

FORM No. STK-7

NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

{Pursuant to sub-section (5) of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016}

In the matter of the Companies Act, 2013 and of the following Companies

Kanpur-208001, the 27th February 2018

No. LC/248(5)/UK/920—This is with respect to the this office Public Notice No. 1 and 2 dated 20.09.2017, applications in the form No. STK-2 filed by the respective Companies and notice in STK-6 published on 02.12.2017. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies act, 2013 the Companies as mentioned in following Companies has been struck off the register of Companies from the date of publication and the said companies are dissolved:—

Sl. No.	Company Name	CIN No	SRN No.
1	HEAVENGREEN INFRALANDDEVELOPERS INDIA LIMITED	U70100UR2014PLC001337	G52924966
2	UTTARAKHAND SCIENTIFIC MINERAL DEVELOPMENT PRIVATE	U93000UR2007PTC032529	G52789633
3	14 DAYS BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U65999UR2015PTC001437	G52559549
4	SOFTECH BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74999UR2015PTC001569	G52554284
5	DAS GLOBAEXIM PRIVATE LIMITED	U52190UR2014PTC001155	G52011178
6	JAI GANGESH ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U15549UR2016PTC007228	G50969252
7	SILVER FUN CONSULTANCY & MEDIA PRIVATE LIMITED	U74120UR2016PTC001980	G50058866
8	EARTH TUTORIALS PRIVATE LIMITED	U80902UR2011PTC000268	G49983232
9	GHOOMIGO TOURS PRIVATE LIMITED	U74999UR2014PTC001351	G49355415
10	DEWANSH INFRATECH PRIVATE LIMITED	U45400UR2013PTC000790	G49284359
11	BOMBAY HYGIENE PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U24246UR2006PTC032319	G48177547
12	ILLUMINATI WEBTECH PRIVATE LIMITED	U72300UR2013PTC000722	G47979216
13	SITARGANJ STONE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	U37200UR2013PTC000612	G4759304
14	PEROARTS PRIVATE LIMITED	U93000UR2015PTC001663	G46435665
15	HAS NATURALS PRIVATE LIMITED	U74999UR2013PTC000606	G46025219
16	DESTINO CABS PRIVATE LIMITED	U63090UR2015PTC001642	G45901865
17	B.C. MUNGALI & SONS REALTORS PRIVATE LIMITED	U45201UR2008PTC032679	G45375581
18	SPARKLE BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U52300UR2012PTC000098	G45123858
19	SMN TRADELINK CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74999UR2011PTC000038	G45069721
20	AMBANI HERBAL PRIVATE LIMITED	U36100UR2012PTC000216	G44951705
21	GREEN NATURE FORESTS PRIVATE LIMITED	U02000UR2012PTC000217	G44951390
22	AMBANI ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	U31500UR2012PTC000244	G44950848
23	AMBANI AYURVEDI PRIVATE LIMITED	U36109UR2012PTC000214	G44950665
24	SANTUSHTI MEGA PRIVATE LIMITED	U74900UR2008PTC032610	G44916427
25	GALAXY INFRA CITY PRIVATE LIMITED	U45400UR2013PTC000560	G44666139
26	NAVYUSHEE INFRA PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U70101UR2008PTC032544	G44582641
27	PRIME MEDICAL ALLIANCE PRIVATE LIMITED	U85110UR2012PTC000431	G44572725
28	SHEELCHANDRA SALES AND MARKETING PRIVATE LIMITED	U74992UR2010PTC033343	G44508828

29	ADHIPA PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U24239UR2013PTC000938	G44262889
30	GREAT FORTE HERBS PRIVATE LIMITED	U33100UR2015PTC001501	G44147148
31	SUN N SNOW HOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED	U55101UR2009PTC033006	G44032456
32	RAJDEEP SECURITY PLACEMENT AND SERVICES PRIVATE LIMITED	U22110UR1994PTC017260	G43981992
33	HIMALAYAN INFRA PRIVATE LIMITED	U29248UR2012PTC000132	G43981240
34	24BY7SELF SERVICES PRIVATE LIMITED	U74999UR2016PTC007130	G43949775
35	HIMALAYAN TOURISM DEVELOPMENT COMPANY PRIVATE LIMITED	U63090UR2011PTC033656	G43617133
36	SHREE RAM LEISURE HOLIDAYS PRIVATE LIMITED	U45200UR2007PTC032534	G43382696
37	HUMAN ANGLE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74900UR2011PTC033497	G43375179
38	ADYAH INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	U74992UR2010PTC033050	G43260140
39	SNOWMOUNT DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45209UR2012PTC000402	G43040294
40	NAKSHATRALOK ASTRO SERVICE PRIVATE LIMITED	U93000UR2010PTC033299	G43039148
41	UNIDO INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	U45200UR2013PTC000554	G42824367
42	G.S. HOLDINGS PRIVATE LIMITED	U67120UR1993PTC015219	G42560763
43	UTTARAKHAND URBAN TRANSPORT LIMITED	U60230UR2014SGC001076	G42560748
44	DOON VALLEY BPO PRIVATE LIMITED	U74900UR2010PTC033308	G42518704
45	AVATAR RESORT & SPA PRIVATE LIMITED	U55204UR2011PTC033509	G41956921
46	VIRTUAL HYDROMET PRIVATE LIMITED	U29253UR2013PTC000847	G41793928
47	DOON AGRI TRADEX PRIVATE LIMITED	U74120UR2011PTC033422	G41716986
48	GRANTIOSEMERRIMENT RETAIL PRIVATE LIMITED	U74999UR2014PTC001072	G41425877
49	YRV AGRI PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U15316UR2015PTC001834	G41414483
50	ABSAK PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U24233UR2014PTC001218	G40788556
51	EXPERT LABOUR SOLUTION PRIVATE LIMITED	U93000UR2011PTC000058	G40783896

PUNEET KUMAR DUGGAL
Registrar of Companies-cum-Official Lignidation
Uttarakhand

FROM No. STK-5

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (1) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off of companies under section 248 (1) of the Companies Act, 2013, of the following Companies

Gwalior-474009, the 7th February 2018

No. ROC-G/Notification-248(1)/2018/23510—

1. Notice is hereby given that the Registrar of Companies, Madhya Pradesh has a reasonable cause to believe that -

(i) The following companies have not commenced business within one year of their incorporation.

M/s. _____ (indicate names of companies)

M/s. _____

(ii) The following companies have not been carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and have not made any application within such period for obtaining the status of dormant company under section 455.

the following Companies

M/s _____ (indicate names of companies)

And, therefore, proposes to remove/strike off the names of the above mentioned companies from the register of companies and dissolve them unless a cause is shown to the contrary, within thirty days from the date of this notice.

2. Any person objecting to the proposed removal/striking off of name of the companies from the register of companies may send his/her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice :—

S.No.	CIN	Company Name
1	U00151MP1990PTC005909	ARUN NETRAMENTS PVT. LTD
2	U00155MP1983PTC002217	TRIVENI WINES PVT LTD
3	U00171MP1977PTC001402	SHUBHAM SYNTHETICS PVT LTD
4	U00171MP1994PTC008724	NARMADA COTON OVERSEAS PVT LTD
5	U00190MP1990PTC005704	BRIZ SOCKS PVT LTD
6	U00200MP1980PTC001616	SUJATA FOREST PRODUCTS PVT LTD
7	U00210MP1995PTC008913	S.S.CARBONS PVT LTD
8	U00221MP1987PTC004054	RUDRA PUBLISHERS & PRINTERS PVT LTD
9	U00241MP1975PTC001331	INDO- FOREIGN CHEMICAL INDUSTRIES PVT LTD
10	U00241MP1983PTC002300	BHAWANI CHEMICALS & LABORATORIES PVT LTD
11	U00241MP1986PTC003582	UJJAIN CHEMICALS PVT LTD
12	U00241MP1986PTC003744	SHIKHAR CHEMICALS PRIVATE LIMITED
13	U00241MP1989PTC005501	MALWA PIGMENTS PVT.LTD.
14	U00242MP1985PTC002870	MIDAS CHEMICALS PVT LTD
15	U00251MP1983PTC002123	MANGALATH RUBBER ENTERPRISES PVT LTD
16	U00271MP1994PTC008740	R.V.ENGINEERING PVT LTD
17	U00271MP1995PTC008914	GRD PROFILE STEEL PVT LTD
18	U00315MP1983PTC002317	LUMINAIRE & SWITCHGEARS (INDIA) PVT LTD
19	U00452MP1992PTC007402	SHAPE PIGMENTS PRIVATE LIMITED
20	U00551MP1983PTC002318	VIMIS HOTEL INDUSTRIES PVT LTD
21	U00551MP2000PTC014328	MAHABALI HOTELS PRIVATE LIMITED
22	U01100MP2010PTC023970	VILLE AGRO TECH NATURAL PRIVATE LIMITED
23	U01100MP2011PTC025320	PRIMRUPH AGRO AND ENERGIES PRIVATE LIMITED
24	U01111MP1972PTC001145	GWALIOR KRISHI VIKASH CO PRIVATE LIMITED
25	U01111MP1990PTC006163	MAHAKAUSHAL POULTRIES PVT LTD
26	U01111MP1994PTC008622	GARDEN PICK PVT. LTD.
27	U01111MP2004PTC016743	GROW WELL FARM DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
28	U01111MP2004PTC016744	KHYATRIYA FARM DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
29	U01111MP2004PTC016746	BHUMIKA FARM DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
30	U01122MP1989PTC005177	NEHA AGRO INDUSTRIES PVT LTD
31	U01122MP1990PTC006113	PAWANLATA ROSES & NURSERY PVT LTD
32	U01122MP1995PTC009235	MAHARUDRA FARMING AND PLANTATION PRIVATE LIMITED
33	U01122MP1996PTC010398	PUSP VIHAR PLANTATIONS AND LAND DEVELOPMENT PVT LTD
34	U01122MP2002PTC015130	ARIHANT ORCHARDS AND HERBAL FARMS PRIVATE LIMITED
35	U01222MP1982PTC002093	SHIVPURI HI-TECH AGRI-AQUA FARM PRIVATE LIMITED
36	U01400MP2010PTC024093	PRAKRAT UNNATI AJIVIKA FARMERS PRODUCER COMPANY LIMITED
37	U01400MP2012PTC027814	SOPAN PULPWOOD PLANTATION PRODUCER COMPANY LIMITED
38	U01400MP2013PTC029978	PSR CROP CARE PRIVATE LIMITED
39	U01400MP2013PTC030195	MAA JALPA CROP PRODUCER COMPANY LIMITED
40	U01400MP2013PTC030345	RAJGARH CROP PRODUCER COMPANY LIMITED

41	U01400MP2013PTC031379	BGB FOOD PRODUCTS INDIA PRIVATE LIMITED
42	U01401MP1998PTC012623	UNISON CONSULTANTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
43	U01403MP2012PTC029031	SHRIHARI TULSADEVI AGRI & REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
44	U01403MP2013PTC031150	MATA BAGLAMUKHI FARMS PRIVATE LIMITED
45	U01407MP2008PTC021121	GOLDEN EAGLE HI-TECH PRIVATE LIMITED
46	U01407MP2013PTC030070	BAGHWAN SEED UTPADAN PRODUCER COMPANY LIMITED
47	U01407MP2013PTC030604	SHAKAHARI AGRICULTURE PRIVATE LIMITED
48	U01410MP1989PTC005628	GAYATRI MINERALS & DOLOMITES PVT. LTD.
49	U01511MP1987PTC004078	CLASSIC CATTLE FEEDS PVT LTD
50	U01511MP1993PTC007875	PUSHPMOHAN DAIRY PVT LTD
51	U01511MP2000PTC013977	INSTANT SWEETNERS PRIVATE LIMITED
52	U01513MP1986PTC003290	SHRI VENKATESH POLYMERS PVT LTD
53	U01514MP1987PTC004013	DHADWAL OILS PVT LTD ,
54	U01514MP1988PTC004750	NAV KAR FOODS PVT LTD
55	U01549MP1984PTC002518	ARIES FOOD PRODUCTSPVT LTD
56	U01711MP1983PTC004491	DEEPAK ZINCOATS PVT.LTD.
57	U01711MP1994PTC008572	N.G.FABRICS PVT LTD
58	U01711MP1995PTC009886	MANGALAM SPINNERS PVT LTD
59	U01729MP1984PTC002331	INDIRA SYNTHETICS PVT LTD
60	U01911MP1988PTC004777	SHREENATH TYRES PVT LTD
61	U02001MP1995PTC010018	NEETA PLANTATIONS PVT LTD
62	U02010MP1980PTC001652	INDO WOOD PRODUCTS PVT LTD
63	U02101MP1990PTC006036	PRESMA STATIONERIESPVT LTD
64	U02211MP1987PTC004056	ANAY GRAPHICS PVT LTD
65	U02211MP1993PTC007916	JEAFFREYSON PRINT-TECH PVT LTD
66	U02211MP1996PTC010627	BHOPAL MARKET PROJECTION PVT LTD
67	U02411MP1983PTC002224	KHAJURAHO CHEMICALSPVT LTD
68	U02411MP1986PTC003659	SANG CHEMICALS PVT.LTD.
69	U02411MP1994PTC008540	BHOPAL ELECTROCHEM PVT LTD
70	U02411MP1995PTC009883	OMNI CARBONICS PVT LTD
71	U02412MP1975PTC001321	NATRAJEEV CHEMICALSAND FERTILIZERS PVT LTD
72	U02421MP1971PTC001372	PESTICIDES MANUFACTURING CO PVT LTD
73	U02421MP1988PTC004585	CHHATTISGARH PESTICIDES PVT LTD
74	U02423MP1977PTC001394	IMPHALBS PRIVATE LIMITED
75	U02423MP1980PTC001653	ALLEN PHARMACEUTICALS PVT LTD
76	U02423MP1983PTC002172	ALSPAN CHEMICALS PVT LTD
77	U02423MP1984PTC002514	MACKWELL PHARMACEUTICALS PVT LTD
78	U02423MP1984PTC002547	GANESH PHARMACEUTICALS PVT.LTD.
79	U02423MP1985PTC002964	SAMARPAN DRUGS AND CHEMICALS PVT LTD
80	U02423MP1986PTC003669	ESSKAY MEDICINE PVT. LTD.
81	U02423MP1988PTC004930	SAROJ PHARMACEUTICALS PVT LTD.
82	U02423MP1990PTC005903	ROYAL DRUGS PVT LTD
83	U02423MP1990PTC006171	JAYLEEN PHARMACEUTICALS PVT LTD
84	U02423MP1995PTC009080	VASAV PHARMACEUTICALS PVT LTD
85	U02423MP2000PTC013981	RAJESVARI HERBALS PRIVATE LIMITED
86	U02424MP1976PTC001373	GROVER SOAP PVT LTD
87	U02472MP1996PTC011354	VISIVE PHARMA PRIVATE LIMITED
88	U02511MP1989PTC005114	SWATI TUBES PVT LTD
89	U02511MP1996PTC010516	SIMRAN TUBES PVT LTD
90	U02511MP1996PTC010552	APURVA RUBBERS PRIVATE LIMITED
91	U02519MP1997PTC011786	SIDDHARTHA FOAM ANDFURNISHINGS PVT LTD

92	U02520MP1980PTC001660	PACKING & PLASTIC IND PVT TD
93	U02520MP1985PTC003133	SHIV SHAKTI POLY MOULD PVT LTD
94	U02520MP1987PTC003949	PRINTO PLAST PVT LTD
95	U02520MP1994PTC008318	PREETI RESIN PLAST PRIVATE LIMITED
96	U02611MP1993PTC007796	CHAMBAL PUMPS PVT LTD
97	U02694MP1983PTC002201	VALLABH CEMENTS PVT LTD
98	U02694MP1984PTC002387	CHANCHAL CEMENT PVT LTD
99	U02694MP1984PTC002448	RACHHO COMMERCE & CEMENT INDUSTRIES PVT LTD
100	U02694MP1990PTC006136	SARWANG MINERALS PVT LTD
101	U02710MP1972PTC001125	BARJATYA SALES PVT LTD
102	U02710MP1977PTC001411	VIKRAM METAL POWDERS PVT LTD
103	U02710MP1979PTC001539	RAGINI STEELS INDIAPVT LTD
104	U02710MP1983PTC002278	COSMOS FABRICATORS & ENGINEERS PVT LTD
105	U02710MP1985PTC002798	SHRI STEEL FABRO INDUSTRIES PVT LTD
106	U02710MP1985PTC002873	J.D.GOYAL STEELS PVT LTD
107	U02710MP1985PTC002912	S.M.ALLOYS PVT LTD
108	U02710MP1985PTC002951	ANJANI STEELS PVT LTD
109	U02710MP1985PTC003178	G.T.B.STEEL & ALLOYMILLS PVT LTD
110	U02710MP1986PTC003655	BHOPAL ALLOY CASTINGS PVT LTD
111	U02710MP1987PTC003801	BHOPAL INDUCTION CASTINGS PVT LTD
112	U02710MP1987PTC003848	NAVJYOT STEEL RE-ROLLING MILLS PVT LTD.,
113	U02710MP1987PTC003953	TOSHNIWAL METAL INDUSTRIES PVT LTD
114	U02710MP1987PTC004273	CHIRAG IRON AND ALLOYS PVT LTD
115	U02710MP1988PTC004519	GEE BEE PRECISION ENGINEERING PVT LTD
116	U02710MP1989PTC005616	PARAS TRANSLAM PVT.LTD.
117	U02710MP1990PTC006058	MAHADEV FERRO ALLOYS PVT. LTD.
118	U02710MP1990PTC006072	LORD ALUMINIUM PVT LTD
119	U02710MP1991PTC006222	SHREE JAGDAMBA STRUCTURES PVT LTD
120	U02710MP1991PTC006541	SADUL STEELS PRIVATE LIMITED
121	U02710MP1992PTC007081	DUBEY STEELS PVT LTD
122	U02710MP1994PTC008598	VINAY METAFUSION PVT LTD
123	U02710MP1995PTC009675	QUALITY TUBLAR POLES PVT LTD
124	U02710MP1996FTC011439	OMEGA FASTENERS PRIVATE LIMITED
125	U02710MP1996PTC010957	GRADED ALLOYS AND STEEL PRIVATE LIMITED
126	U02710MP2005PTC017395	BAL KISHAN STEEL PRIVATE LIMITED
127	U02911MP1988PTC004483	TEE AAR CONDUCTORS PVT LTD
128	U02911MP1990PTC006154	PUJA AGRO EQUIPMENTS PVT LTD
129	U02911MP1994PTC008678	K.K.HOUSE WARE PVT LTD
130	U02919MP1984PTC002585	PRAGATISHEEL CASTINGS PVT LTD
131	U02929MP1987PTC003998	GOVIND ELECTRODES PVT LTD ,
132	U02929MP1988PTC004571	OM INSULATOARS PVT LTD
133	U02930MP1993PTC007891	MAHALAXMI AUTO LAMPS COMPANY PVT LTD
134	U02930MP1995PTC009554	PAGARIA POLYMERS PVT LTD
135	U03110MP1982PTC002034	RAAMMA PUMPS PRIVATE LIMITED
136	U03110MP1987PTC004099	RAINBOW WIRES PVT LTD
137	U03110MP1988PTC004323	DAWAR SUPER WIRE COPVT LTD
138	U03210MP1971PTC001444	PRECISION ELECTRICALS & ELECTRONICS PVT LTD
139	U03210MP1984PTC002385	MEKWELD ELECTRODES PVT LTD
140	U03210MP1985PTC002878	POOJA SALES PVT LTD
141	U03210MP1987PTC004070	SORIBA ELECTRONICS PVT LTD
142	U03210MP1997PTC011553	SAVITA ELECTRONICS (INDIA)PRIVATE LIMITED

143	U03210MP1999PTC013717	COMPONENT PLUS PRIVATE LIMITED
144	U03311MP1983PTC002248	HARRIP CAPSULES PVT LTD
145	U03410MP1991PTC006191	SHIPLA AUTOMOBILES PVT LTD
146	U04520MP1986PTC003235	NILGIRI CONSTRUCTION CO. PVT LTD
147	U04520MP1987PTC004030	HINDUJA BUILDERS PVT LTD
148	U04520MP2004PTC017030	RAJVANSH BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
149	U04520MP2005PTC017371	JASSI BUILTCON PRIVATE LIMITED
150	U04520MP2005PTC017486	RAMNATH ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
151	U04520MP2005PTC018150	SAVITRI CONSTRUCTIONS (INDORE) PRIVATE LIMITED
152	U05139MP1984PTC002437	SUPER DOMESTIC APPLIANCES PVT LTD
153	U06302MP1996PTC011281	SATYAM COLD STORAGEPRIVATE LIMITED
154	U06302MP2000PTC014226	TRIKUTA COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
155	U06591MP2000PTC014034	SATNA SECURITIES PRIVATE LIMITED
156	U07310MP1995PTC009631	CENTURY PHARMA AND RESEARCH LABS PVT LTD
157	U07414MP1988PTC004487	FRIENDS MELTWELL PVT LTD
158	U07414MP1988PTC004853	TREND SETTER CONSULTANTS & TRADERS PVT LTD
159	U07492MP1996PTC011221	REWANCHAL INDUSTRIAL SECURITY INDIAPRIVATE LIMITED
160	U07495MP1993PTC007830	SAI CORRUGATION ANDPACKAGING PVT LTD
161	U07495MP1994PTC008464	BACHAN CAPS PVT LTD
162	U07495MP1996PTC010613	G.J.PACKAGING PVT LTD
163	U12930MP1989PTC005312	KASARA UTENSILS PVTLTD.
164	U13100MP2012PTC027765	JAINAM RESOURCES MINERAL PRIVATE LIMITED
165	U13100MP2012PTC027825	OASIS EARTH MINING PROJECTS PRIVATE LIMITED
166	U13200MP2011PTC026346	IND MINING & ISPAT PRIVATE LIMITED
167	U13201MP1999PTC013891	SISODIA MININGS PRIVATE LIMITED
168	U13209MP1984PTC002616	UNIVERSAL METAL PRESSINGS INDUSTRIES PVT LTD
169	U13209MP1990PTC005697	WADHWANI INDUSTRIALTOOLS PVT LTD
170	U13209MP2013PTC030455	CELESTIAL FERRO ALLOY PRIVATE LIMITED
171	U14101MP1988PTC004622	MAHIDHAR MOSAIC INDUSTRIES PVT LTD
172	U14101MP1992PTC007269	ARCHANA GRANITES PVT LTD
173	U14101MP1994PTC008222	BHUSHAN STONES PVT LTD
174	U14101MP2002PTC015445	YASH MINES AND MARBLES (INDIA) PRIVATE LIMITED
175	U14102MP1989PTC005453	HIRAMANI GARNITES PVT. LTD.
176	U14102MP1990PTC006037	ARVIND WHITE MARBLE& GRANITE PVT LTD
177	U14102MP1993PTC008036	KANCHAN GRANITES AND MINERALS PVT LTD
178	U14106MP1985PTC003096	SUNDERAM TILES PVT LTD
179	U15101MP1990PTC006043	SHRIJEE NUTRIENTS FOOD PVT LTD
180	U15111MP1987PTC003872	ARORA DISTILLERIES PVT LTD
181	U15111MP1995PTC008966	DHANANJAY FOODS PVT LTD
182	U15135MP1985PTC003040	M.P.FOODS PVT LTD
183	U15135MP1998PTC012656	MALINI FOODS AND BEVERAGES PRIVATE LIMITED
184	U15136MP2008PTC020264	SIZZLING FOODS (INDIA) PRIVATE LIMITED
185	U15142MP1973PTC001216	MORENA OIL PRODUCTSPVT LTD
186	U15142MP1980PTC001658	AIFRAN OILS (INDIA)PVT LTD
187	U15142MP1982PTC002022	VINDHYA EXTRUSIONS PVT LTD
188	U15142MP1991PTC006414	SARAIPALI OILS PVT.LTD.
189	U15143MP1977PTC001426	SHAJAPUR SOLVENT EXTRACTIONS PRIVATE LIMITED
190	U15143MP1985PTC003045	PACHORY OIL MILLS PRIVATE LIMITED
191	U15143MP1986PTC003701	O.K.AGRO INDUSTRES PVT LTD.,
192	U15143MP2000PTC014173	PRECISION TURNOMATSPRIVATE LIMITED
193	U15200MP1982PTC001979	YASHODA DAIRY PVT LTD

194	U15203MP1999PTC013465	SHIVGANGA DAIRY PRODUCTS PRIVATE LIMITED
195	U15205MP1999PTC013753	PARSHVANATH COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
196	U15310MP2008PTC020985	SANKALP FOODS PRIVATE LIMITED
197	U15311MP1983PTC002283	ADARSH FLOUR MILLS PVT LTD
198	U15311MP1987PTC004242	SHUDH ATTA MILLS PVT LTD
199	U15315MP1987PTC004143	JAVADHIYA PULSES PVT LTD
200	U15316MP1985PTC002780	ASSOCIATED FOOD PRODUCTS PVT LTD
201	U15400MP2010PTC024730	LIBRA FOOD WORKS PRIVATE LIMITED
202	U15400MP2011PTC025668	SOHANG AGROTECH PRIVATE LIMITED
203	U15400MP2012PTC028689	SHREE MONIKRUPA MILK PRODUCTS (INDIA)PRIVATE LIMITED
204	U15400MP2012PTC029447	BANSAL BROTHERS AGRO FOODS PRIVATE LIMITED
205	U15412MP1987PTC004284	BEELINE QUICK FOODSPVT LTD
206	U15412MP2003PTC015847	OM SHREE FOODS PRIVATE LIMITED
207	U15491MP2002PTC015192	S.S.TEA WORLD PRIVATE LIMITED
208	U15500MP2010PTC024668	KIMBERLIGHTE DISTILLERIES PRIVATE LIMITED
209	U15500MP2012PTC027540	UNIQUE BOTTLING INDIA PRIVATE LIMITED
210	U15510MP2012PTC029512	AEGIS SPIRITS AND WINES PRIVATE LIMITED
211	U15511MP1987PTC003811	GOLD WATER BEWERAGES PVT LTD.,
212	U15520MP1993PTC007950	MAHAKAL DISTELLARY PVT LTD
213	U15541MP2010PTC023734	GARIMA BEVERAGES PRIVATE LIMITED
214	U15541MP2012PTC027488	SUNRISE BOTTLERS INDIA PRIVATE LIMITED
215	U15543MP1998PTC013093	KHODIYAR BEVERAGES PRIVATE LIMITED
216	U15549MP1988PTC004435	PARAGON NARROW FABRICS PVT LTD
217	U15549MP1993PTC007787	SANGHAI APPARELS MANUFACTURING COMPANYPVT LTD
218	U16003MP1993PTC007589	MANU PAN MASALA PVT LTD
219	U16009MP2011PTC025523	ROHIT TOBACCO PRIVATE LIMITED
220	U17101MP1990PTC005651	PADAM SHREE GARMENTS PVT. LTD.
221	U17111MP1991PTC006623	PURNIMA GARMENTS PRIVATE LIMITED
222	U17115MP1987PTC004104	SANGAM SPINNERS PVT LTD
223	U17116MP1987PTC004107	RADO TEXTILE PROCESSORS PVT LTD
224	U17121MP1987PTC004051	MAHENDRA GINNING PVT LTD
225	U17121MP1989PTC005485	RAJAT COTTON MILLS PVT. LTD.
226	U17121MP1997PTC012488	JAMODKAR CHEMTEX PRIVATE LIMITED
227	U17121MP1998PTC013205	SURENDRA COTTON PRIVATE LIMITED
228	U17124MP1986PTC003490	SHALIMAR SYNTHETICSPVT LTD
229	U17124MP2003PTC015572	DUPION FABRICS PRIVATE LIMITED
230	U17235MP1997PTC012341	T.S.FILTER AND FABRICS PRIVATE LIMITED
231	U17290MP1994PTC008604	NICHOLAS WOOLTEX PRIVATE LIMITED
232	U17300MP2010PTC023280	MANGAL SHRI FIBRE &REALITIES PRIVATE LIMITED
233	U17301MP2010PTC022890	MIDLAND ENTERPRISESPRIVATE LIMITED
234	U17303MP1995PTC010120	KATYAYANI POLYMERS PRIVATE LIMITED
235	U17303MP1996PTC010714	BHAVABHUTI POLYMERSPRIVATE LIMITED
236	U18101MP1997PTC012143	ADINATH APPARELS PRIVATE LIMITED
237	U18101MP2000PTC014053	GOLDRICH SYNTHETICSPRIVATE LIMITED
238	U18101MP2012PTC027689	BOSS RETAIL & MANUFACTURING INDIAPRIVATE LIMITED
239	U18109MP2005PTC017634	A.P. GULMOHUR CREATION PRIVATE LIMITED
240	U18109MP2005PTC017743	PROFILE FASHION HOUSE PRIVATE LIMITED
241	U18109MP2010PTC023847	RAJNIGANDHA ENTERPRISES INDIA PRIVATE LIMITED
242	U19120MP1989PTC005510	SHEKHAWAT LEATHER &STEEL PVT. LTD.
243	U19129MP1980PTC001669	MAHABIR LEATHER BOARDS PVT LTD
244	U20211MP1989PTC005611	LAHOTI LAMINATES PRIVATE LIMITED

245	U20211MP1997PTC012162	TEFCO PLYWOOD PRIVATE LIMITED
246	U20222MP1992PTC007306	SHRI SATYA GRANITESPVT LTD
247	U21012MP1991PTC006207	VICTORY POLYPACK PVT LTD
248	U21012MP1992PTC007370	PRESAGE BOX PVT LTD
249	U21014MP1974PTC001265	BHOPAL PACKERS PVT LTD
250	U21014MP1988PTC004314	PITHAMPUR PACKAGINGS PVT LTD
251	U21014MP2003PTC016259	SAAJ PACKERS PRIVATE LIMITED
252	U21022MP2006PTC019022	NEELAMBAR PRINT & PACKAGING PRIVATE LIMITED
253	U21098MP1982PTC001998	COMPUTER STATIONERYMANUFACTURING(INDIA) PVT LTD
254	U22100MP2013PTC029914	BLITZ TODAY PRAKASHAN PRIVATE LIMITED
255	U22101MP1988PTC004893	MADHYA PRINT MEDIA PVT.LTD.
256	U22101MP1988PTC004926	SHAILESH PAPERS PVTLTD.
257	U22110MP1988PTC004877	CORAL CALLIGRAPHERSPVT.LTD.
258	U22110MP1990PTC005699	L.T.D.PUBLISHERS PVT LTD
259	U22120MP1990PTC005738	SIGMA PAPERS PVT LTD
260	U22120MP2008PTC021007	MAHAKAL MEDIA & ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
261	U22120MP2009PTC022179	BNP REAL INFO MEDIA(INDIA) PRIVATE LIMITED
262	U22121MP1987PTC003795	ULAT PALAT PUBLICATION PVT LTD.,
263	U22121MP1988PTC004811	AFKAR WRITERS AND PUBLISHERS PVT LTD
264	U22122MP1990PTC006151	ABHIMAT PRAKASHAN PVT LTD
265	U22122MP1999PTC013926	SUVIDHA LAW HOUSE PRIVATE LIMITED
266	U22122MP2005PTC017261	NAVA BHARAT MULTIMEDIA PRIVATE LIMITED
267	U22200MP1990PTC005963	KASYAP PUBLICATION PRIVATE LIMITED
268	U22210MP2012PTC029104	FAITHLINK PRINTING AND ADVERTISING SERVICES PRIVATE LIMITED
269	U22211MP1984PTC002358	E S D PRINTING HOUSE PVT LTD
270	U22211MP1995PTC009562	MACGRAW OFFSETS PVT LTD
271	U22212MP1988PTC004682	CORONET PRINTING HOUSE PVT LTD
272	U22219MP1986PTC003460	SHIVA PRINTOGRAPHICS PVT LTD
273	U22219MP1990PTC005974	KASYAP PRINTERS PRIVATE LIMITED
274	U22300MP2012PTC029217	SURABHI NEWS BROADCAST & ENTERTAINMENTSERVICES PRIVATE LIMITED
275	U23201MP1987PTC003878	CYNEX LABORATIES PVT LTD
276	U23210MP1986PTC003313	TERA ELECTRONICS PVT LTD
277	U24101MP1983PTC002177	SHAKTI REXINES PVT LTD
278	U24101MP1983PTC002190	HEMU POLYOXYGEN PVT LTD
279	U24101MP1983PTC002195	C. P. BOTTLING COMPANY PRIVATE LIMITED
280	U24101MP1984PTC002599	RAJAT SALTS & ALLIED PRODUCTS PVT LTD
281	U24101MP1985PTC002724	SWASTIK REFILLS PVT LTD
282	U24101MP1986PTC003331	IBEL CHEMICALS PVT LTD
283	U24101MP1989PTC005103	N.H.SYNTHETICS PVT LTD
284	U24101MP1989PTC005423	V.M. SYNTHETICS PVT. LTD.
285	U24111MP1994PTC008323	ANSILCA CHEMICALS PRIVATE LIMITED
286	U24111MP1995PTC009718	SRI SHESHAGIRI CHEMICALS PVT LTD
287	U24114MP1978PTC001457	KAPCON PRIVATE LIMITED
288	U24114MP1986PTC003439	R G CHEMICALS PVT. LTD.
289	U24114MP1998PTC012676	NISHTHA CHEMICALS PRIVATE LIMITED
290	U24116MP1980PTC001703	SAFEX INDIA PVT LTD
291	U24116MP1982PTC002020	CENTRAL INDIA ORGANICS PVT LTD
292	U24117MP1988PTC004668	CHEMTRON CHEMICALS PVT LTD
293	U24117MP1995PTC009945	ROOPJYOTI POWER PROJECTS PVT LTD

294	U24119MP2013PTC031154	GERMAN ORG CHEM INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
295	U24121MP1988PTC004805	AHILYA FERTILIZERS PVT LTD
296	U24123MP1990PTC005742	MAYUR FERTILIZERS & PESTICIDES PVT LTD
297	U24129MP1997PTC011800	KAKDA FERTILISERS AND CHEMICALS PVT LTD
298	U24132MP1986PTC003285	SAMAGRA PLAST PVT LTD
299	U24134MP2001PTC014832	JHABLI POLYMERS PRIVATE LIMITED
300	U24139MP1994PTC008080	RAJA COIR FOAM PRODUCTS PVT LTD
301	U24211MP2012PTC028423	ANAND PESTICIDES PRIVATE LIMITED
302	U24219MP1980PTC001684	DURGA PESTICIDES PVT LTD
303	U24219MP1992PTC007107	PENGUIN PAINTS (INDIA)PVT LTD
304	U24219MP1998PTC012570	ALHILAL AGRO CHEM AND FERTILIZERSPRIVATE LIMITED
305	U24222MP1990PTC005985	ROLI PAINTS PVT LTD
306	U24222MP1998PTC012894	BRIGHT ORGANICS PRIVATE LIMITED
307	U24230MP2009PTC022373	KABRA PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
308	U24231MP1986PTC003547	RUPAL PHARMACEUTICALS PVT LTD
309	U24231MP1995PTC009300	BOON LABORATORIES PVT LTD
310	U24231MP1999PTC013558	ARNTZEN DRUGS AND FORMULATION PRIVATE LIMITED
311	U24232MP1976PTC001390	MAHINDRA PHARMACEUTICALS PVT LTD
312	U24232MP1985PTC002765	PITHAMPUR PHARMA SURGICAL COTTON PVT LTD
313	U24232MP1986PTC003230	SISONS AEROPHARMA PVT LTD
314	U24232MP1992PTC007095	ROBIN CAMPHOR AND ORGANICS PVT LTD
315	U24232MP1998PTC012853	CALIPH PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
316	U24232MP2003PTC015781	MEDITEK LABORATORIES PRIVATE LIMITED
317	U24232MP2003PTC015914	MC MORRION PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
318	U24232MP2011PTC026552	ARCHIT PHARMA INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
319	U24232MP2011PTC027196	OKTA LIFESCIENCES PRIVATE LIMITED
320	U24232MP2013PTC029891	FRIENDS REMEDIES PRIVATE LIMITED
321	U24233MP2013PTC030502	PAPA PHARMACEUTICALS & COSMETICS PRIVATE LIMITED
322	U24239MP1982PTC002075	UNO LABS PVT LTD
323	U24240MP2012PTC029120	ADVANCE HYGIENE PRIVATE LIMITED
324	U24241MP1999PTC013524	WASH WELL SURFACTANTS PRIVATE LIMITED
325	U24244MP1981PTC001805	DAYLINE SPRAY SYSTEMS PVT.LTD.
326	U24249MP2009PTC021717	PRINCE FLAVOUR AND FRAGRAANCEETECHNOLOGY AND TRADEMARK PRIVATE LIMITED
327	U24293MP1988PTC004825	SHRI AGRO CHEMICALSPVT.LTD.
328	U24294MP1992PTC007179	NITYA COLOUR LABS PVT LTD
329	U24297MP1996PTC010877	YEMS INDUS PRINTS PRIVATE LIMITED
330	U25111MP1984PTC002458	HIMMAT TYRES PVT LTD
331	U25111MP1986PTC003380	SAIMA RUBBERS PVT.LTD.
332	U25111MP1991PTC006374	NESAN TYRES & TREADS PVT.LTD.
333	U25119MP1984PTC002548	SENTHOME TREADS PVT LTD
334	U25121MP1986PTC003288	G K TIGHTNER INDUSTRIES PVT LTD
335	U25191MP1974PTC001253	RIGID TUBE PVT LTD
336	U25191MP1985PTC002783	DHIRAJ POLYPACK PVT.LTD.
337	U25191MP1988PTC004396	PIONEER RUBBER PVT LTD
338	U25200MP1988PTC004385	EMSONS CABLES PRIVATE LIMITED
339	U25200MP1989PTC005516	CHARU POLY PLAST PVT. LTD.
340	U25200MP2008PTC021177	VISHVAS EXTRUSIONS PRIVATE LIMITED
341	U25200MP2010PTC024551	DAKSHA POLYMERS PRIVATE LIMITED
342	U25200MP2013PTC030617	RAJESH POLYTECH PRIVATE LIMITED
343	U25201MP1995PTC010050	JAJOO PLASTOWARES PRIVATE LIMITED

344	U25202MP1995PTC009539	ISHKUL PAPER PLAST PVT LTD
345	U25202MP2012PTC028844	JAI BHOLE PACKAGINGPRODUCTS PRIVATE LIMITED
346	U25204MP1985PTC002732	TIRUPATI POLY WOVENSACKS PVT LTD
347	U25207MP1999PTC013587	J S M PLASTECH PRIVATE LIMITED
348	U25209MP1984PTC002636	SUMANGAL SYNTEX PVT LTD
349	U25209MP1984PTC002640	NARMADA STACKWEL PVT LTD
350	U25209MP1985PTC003052	DELUX CROWN CARKS PVT LTD
351	U25209MP1985PTC003116	PALEVAR BOTTLING COPVT LTD
352	U25209MP1986PTC003511	MATHSONS PLASTICS AND GLASSES PRIVATE LIMITED
353	U25209MP1987PTC003794	SANKO PLASTICS PVT LTD
354	U25209MP1990PTC006086	SUNGRACE PLASTICS PVT LTD
355	U25209MP1991PTC006455	RENUKAMATA GINNING & PRESSING PVT.LTD.
356	U25209MP2011PTC026716	SATI POLYWEAVE PRIVATE LIMITED
357	U26915MP1988PTC004656	CLASSIC PIPES PVT LTD
358	U26921MP1986PTC003402	SHUBHAM TILES PVT LTD
359	U26921MP1987PTC004195	VISHAL REFRACTORIESPVT LTD
360	U26921MP1992PTC007364	TOLIA TILES PVT LTD
361	U26921MP1998PTC013151	FLOOR TUNE TILES PRIVATE LIMITED
362	U26922MP1986PTC003388	SHYAM SPUN PIPES PVT.LTD.
363	U26922MP1986PTC003684	ANMOL SPUN PIPES PVT LTD
364	U26931MP1975PTC001343	NARMADA TILE & BRICK CO PVT LTD
365	U26940MP1986PTC003447	GWALIOR CEMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
366	U26954MP1984PTC002501	TITLE TILES PVT LTD
367	U27100MP2009PTC022123	BPN STEEL AND IRON PRIVATE LIMITED
368	U27101MP1982PTC002000	OMEGA ALLOY CASTINGS PVT LTD
369	U27101MP1983PTC002152	GOMTESHWAR MALLEABLES AND ALLOYS PVT LTD
370	U27101MP1986PTC003339	SUGAN METAL INDUSTRIES PVT LTD
371	U27101MP1989PTC005154	AYUSH ALLOYS PVT LTD
372	U27102MP2008PTC020727	STIMEX STEELS PRIVATE LIMITED
373	U27103MP1984PTC002677	OLYMPIAN DIE CASTERS PVT LTD
374	U27104MP1994PTC008871	ANJU STEELS PVT LTD
375	U27105MP1972PTC001139	MORENA REROLLING & INDUSTRIALDEVELOPMENT CO PVT LTD LTDTD
376	U27109MP1981PTC001784	DAYLINE COATINGS PVT LTD
377	U27109MP1982PTC001904	NEW FOUNDARY & CASTINGS PRIVATE LIMITED
378	U27109MP1986PTC003414	SUNNY STEELS PVT. LTD.
379	U27109MP1986PTC003617	CRESENT ALLOYS PVT.LTD.
380	U27109MP1987PTC004275	GOLDEN LEMINATORS PVT LTD
381	U27109MP2011PTC026154	GLOBEX INDUSTRIES INDIA PRIVATE LIMITED
382	U27201MP1988PTC004397	SHARDA ALUMINIUM CONDUCTORS PVT LTD
383	U27203MP1985PTC002737	MALWA PIPES & TUBESPVT LTD
384	U27203MP1987PTC004257	PITHAMPURIA ALUMINIUM SHEET METAL WORKSPVT LTD
385	U27203MP1989PTC005546	GANGA PIPES PVT LTD
386	U27203MP1991PTC006258	SHREENATH CAPS MANUFACTURERS PVT LT D
387	U27205MP2011PTC025359	ADVORLW JEWELLERS (I) PRIVATE LIMITED
388	U27310MP1980PTC001631	EDEL CAST INDIA PVT LTD
389	U27310MP1981PTC001769	PAREKH RE-ROLLINGS PVT LTD
390	U27310MP1985PTC003023	SARADIGA DIE CASTERS PVT LTD
391	U27310MP1985PTC003136	NARSINGH STEEL RE-ROLLING MILL PVT LTD
392	U27310MP2007PTC019276	KLM ISPAT PRIVATE LIMITED
393	U27320MP1985PTC003057	NAVDEEP METALS PRIVATE LTD

394	U27320MP1997PTC011821	GWALIOR METALS PRIVATE LIMITED
395	U28111MP1986PTC003337	STIMEX FABRICATORS & ENGINEERS PVT LTD
396	U28111MP1989PTC005356	SHINE-O-SHINE METALLICS PVT. LTD.
397	U28112MP1992PTC007310	GRAH LAXMI FOODS PVT LTD
398	U28112MP1993PTC007990	KAY KAY WELD CRAFTSPVT LTD
399	U28112MP1996PTC010989	H.J.ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
400	U28113MP1984PTC002375	BANMORE FOUNDERS PVT LTD
401	U28113MP2004PTC016670	LIFE EXTENSION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
402	U28910MP1986PTC003453	AKASH CASTINGS PVT LTD
403	U28932MP1980PTC001671	KALPANA MACHINE TOOLS PVT LTD
404	U28932MP1984PTC002347	SNAHEH METAL ALLOY PVT LTD
405	U28991MP1973PTC001228	NISSAN SPRINGS PVT.LTD
406	U28991MP1992PTC007075	SAI WIRE PRODUCTS PVT LTD
407	U28993MP1991PTC006433	MANNALAL THAKURIA SAFETY VAULTS & FINANCE PRIVATE LIMITED
408	U28995MP1994PTC008705	I.K.S.WORK MASTER PVT LTD
409	U28996MP1985PTC003034	COL-TUBES PVT LTD
410	U28999MP1984PTC002464	ZIRCONIC SPRING STRIPS PVT LTD
411	U29100MP2011PTC025247	EPICUREANS INFINITE MACHINE ENGINEERING PRIVATE LIMITED
412	U29111MP2000PTC014088	RAMKRISHNA TRACTORSPRIVATE LIMITED
413	U29199MP1985PTC003068	BURHANI ROLLING MILL PRIVATE LIMITED
414	U29212MP1987PTC003939	SYAS DRILL TOOLS PVT LTD
415	U29219MP1980PTC001676	INDUSTRIAL COMPONENTS PVT LTD
416	U29222MP1986PTC003550	SPARR DRILL PVT LTD
417	U29245MP1985PTC003041	AVS ENGINEERING PRIVATE LIMITED
418	U29252MP1974PTC001287	REMO FILTERS PVT LTD
419	U29294MP1985PTC003072	HAMJA OFFSET WORKS PRIVATE LTD
420	U29300MP2013PTC030747	PRATHAMA ENGI-TECH AND FORGINGS PRIVATE LIMITED
421	U29303MP1985PTC002940	EVER COOL PVT LTD
422	U29305MP1990PTC005702	STARK ELECTRODES PVT LTD
423	U29307MP2012PTC028613	PBS SYSTEMS & ENERGIES PRIVATE LIMITED
424	U29308MP1989PTC005332	ANJALI COOLERS PVT LTD.
425	U29308MP1996PTC010593	PLACEWELL COMPUTERSPVT LTD
426	U29308MP1999PTC013645	SUPRA SCRIBE PRIVATE LIMITED
427	U30706MP1985PTC003207	AKCHHAT INSULATORS PVT LTD
428	U31100MP1984PTC002676	GABA ELECTRONICS PVT LTD
429	U31101MP1985PTC003125	ORIENTAL EXTRUSION PVT LTD
430	U31101MP1986PTC003377	MACWEL ELECTRICALS PVT.LTD.
431	U31102MP1998PTC012989	DOABA ELECTRICALS PRIVATE LIMITED
432	U31200MP1963PTC000956	EVEREST ELECTRONICSPVT LTD
433	U31200MP1994PTC008837	ARPIT ENTERPRISES FIBRO PLAST PVT LTD
434	U31300MP1985PTC002899	DEE CEE ELECTRICALSPVT LTD
435	U31300MP1989PTC005377	CHHINDWARA MAGNET WIRE PVT. LTD.
436	U31300MP1994PTC008561	VIJAY WELDMESH PVT LTD
437	U31300MP2003PTC015839	OXFORD CABLES AND METALS PRIVATE LIMITED
438	U31909MP1985PTC002852	M.P.OXIDE BATTERIESPVT LTD
439	U32101MP1988PTC004817	NARMADA CABLE & CONDUCTORS PVT LTD
440	U32107MP1987PTC004186	SUPER ELETRO LAMPS PVT LTD
441	U32204MP1995PTC009487	JAIMSONS TELECOMMUNICATIONS PVT LTD
442	U32204MP1997PTC011914	MISHI TELECOM (INDIA)PRIVATE LIMITED

443	U32204MP2009PTC021744	VAISHNAVI TELECOM AND CONSTRUCTIONPRIVATE LIMITED
444	U33112MP1960PTC000910	NAGRATH INDUSTRIES PVT LTD
445	U34102MP1990PTC005764	RAJDHANI AUTO UDYOGPVT LTD
446	U34102MP1992PTC007255	SHIVA PISTONS AND SPARES PVT LTD
447	U34102MP1994PTC008219	PREM AUTOMOTIVES AND ENGINEERS PVT LTD
448	U34102MP1997PTC011854	SHRI RAM TRACTORS AND MOTORS PRIVATE LIMITED
449	U34300MP1979PTC001554	PRECISION GEARS INDORE PVT LTD
450	U34300MP1982PTC001932	SILENCERS INDIA PRIVATE LIMITED
451	U34300MP1985PTC002962	MANIK AUTO RADIATORS PRIVATE LIMITED
452	U34300MP1985PTC002977	M.P.GEARS PRIVATE LIMITED
453	U34300MP1987PTC003983	JYOTI AUTO LINERS PVT LTD.
454	U34300MP1995PTC008939	VINAYAK SUSPENSION AUTO PVT LTD
455	U34300MP2005PTC017369	HARDEV MOTORS PRIVATE LIMITED
456	U35911MP2003PTC016213	KRISHNA ROAD CARRIERS PRIVATE LIMITED
457	U36100MP2010PTC024432	CORE FURNITURES PRIVATE LIMITED
458	U36101MP2012PTC028946	SAI VANDAN HANDICRAFT PRIVATE LIMITED
459	U36910MP2011PTC026598	DAZZLE GEMS AND JEWELLERY PRIVATE LIMITED
460	U36911MP1985PTC003059	ORNAMENTAL FOX CHAINS PVT LTD
461	U37100MP2013PTC031340	SWASTIK ECO TECH GREEN PRODUCTS PRIVATE LIMITED
462	U37200MP2012PTC028082	BHOPAL PLASTIC RECYCLING AND TRADING PRIVATE LIMITED
463	U40102MP2011PTC027008	UNARGI POWER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
464	U40107MP1995PTC010144	MAHAMAYA THERMOLINEPRIVATE LIMITED
465	U40108MP2009PTC021497	DAWNER ENERGY PRIVATE LIMITED
466	U40108MP2012PTC028608	WINDSOL GREEN ENERGY PRIVATE LIMITED
467	U40108MP2013PTC030080	DOHRA HYDRO ELECTRIC PROJECT PRIVATE LIMITED
468	U40108MP2013PTC030081	GURH SOLAR POWER PROJECT PRIVATE LIMITED
469	U40108MP2013PTC030082	JANAR HYDRO ELECTRIC PROJECT PRIVATE LIMITED
470	U40108MP2013PTC031225	SAATHI POWER SOLUTION PRIVATE LIMITED
471	U45200MP2007PTC019470	MILESTONE ENTERTAINMENT & DEVELOPERSPRIVATE LIMITED
472	U45200MP2007PTC019751	MATRABHOOMI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
473	U45200MP2007PTC019956	RAMPART CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
474	U45200MP2007PTC019972	AVAIL CONSTRUCTIONSPRIVATE LIMITED
475	U45200MP2009PTC022312	KAMAAL INDIA INFRASTRUCTURE ANDINVESTMENT SERVICES PRIVATE LPRIVATE LIMITED
476	U45200MP2009PTC022548	DGR MARKETING & COLONIZERS PRIVATE LIMITED
477	U45200MP2010PTC023579	SHRIJI SHRINIWASA INFRASTRUCTURE ANDDEVELOPERS PRIVATE LIMITIMITED
478	U45200MP2010PTC023621	ROMAN COLONIZERS PRIVATE LIMITED
479	U45200MP2011PTC026345	VINAYAK REALBUILD PRIVATE LIMITED
480	U45200MP2011PTC026490	SANIDHYA HOMES PRIVATE LIMITED
481	U45200MP2011PTC026792	SPLENDID LAND & INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
482	U45200MP2012PTC027479	DMB INFRATECH PRIVATE LIMITED
483	U45200MP2012PTC027592	BABA BUILDSoft PRIVATE LIMITED
484	U45200MP2012PTC027810	RUDRA REALCON PRIVATE LIMITED
485	U45200MP2012PTC028104	SRS (INDIA) INFRASTRUCTURES ANDENGINEERING PRIVATE LIMITED
486	U45200MP2012PTC028425	MAA KRIPA ERECTION PRIVATE LIMITED
487	U45200MP2012PTC028430	OM MANGLAM DEVBUILDPRIVATE LIMITED
488	U45200MP2012PTC028922	SHRINATH BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
489	U45200MP2012PTC028995	BAMAN INFRACONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
490	U45200MP2012PTC029059	SUKHRAJ INFRADEVELOPERS (INDIA) PRIVATE LIMITED

491	U45200MP2012PTC029065	PUSHPCON INFRASTRCTURE PRIVATE LIMITED
492	U45200MP2012PTC029630	VISHAL EZYBUILD INFRA PRIVATE LIMITED
493	U45200MP2013PTC029923	METROVISION INFRABUILD PRIVATE LIMITED
494	U45200MP2013PTC030250	SHRI VINAYAK REALINFRA PRIVATE LIMITED
495	U45200MP2013PTC030382	SHRI VAISHNAVA INFRA LINE PRIVATE LIMITED
496	U45200MP2013PTC030684	REALDREAMS INFRABULLS PRIVATE LIMITED
497	U45200MP2013PTC030749	ETERNAL REAL ESTATEINDIA PRIVATE LIMITED
498	U45200MP2013PTC030921	NAINIL CONSTRUCTIONPRIVATE LIMITED
499	U45200MP2013PTC031360	SS MEGACOLONISERS (BHOPAL) PRIVATE LIMITED
500	U45201MP1982PTC002041	PUSPARAJ ENTERPRISES PVT LTD
501	U45201MP1986PTC003718	AARAMBH DEVELOPERS INDIA PRIVATE LIMITED
502	U45201MP1988PTC004445	PANDIT G M S BUILDERS PRIVATE LIMITED
503	U45201MP1988PTC004634	DANEV CONSTRUCTIONSPVT LTD
504	U45201MP1989PTC005090	OMNI DEVELOPERS PVT LTD
505	U45201MP1990PTC006144	NAAZ CONSTRUCTIONS PVT LTD
506	U45201MP1991PTC006465	SHARDA DWELLINGS PRIVATE LIMITED
507	U45201MP1991PTC006487	SAI APARTMENTS PRIVATE LIMITED
508	U45201MP1992PTC006922	PATIDAR BUILDERS PVT LTD
509	U45201MP1994PTC008553	MAHAKAUSHAL PLANTATION PVT LTD
510	U45201MP1996PTC010473	G.J.CORRUGATION PVT LTD
511	U45201MP1997PTC012434	ROOMIT CONSTRUCTIONPRIVATE LIMITED
512	U45201MP1998PTC012877	EQUATOR CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
513	U45201MP1999PTC013532	ARKAY ADHAR AVAM NIRMAN INDIA PRIVATE LIMITED
514	U45201MP2001PTC014578	SUN-SHINE DWELLING PRIVATE LIMITED
515	U45201MP2004PTC016613	DEVNARAYAN ENGINEERS AND CONTRACTORSPRIVATE LIMITED
516	U45201MP2004PTC016740	SATYAM DEVELOPERS AND FINANCE PRIVATE LIMITED
517	U45201MP2006PTC018690	T. R. REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
518	U45201MP2009PTC021766	ATLANTA CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED
519	U45201MP2009PTC022139	GARIMA INFRABUILD PRIVATE LIMITED
520	U45202MP1990PTC006084	DIAMOND REFRACTORIES PVT LTD
521	U45202MP1991PTC006276	PREMSONS CONSTRUCTION PVT LTD
522	U45202MP1996PTC010594	AMARDEEP DEVELOPERSPVT LTD
523	U45202MP2006PTC019090	SOURYA PROJECTS PRIVATE LIMITED
524	U45203MP1994PTC008897	DISTINCT REALTY PRIVATE LIMITED
525	U45203MP1997PTC012229	ICON BUILDERS PRIVATE LIMITED
526	U45203MP2003PTC015676	TENNESSEE (INDIA) HEALTH SERVICESPRIVATE LIMITED
527	U45209MP2013PTC030213	ONNAL PREFAB BUILDING & STRUCTURESPRIVATE LIMITED
528	U45921MP1994PTC008449	DHAR FINANCE PVT LTD
529	U50100MP2010PTC023920	JOHNSON TRACTORS AND MOTORS PRIVATE LIMITED
530	U50101MP1986PTC003347	RAV AUTO BULBS PVT.LTD.
531	U50101MP1986PTC003503	SHIVANI CYCLE INDUSTRIES PVT LTD
532	U50101MP1989PTC005274	BOMBAY VEHICLES PVT LTD
533	U50101MP1995PTC009548	SHIVA MOTORS PVT LTD
534	U50102MP1986PTC003283	BHOPAL AUTOMOBILES PVT LTD
535	U50300MP1998PTC012559	SHETHSONS MARKETING(INDIA) PRIVATE LIMITED
536	U50300MP2000PTC014188	SAHNI AUTO COMPONENTS PRIVATE LIMITED
537	U50300MP2012PTC028504	ASHI AUTO COMPANY PRIVATE LIMITED
538	U50500MP1988PTC004383	SNEH SPRINGS AUTO PRODUCTS PVT LTD
539	U51101MP1985PTC003127	GROWTH MARKETING PVT LTD
540	U51101MP1997PTC011701	KAMAT CARGO PVT LTD

541	U51101MP1998PTC012886	K.P.R.TRADELINKS PRIVATE LIMITED
542	U51102MP1988PTC004345	KINGSWAY TYRE RETRADING CO PVT LTD
543	U51102MP1997PTC012101	A A OIL TRADE PRIVATE LIMITED
544	U51102MP1998PTC012903	BHUMICA MARKETING PRIVATE LIMITED
545	U51102MP1998PTC013045	MOHITRAJ DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
546	U51102MP2002PTC015009	EARN CONCEPTS PRIVATE LIMITED
547	U51103MP1999PTC013840	RAHUL TRADE-LINKS (INDIA) PRIVATE LIMITED
548	U51103MP2013PTC030631	ARADHAYA SECURITY &MANPOWER PRIVATE LIMITED
549	U51109MP1973PTC001172	CHIMO AGENCIES PVT LTD
550	U51109MP1984PTC002590	DIANA TELEVISIONS PVT LTD
551	U51109MP1988PTC004643	P.D.VYAS MARKETING PVT LTD
552	U51109MP1994PTC008261	DEEPAL MARKETING CORPORATION PRIVATE LIMITED
553	U51109MP1994PTC008785	ABHAY-NARENDRA CONTRACTORS PVT LTD
554	U51109MP1998PTC012728	SUYASH DISTRIBUTORSPRIVATE LIMITED
555	U51109MP2004PTC016491	INDPRIDE IMPEX PRIVATE LIMITED
556	U51109MP2005PTC018044	INDUS 7SEAS EXPORT PRIVATE LIMITED
557	U51109MP2006PTC018978	JAN VIGYAN BHARTI PRIVATE LIMITED
558	U51109MP2012PTC029415	ROUTY IMPEX PRIVATE LIMITED
559	U51109MP2012PTC029469	RAMA VINTRADE PRIVATE LIMITED
560	U51220MP2008PTC020898	SHREENATH AGRICO PRIVATE LIMITED
561	U51225MP1997PTC012108	GREENLINE SALES COMPANY PRIVATE LIMITED
562	U51226MP1986PTC003665	H.R. TEA COMPANY PVT. LTD.
563	U51311MP2008PTC020909	MAYA LIFESTYLE PRIVATE LIMITED
564	U51397MP1991PTC006674	KELVIN MEDICO PVT LTD
565	U51397MP1999PTC013704	MAHAKAL SALES PRIVATE LIMITED
566	U51397MP2005PTC017717	VERSATILE EXPORTS PRIVATE LIMITED
567	U51397MP2008PTC020499	MOVEO PHARMACETICALS PRIVATE LIMITED
568	U51397MP2013PTC031288	SNOWTREE HEALTHCAREPRIVATE LIMITED
569	U51410MP1999PTC013413	KANHA AGENCIES PRIVATE LIMITED
570	U51431MP1984PTC002608	ANAND LAMINATES PVT LTD
571	U51503MP2012PTC029609	MEGAVISION TRADECONPRIVATE LIMITED
572	U51505MP1997PTC011885	PANKAJ MARKETING PRIVATE LIMITED
573	U51900MP2010PTC024237	PASHUPATINATH GLOBAL PRIVATE LIMITED
574	U51900MP2012PTC028427	NEW LEAF MULTITRADEPRIVATE LIMITED
575	U51900MP2012PTC028557	PEST CONTROL INDICOPPRIVATE LIMITED
576	U51900MP2013PTC030131	DAKSH RAKSHAN DISTRIBUTORS & SUPPLIERSPRIVATE LIMITED
577	U51902MP1990PTC005734	SUVIDHA AGENCIES PVT LTD
578	U51902MP1992PTC007085	INNOVATIVE PULTRUSION TECHNOLOGY PVT LTD
579	U51902MP1993PTC008014	SHREE HATCESH DYE CHEM PVT LTD
580	U51902MP1996PTC010353	BRYLAM POLY-TEKNIKSPVT LTD
581	U51902MP1997PTC011611	GURBACHAN BEVERAGESPRIVATE LIMITED
582	U51904MP1996PTC010469	TRIVENI HEALTH CAREPVT LTD
583	U51909MP1987PTC004096	VERSHINA MENTHA EXPORTS PVT LTD
584	U51909MP1990PTC005673	NEW WAVE MARKETING PVT. LTD.
585	U51909MP1992PTC006987	NAMAN DISTRIBUTORS PVT LTD
586	U52100MP2011PTC025802	GLOBAL RETAIL MULTITRADE PRIVATE LIMITED
587	U52311MP2012PTC028266	GOLDEN ARROW HEALTHCARE INDIA PRIVATE LIMITED
588	U52392MP1991PTC006351	KELKAR TRADING LEASING & FINANCE PVT.LTD.
589	U52392MP1997PTC011888	MILES TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
590	U52392MP2002PTC015165	SYSNET COMPUSYSTEM PRIVATE LIMITED

591	U52392MP2012PTC027455	ELECTRONICS MARKETING PRIVATE LIMITED
592	U52491MP1996PTC010731	BABULAL JOSHI COTTON PRIVATE LIMITED
593	U52510MP1995PTC009364	EURO LINK IMPEX PVT LTD
594	U52511MP1969PTC001048	UNITED TYRES (INDORE) PRIVATE LIMITED
595	U52520MP1993PTC007807	MERRY GOLD FOODS COMPANY PVT LTD
596	U52520MP1994PTC008607	MINTO YESTER FINANCE AND INVESTMENTS PVT LTD
597	U52520MP1995PTC008938	PUTLESE PACKAGING PVT LTD
598	U52590MP2008PTC020779	N DYNAMIC SALES PRIVATE LIMITED
599	U52590MP2009PTC022069	BNP INDIA CONCEPT MARKETING PRIVATE LIMITED
600	U52590MP2010PTC023398	E-TEC INDIA MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
601	U52590MP2010PTC023958	AAKRATI REAL ESTATE& COMMODITIESPRIVATE LIMITED
602	U52590MP2010PTC025032	SAMRADDHI PRODUCTS & BUSINESS SOLUTIONSPRIVATE LIMITED
603	U52590MP2011PTC025895	SWASTIK PROMOTION &CONCEPT MARKETINGPRIVATE LIMITED
604	U52599MP2003PTC015638	UJJAWAL TECHNO ED PRIVATE LIMITED
605	U52599MP2011PTC025898	CASH KING LIFE MARKETING PRIVATE LIMITED
606	U52599MP2011PTC027030	MHS TRADELINK PRIVATE LIMITED
607	U52599MP2011PTC027360	GOOD MORNING INDIA BUSINESS PRIVATE LIMITED
608	U55100MP2007PTC019437	VIA FOODS PRIVATE LIMITED
609	U55101MP1984PTC002598	G.B.C.HOTELS AND AUTO TRADERS PVT LTD
610	U55101MP1987PTC004177	PALIWAL HOTELS PVT LTD
611	U55101MP1990PTC005740	HOTEL SHIMLA PALACEPVT LTD
612	U55101MP1995PTC009858	RYTHM HOTELS AND CLUB PVT LTD
613	U55101MP1999PTC013402	GAJANAN MOTEL COMPLEX PRIVATE LIMITED
614	U55101MP2005PTC017705	RED SCORPION PRIVATE LIMITED
615	U55101MP2012PTC028543	UМАIR INDIA IMPEX PRIVATE LIMITED
616	U55101MP2012PTC029580	SPINDLE TOP HOTEL PRIVATE LIMITED
617	U55101MP2013PTC030151	SWARNBHOO MI HOLIDAYHOMES PRIVATE LIMITED
618	U55109MP1984PTC002350	S S HOTELS PVT LTD
619	U55201MP1989PTC005561	CHANDRA INN PVT LTD
620	U60101MP1977PTC001429	TRACKWAYS PVT LTD
621	U60220MP2013PTC031303	DIVYA ROADWAYS PRIVATE LIMITED
622	U60221MP1960PTC000901	PANNA TRANSPORT CO PVT LTD
623	U60230MP2012PTC027808	NAVJEEWAN LOGISTICSPRIVATE LIMITED
624	U60230MP2012PTC028886	S. K. T. TRANSPORT INDIA PRIVATE LIMITED
625	U61100MP1980PTC001623	MANDOVI MARINE PVT LTD
626	U61100MP2011PTC027336	WINDSHORE MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED
627	U62100MP1990PTC006030	FRANK AIRWAYS PRIVATE LIMITED
628	U63020MP2012PTC029778	UDIT WAREHOUSE PRIVATE LIMITED
629	U63022MP1981PTC001768	SHRI GAYATRI COLD STORAGE PVT LTD
630	U63022MP1985PTC003176	MAHATMA LOCHANDAS COLD STORAGE PVT. LTD
631	U63022MP1993PTC008026	SANMAN COLD STORAGEAND FOODS PVT LTD
632	U63022MP1995PTC010281	SHREE MAHAKAL ICE AND COLD STORAGE PVT LTD
633	U63040MP1998PTC012862	SOLIEL TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
634	U63040MP2000PTC014486	FREQUENTTRAVELS DOTCOM PRIVATE LIMITED
635	U63040MP2010PTC023577	MADHUR TOURISM AND MERCANTILE PRIVATE LIMITED
636	U63040MP2012PTC027782	BUNDELKHAND TRAVEL PLANNERS PRIVATE LIMITED
637	U64100MP2013PTC031166	ANY TIME PARCEL SERVICE PRIVATE LIMITED
638	U64202MP2000PTC014434	CIZONE DOTCOM PRIVATE LIMITED
639	U64204MP2010PTC024546	SKY DIGITAL TV NETWORK PRIVATE LIMITED

640	U64991MP1974PTC001292	M P INVESTMENTS PVT LTD
641	U65110MP1995PTC009297	SOJATIA FINANCE PVT LTD
642	U65921MP1992PTC007339	MUCHHAL FINANCES PRIVATE LIMITED
643	U65921MP1995PTC009633	MAHARSHI INVESTMENTS AND FINANCE PVT LTD
644	U65921MP1996PTC010570	VIJAY SHREE KRISHNATRANSPORT LEASINGAND FINANCE COMPANY PVT LTD
645	U65921MP1996PTC011272	TARANA FINVEST PRIVATE LIMITED
646	U65921MP1996PTC028908	CHANDEL HIRE PURCHASE PRIVATE LIMITED
647	U65921MP1997PTC011831	CEEVCON FINANCE ANDINVESTMENT(INDIA)PRIVATE LIMITED
648	U65921MP1998PTC012750	SRS FINVEST PRIVATE LIMITED
649	U65922MP1988PTC004730	SANTOSHAM HOUSING FINANCE AND INVESTMENT PVT LTD
650	U65991MP1982PTC001937	ARIHANT TRADING & INVESTMENT COMPANYPRIVATE LIMITED
651	U65991MP1983PTC002311	N.S.FABRICATION PVT LTD
652	U65991MP1990PTC006078	CONTINENTAL AVIATION PVT LTD
653	U65991MP1994PTC008445	SUVI INVESTMENTS PVT LTD
654	U65991MP1995PTC009917	MONGIA FINANCE PVT LTD
655	U65993MP1972PTC001141	LASHKAR INVESTMENT AND FINANCE CO PVT LTD
656	U66010MP2010PTC025037	PRAGYA INSURANCE SERVICES PRIVATE LIMITED
657	U66202MP1997PTC011767	ENN GEE CEE FINANCEAND INVESTMENT INDIA PVT LTD
658	U67110MP1996PTC010782	KOTTAPURAM FINANCE AND LEASING PRIVATE LIMITED
659	U67120MP1971PTC001103	ASHA FINANCE PRIVATE LIMITED
660	U67120MP1981PTC001868	SAVITRI INVESTMENT AND TRADING COMPANYPRIVATE LIMITED
661	U67120MP1991PTC006656	SARAL KRISHI AND FINANCE PRIVATE LIMITED
662	U67120MP1993PTC007567	PATH PRADARSHAK FINANCE AND INVESTMENTSPVT LTD
663	U67120MP1994PTC008442	RANISATI SECURITIESPVT LTD
664	U67120MP1994PTC008450	SHRUTI SECURITIES PVT LTD
665	U67120MP1994PTC008710	TAG FINVEST PVT LTD
666	U67120MP1995PTC010137	SONAL FINCAP PRIVATE LIMITED
667	U67120MP1996PTC010531	ABC INFOPUNDIT PRIVATE LIMITED
668	U67120MP1996PTC010574	J.M.D.FINANCE AND INVEST PVT LTD
669	U67120MP1996PTC011436	RAJ BHASKAR FINVESTPRIVATE LIMITED
670	U67120MP1997PTC011877	BCI FINANCE AND ALLIED SERVICES PRIVATE LIMITED
671	U67120MP2012PTC028421	BANYAN BROKING PRIVATE LIMITED
672	U67190MP1971PTC001106	JABALPUR SAVING ANDFINANCE PRIVATE LIMITED
673	U67190MP2005PTC017624	RASHI CAPITAL PRIVATE LIMITED
674	U67200MP2003PTC015630	STANDARD ASSURANCE BROKING PRIVATE LIMITED
675	U70100MP2008PTC020774	IBD SPACE INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
676	U70100MP2009PTC022828	SWA NIRMAN INDIA PRIVATE LIMITED
677	U70100MP2010PTC024140	SURYA AMRIT INFRA -MARKET PRIVATE LIMITED
678	U70100MP2010PTC024146	SURE LAND BUILDERS AND DEVELOPERSPRIVATE LIMITED
679	U70100MP2011PTC025202	SURE SHOT INFRASTRUCTURE MARKETINGPRIVATE LIMITED
680	U70100MP2011PTC025338	PANACHE REALITY PRIVATE LIMITED
681	U70100MP2011PTC025900	OSCAR BUILDCON PRIVATE LIMITED
682	U70100MP2011PTC026844	THAKUR SHREE INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED
683	U70100MP2011PTC026845	THAKUR SHREE REALBUILD PRIVATE LIMITED
684	U70100MP2011PTC026854	THAKUR SHREE REAL ESTATE SOLUTIONSPRIVATE LIMITED
685	U70100MP2011PTC026864	BAJPAI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
686	U70100MP2013PTC030301	RUDRA DEVBUILD PRIVATE LIMITED
687	U70100MP2013PTC030610	SAPPHIRE BUILDERS &DEVELOPERS PRIVATE LIMITED

688	U70101MP1996PTC011106	SNEHOM DEVELOPERS AND REAL ESTATEPRIVATE LIMITED
689	U70101MP1996PTC011192	RSD SECURITIES PRIVATE LIMITED
690	U70101MP1997PTC011838	SONISONS REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
691	U70101MP1997PTC012514	NEHA REALTY PRIVATE LIMITED
692	U70101MP1999PTC013914	JAINI NAMKINS PRIVATE LIMITED
693	U70101MP2005PTC017474	BLUEWORD BUILDCON AND REALTY PRIVATE LIMITED
694	U70101MP2011PTC025936	TRISHUL DEVCON PRIVATE LIMITED
695	U70101MP2011PTC026975	RACEMOSE DEVELOPERSPRIVATE LIMITED
696	U70101MP2011PTC027295	JAY REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
697	U70101MP2012PTC027928	MAA DURGA DEVCON PRIVATE LIMITED
698	U70101MP2012PTC027977	GOLD SAPPHIRE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
699	U70101MP2012PTC028116	SHRI GURU HARGOVINDLAND DEVELOPERSPRIVATE LIMITED
700	U70101MP2012PTC028243	INDRA DEVCON INDIA PRIVATE LIMITED
701	U70101MP2012PTC028244	INDRA REALINFRA PRIVATE LIMITED
702	U70101MP2012PTC028399	NIMITT BUILDCON PRIVATE LIMITED
703	U70101MP2012PTC028467	AAKRATI INFRAESTATEPRIVATE LIMITED
704	U70101MP2012PTC028652	KBS VILLA BUILDCON INDIA PRIVATE LIMITED
705	U70101MP2012PTC028864	INFINITY DEVBUILD PRIVATE LIMITED
706	U70101MP2012PTC029529	VIDHYARTHI REAL ESTATE & DEVELOPERSPRIVATE LIMITED
707	U70101MP2013PTC029861	TAAL VERY IMPORTANTPROPERTY INFRA BULLS PRIVATE LIMITED
708	U70101MP2013PTC030119	KEYLINE REALTECH PRIVATE LIMITED
709	U70101MP2013PTC030140	SHIVAYASH VILLA MULTICON DEVELOPERSPRIVATE LIMITED
710	U70101MP2013PTC030337	ANUJ DEVCON PRIVATE LIMITED
711	U70101MP2013PTC030775	MID INDIA REALCON PRIVATE LIMITED
712	U72100MP1995PTC009320	MIDLAND COMPUTERS PVT LTD
713	U72100MP2012PTC029067	RELIABLE PERIPHERALAND TECHNOSOFTPRIVATE LIMITED
714	U72200MP1988PTC004509	ORBIT SOFTWARES PVT LTD
715	U72200MP1997PTC011983	NIRMALA TELECOMMUNICATION PRIVATE LIMITED
716	U72200MP2000PTC014250	IBD INFOCOM (INDIA)PRIVATE LIMITED
717	U72200MP2000PTC014453	WHITEFIELD INFOTECHPRIVATE LIMITED
718	U72200MP2004PTC016894	BINS SOFTECH PRIVATE LIMITED
719	U72200MP2005PTC017226	S R SOFTECH PRIVATE LIMITED
720	U72200MP2005PTC017942	PARADIGM PRIME PRIVATE LIMITED
721	U72200MP2009PTC021723	HITZ TECHNO PRIVATE LIMITED
722	U72200MP2009PTC022212	AGRAJ TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
723	U72200MP2009PTC022529	SHINE-LINK E-SERVICES PRIVATE LIMITED
724	U72200MP2010PTC023403	NEELAM TECHNOLOGIES& SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
725	U72200MP2010PTC023419	BSOFT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
726	U72200MP2010PTC024883	OPTIMIZERS TECH SOLUTION PRIVATE LIMITED
727	U72200MP2011PTC026491	MANOTECH SOFTWARES PRIVATE LIMITED
728	U72200MP2011PTC026904	TEMPUS TELCOSYS PRIVATE LIMITED
729	U72200MP2012PTC028601	INCARNATE SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
730	U72200MP2012PTC028814	USENET INTERNET SERVICE PROVIDER PRIVATE LIMITED
731	U72200MP2012PTC029688	SUSTAIN BPO & IT SERVICES PRIVATE LIMITED
732	U72200MP2013PTC029886	TECHMEN COMPUSOFT PRIVATE LIMITED
733	U72200MP2013PTC030176	HAZRAT NAHAR SAIYYAD SHAH WALITECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED LIMITED
734	U72200MP2013PTC030420	SPRINT IT SERVICES PRIVATE LIMITED
735	U72200MP2013PTC031121	ACROSTIC IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
736	U72200MP2013PTC031136	SANVI COMPUSOFT SOLUTION PRIVATE LIMITED

737	U72200MP2013PTC031189	ETERNITY INFOSFT PRIVATE LIMITED
738	U72300MP1988PTC004546	FINCON COMPUTER SYSTEMS PVT LTD
739	U72300MP2000PTC014196	ACOM SYSTEMS PRIVATE LIMITED
740	U72300MP2007PTC019787	SMART MEDIGRAPHS CREATIONS PRIVATE LIMITED
741	U72300MP2011PTC027231	SAI PITAMBRA COMUNICATION INDIA PRIVATE LIMITED
742	U73100MP2003PTC015817	UJJAI ESTATES PRIVATE LIMITED
743	U74140MP1979PTC001505	ORIENTAL BUSINESS CONSULTANTS PVT LTD
744	U74140MP1984PTC002629	SUNEGRA FOODS PRIVATE LIMITED
745	U74140MP1987PTC003828	ITCOM GROUP OF CONSULTANTS PVT LTD.,
746	U74140MP1991PTC006393	OVAL CONSULTANCY PVT.LTD.
747	U74140MP1991PTC006727	MAGNIFICENT CONSULTANTS PVT LTD
748	U74140MP1995GAT009997	INDIAN INSTITUTE OF ENVIRONMENT MANAGEMENT RESEARCH AND DEVELOPMENT
749	U74140MP1995PTC009650	WEST-END MANAGEMENT TECHNOLOGICS PVT LTD
750	U74140MP2007PTC019672	POWER INTELLECTUAL RECRUITMENT AND OUTSOURCING SERVICES PRIVATE LIMITED
751	U74140MP2009PTC022038	NAYAN-DRUSHTI SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
752	U74140MP2010PTC023915	BHANDARI BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
753	U74140MP2011PTC025216	BABASHRI MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
754	U74140MP2012PTC029741	RELIABLE MULTI MARKETING & ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
755	U74140MP2013PTC029996	EMOTION CAPITAL MARKET PRIVATE LIMITED
756	U74210MP1986PTC003312	CIMEC ENGINEERS PVT LTD
757	U74210MP1991PTC006287	TYCOON ENGINEERS PVT LTD
758	U74300MP1997PTC012342	MASS INFORMATICS PRIVATE LIMITED
759	U74900MP1990PTC005822	AYN AND GETTY INNS PRIVATE LIMITED
760	U74900MP2009PTC021789	ADDREST TECH. SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
761	U74900MP2012PTC028555	VALIANT DEBT RECOVERY FACILITATORS PRIVATE LIMITED
762	U74900MP2013PTC030276	OM JYOTISH KENDRA PRIVATE LIMITED
763	U74910MP2010PTC024438	3C CORPORATE CAREER CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
764	U74910MP2012PTC029200	FOUR STAR MULTI SECURITY SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED
765	U74910MP2012PTC029731	SHREE SANKAT MOCHAN DETECTIVE & SECURITY SERVICE PRIVATE LIMITED
766	U74920MP2010PTC024423	DATA VITUM RECOVERIES PRIVATE LIMITED
767	U74920MP2011PTC027202	SPMI INVESTIGATION & SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
768	U74920MP2012PTC029506	GROUP SECURITY SERVICE PRIVATE LIMITED
769	U74920MP2013PTC030203	RAVI KARMIK SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
770	U74930MP2011PTC026971	TRIPLE S MAINTENANCE AND SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
771	U74940MP1987PTC004113	SATYAM COLOR LAB PVT LTD
772	U74994MP2000PTC014166	ZALAC EMBROIDERY PRIVATE LIMITED
773	U74999MP1981PTC001835	PREMA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
774	U74999MP1986PTC003342	RAJDEEP SPORTS PVT LTD
775	U80211MP2001PTC014806	PROGRESSIVE CAREER ACADEMY PRIVATE LIMITED
776	U80300MP2007PTC019391	SYNERGY EDUCATION INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
777	U80300MP2011PTC026855	AMBIANCE INSTITUTE FOR EDUCATION AND LANGUAGES PRIVATE LIMITED
778	U80301MP2009PTC022399	KLM EDUCATION SERVICES PRIVATE LIMITED
779	U80302MP2012PTC028126	XTRA BRAIN EDUCATION PRIVATE LIMITED
780	U80302MP2013PTC029977	YOUTH INDIA SKILL DEVELOPMENT INITIATIVE PRIVATE LIMITED
781	U80902MP2011PTC027097	SKILL HORIZON EDUTECH PRIVATE LIMITED

782	U80903MP2000PTC014322	GUPTA INFORMATION AND TUTORIALS (INDIA)PRIVATE LIMITED
783	U80903MP2006PTC018475	NIDAN ADVERTISING AND RIDING PRIVATE LIMITED
784	U80903MP2011PTC027181	INNOVATIVE STUDY CIRCLE PRIVATE LIMITED
785	U85100MP2009PTC021954	TRIUNE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
786	U85110MP1992PTC007338	OMNI MEDICAL SERVICES AND RESEARCH PVT LTD
787	U85110MP1993PTC007448	PIYUSH HOSPITAL PVT LTD
788	U85110MP1995PTC008997	SATNA HOSPITALS PVT LTD
789	U85110MP1999PTC013469	TAPTI HEALTH SERVICES PRIVATE LIMITED
790	U85110MP2003PTC016221	RESEARCH HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
791	U85195MP1987PTC003992	TRIMURTI LABORATORIES PVT LTD
792	U85199MP1990PTC005998	MAHAKOSHAL NURSING HOME PVT LTD
793	U92100MP2010PTC025057	SOFT TELENETWORKS PRIVATE LIMITED
794	U92111MP1995PTC010310	CINE EXCELLENCY PVT LTD
795	U92112MP1951PTC000723	TALKIES FILM DISTRIBUTORS PVT LTD
796	U92120MP2013PTC030807	VIKRAMRAJ PICTURES PRIVATE LIMITED
797	U92130MP2008PTC021139	SHEETLA VISION PRIVATE LIMITED
798	U92190MP2010PTC023463	WHITE PEARL HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
799	U93000MP2013PTC031116	ABHISHEKMISHRA HOUSE KEEPING WORKPRIVATE LIMITED
800	U00011MP1996PLC010515	TARGET PLANTATIONS AND RESORTS LIMITED
801	U00171MP1948PLC000459	THE NEW BHOPAL TEXTILES LIMITED
802	U01100MP2010PLC023633	JAN RAKSHA KRISHI VIKAS LIMITED
803	U01110MP2008PLC021431	L. G. P. SAI FOOD &STOCK BROKERS INDIALIMITED
804	U01119MP1986PLC003275	MAHESHWARI NUTRIENTS LTD
805	U01122MP1994PLC008244	ALPINE AGROTECH LIMITED
806	U01300MP2009PLC021478	NARMADA CATTLE FEEDCORPORATE LIMITED
807	U01400MP2008PLC021344	NCFC OF INDIA LIMITED
808	U01400MP2011PLC027224	LTI HORTICULTURE & ANIMAL HUSBANDRYLIMITED
809	U01400MP2012PLC028203	GOLD AGRICULTURE INDIA LIMITED
810	U01400MP2012PLC029491	IGIS AGROTECH INDUSTRIES LIMITED
811	U01400MP2013PLC029833	VINDHYANCHAL DAIRY & AGRO FARM LIMITED
812	U01403MP2008PLC021111	S R AGRI AND HORTICULTURE LIMITED
813	U01403MP2009PLC021511	RATLAM AGRICULTURE PRODUCER COMPANYLIMITED
814	U01403MP2009PLC022208	PRAGATI BIO PLANTECH LIMITED
815	U01403MP2012PLC028627	STM AGRITECH CORPORATION LIMITED
816	U01403MP2012PLC028847	JANAK AGRICORP SERVICES LIMITED.
817	U01405MP1989PLC005444	MALWA GINING & PRESSING LIMITED
818	U01407MP2012PLC027686	AJCB AGRICULTURE & BIO-TECHNOLOGYLIMITED
819	U01513MP1994PLC008563	VISHAL AGRITECH INDIA LIMITED
820	U01520MP1995PLC009603	SYMPHONY DAIRY AND AGRONICS LIMITED
821	U01542MP2006PLC018392	D. D. AGRO ENERGY LIMITED
822	U01600MP2005PLC017376	K.P. FRAGRANCES LIMITED
823	U02001MP1995PLC009553	PREMIER FOREST (INDIA) PRIVATE LIMITED
824	U02411MP1994PLC008205	SNEH DYECHEM LIMITED
825	U02412MP1973PLC001229	DEWAS CHEMICALS LTD.
826	U02423MP1986PLC003385	W.H.PHAMACEUTICALS LIMITED
827	U02423MP1996PLC010361	SAMARITAN PHARMA (INDIA)LIMITED
828	U02520MP1988PLC004413	POOJA INDUSTRIES LIMITED
829	U02911MP1994PLC008516	S.J.INDUSTRIES LIMITED
830	U03110MP1995PLC009496	J.S.STORAGE BATTERYLIMITED
831	U03210MP1982PLC001981	KOHINOOR ELECTRONICS LTD

832	U11101MP1991PLC006613	VINAYAK GASES LTD
833	U11205MP1996PLC010971	AL-FAHAD COLD STORAGE LIMITED
834	U13100MP1987PLC003918	MELTECH ALLOY POWDERS (INDIA) LIMITED
835	U14102MP1992PLC007355	CONSOLIDATED GRANITES LIMITED
836	U15142MP1981PLC001810	MAYUR OILS & FOODS LIMITED
837	U15142MP1982PLC002015	RATHI OILS LIMITED
838	U15200MP2007PLC019403	AKS AGRO INDIA LIMITED
839	U15209MP1990PLC006021	HIMANSHI FOOD PROCESSING LIMITED
840	U15311MP1997PLC011880	SWAGAT FLOURS LIMITED
841	U15314MP1998PLC013061	HANUMAN NUTRIENTS LIMITED
842	U15321MP1986PLC003581	SHREE LAXMIKANT MAIZE PRODUCTS LTD
843	U15331MP1991PLC006800	VARDHMAN SNACK FOODS LTD
844	U15400MP2012PLC027960	JEEVAN SARAL FOODS & ALLIED LIMITED
845	U16008MP1992PLC007392	MUKH SUDHI FOODS LIMITED
846	U17111MP1984PLC002427	VIKAS SPINNING & WEAVING MILLS LIMITED
847	U17111MP1985PLC003095	JETHA FIBRES LIMITED
848	U21012MP1978PLC001436	SATPURA PAPER AND SUGAR MILLS LTD
849	U21012MP1985PLC003205	PRAKASH PAPER INDUSTRIES LIMITED
850	U22210MP2012PLC028213	RASHTRIYA HINDI MAIL CORP LIMITED
851	U24108MP1989PLC005644	KRAPALINI STEELS LIMITED.
852	U24110MP2008PLC020921	APEX BIOCHEM LIMITED
853	U24111MP1982PLC002077	DEWAS GASES LIMITED
854	U24120MP2010PLC023499	MADHU PHOSPHATE LIMITED
855	U24133MP1981PLC001867	PUNJAB CELLULOSE LIMITED
856	U24134MP1989PLC005523	KUNSTSTOFF POLYMERS LTD.
857	U24221MP1989PLC005621	KEMTECH CHEMICALS LTD.
858	U24231MP1988PLC004525	MAHAVIN FINE CHEMICALS LIMITED
859	U24232MP1984PLC002622	VERTEX PHARMACEUTICALS LTD
860	U24232MP1996PLC010422	LAPIS PHARMACEUTICALS LIMITED
861	U24232MP2004PLC017126	AMICARE PHARMACEUTICALS LIMITED
862	U24304MP1984PLC002648	KHAITAN POLY SACKS LIMITED.
863	U25209MP1989PLC005228	PANJWANI POLYPROPYLENE LTD
864	U25209MP1990PLC005843	KOTHARI POLYMERS LTD
865	U26102MP1984PLC002682	AG GLASS LIMITED
866	U26941MP1983PLC002135	QUALITY CEMENT INDUSTRIES LIMITED
867	U27101MP1983PLC002209	ACHAL ALLOYS LIMITED
868	U27104MP1981PLC002302	R.J.CLAD METALS LTD.
869	U28994MP1977PLC001417	JOHNSON PEDDER LIMITED
870	U29100MP1994PLC008254	SM SOLAR PRODUCTS LIMITED
871	U29111MP1986PLC003459	ENSAVE BOILER ENGINEERS LIMITED
872	U29119MP1960PLC000902	NEW PRECISION INDIA LIMITED
873	U29191MP1999PLC013588	CAROL EQUIPMENTS (INDIA) LIMITED
874	U29308MP2008PLC020281	BHOOMI URJA ABHIKARAN LIMITED
875	U29309MP1988PLC004551	MICROWIN ELECTRONIX LTD.
876	U30007MP1998PLC012633	INNOVATIVE ALLIED SERVICES AND INFORMATION LIMITED
877	U31101MP1985PLC002759	IBEL MACHINES LIMITED.
878	U31300MP1995PLC010268	VKM ELECTRICALS LIMITED
879	U34300MP2005PLC018144	S.R. ENERGY AND INFRASTRUCTURE LIMITED
880	U40100MP2012PLC027642	SAI PRAKASH POWER INDIA LIMITED
881	U40106MP2013PLC030316	PEARL PAN INDIA SOLAR ENERGY LIMITED
882	U40200MP2011PLC026742	SINGRAULI POWER LIMITED

883	U45200MP2010PLC023906	STAR INDIA REAL ESTATE AND DEVELOPERSLIMITED
884	U45200MP2010PLC024121	MAHAKALI DEV-CON LIMITED
885	U45200MP2011PLC025214	ASWAD INFRASTRUCTURES LIMITED
886	U45200MP2011PLC025955	TANISHQ INFRAESTATELIMITED
887	U45200MP2011PLC026737	SAMPARK INFRASTRUCTURE INDIA LIMITED
888	U45200MP2012PLC027423	ENORMOUS INFRASTRUCTURES LIMITED
889	U45200MP2012PLC027472	SAI SARKAR COLONIZER AND DEVELOPERSLIMITED
890	U45200MP2012PLC027841	BHUMI AISHWARY LANDDESIGNS COMPANYLIMITED
891	U45200MP2012PLC028512	RELIABLE VILAAS PROPERTY DEVELOPMENTLIMITED
892	U45200MP2012PLC028726	WELKIN REALINFRA INDIA LIMITED
893	U45200MP2012PLC028911	HEXXAGON REALCON (INDIA) LIMITED
894	U45200MP2013PLC031239	ASWAD CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
895	U45201MP1987PLC004071	NIRMAN PROPERTIES LTD
896	U45201MP2009PLC022258	R.B.N. INDIA INFRA BUILDERS LIMITED
897	U45201MP2010PLC024330	SUVIDHA LAND DEVELOPERS INDIA LIMITED
898	U45201MP2011PLC026286	BMR NIRMAN INDIA LIMITED
899	U45203MP2001PLC014753	INDIAN URBAN CITY DEVELOPMENT LIMITED
900	U45205MP1998PLC013021	DEWAS INDUSTRIAL WATER SUPPLY COMPANYLIMITED
901	U51102MP1998PLC013191	PRIME PRIVILEGES LIMITED
902	U51102MP1999PLC013338	CROSSWISE OVERSEAS LIMITED
903	U51102MP1999PLC013703	SANMATI OVERSEAS LIMITED
904	U51109MP1991PLC006616	SRINIWAS COMMERCIALCOMPANY LIMITED
905	U51109MP1992PLC007112	RAJVIR MARKETING AND INVESTMENTS LIMITED
906	U51410MP1988PLC004472	AVON MARKETING LIMITED
907	U52190MP2006PLC018681	SAHYOG DREAM MARK CARE LIMITED
908	U52390MP2008PLC020313	HFC MARKETING AND ADVISORY LIMITED
909	U52393MP2009PLC022694	WIN MIRACLE JEWELS LIMITED
910	U52590MP2010PLC023522	SANKALP INDIA INNOVATIONS MARKETINGLIMITED
911	U52599MP2009PLC021889	GANGASAGAR MARKETING INDIA LIMITED
912	U55101MP2013PLC030231	DOLPHIN CONTINENTALINN LIMITED
913	U60210MP1995PLC010311	MULTICHEM DRUGS INTERNATIONAL LIMITED
914	U63013MP1995PLC009450	ENBEE AVIATION LIMITED
915	U65100MP2010PLC023780	JAYKUMAR FINCON LIMITED
916	U65910MP2008PLC020625	GSS INVESTMENT AND FINANCE SERVICESLIMITED
917	U65921MP1996PLC010476	RAJDHAN FINVEST LIMITED
918	U65921MP1996PLC010512	ENBEE FINLEASE LIMITED
919	U65922MP1989PLC005574	CHAMUNDA HOUSING AND LEASING LIMITED
920	U65922MP2008PLC021358	SR GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED
921	U65922MP2010PLC025015	YOURHOME HOUSING FINANCE LIMITED
922	U65923MP2009PLC022625	GURUSAI FINANCE & INVESTMENT LIMITED
923	U65993MP2012PLC029620	UNNATI GLOBAL ESTATES HOLDINGS LIMITED
924	U67120MP1994PLC008854	LUNKAD SECURITIES LIMITED
925	U67120MP1995PLC009182	PARKSONS SECURITIESLIMITED
926	U67120MP1995PLC010173	SAMTA FINLEASE LIMITED
927	U67120MP2005PLC017379	B.L.A. INVESTMENT LIMITED
928	U67120MP2009PLC021825	FUTURE INDIA INSURANCE AND INVESTMENTSERVICES LIMITED
929	U67190MP2008PLC020645	S.R.N. INVESTMENT AND ALLIED LIMITED
930	U67190MP2009PLC022796	INFINITE GROWTH INVESTMENT SERVICESLIMITED
931	U70100MP2010PLC023290	SARTHAK PARIWAR INFRABUILD LIMITED
932	U70100MP2010PLC023299	REAL SUNSHINE PROPERTIES LIMITED

933	U70100MP2010PLC023445	FAIRDEAL REALESTATE& PROPERTY INVESTMENT LIMITED
934	U70100MP2010PLC024029	SUNRISE GOLD INFRABUILD INDIA LIMITED
935	U70100MP2010PLC024464	KISAN VIKAS REAL ESTATE AND ALLIED LIMITED
936	U70100MP2010PLC024803	NICL INDIA LIMITED
937	U70100MP2011PLC025713	S K D LANDMARK AND INFRASTRUCTURE INDIA LIMITED
938	U70100MP2011PLC025914	SARAL INDIA INFRA LIMITED
939	U70100MP2013PLC030596	MNP REALBUILD AND ALLIED LIMITED
940	U70101MP1986PLC003417	SHREE LAXMIKANT SOYA FLOUR (BESAN) LTD
941	U70101MP1995PLC009197	LUNKAD MEDIA AND ENTERTAINMENT LIMITED
942	U70101MP2007PLC020109	AMBEDKAR REAL ESTATE & DAIRIES LIMITED
943	U70101MP2010PLC022925	BNP FRIENDSHIP & ESTATES LIMITED
944	U70101MP2010PLC022954	MADHUR INDIA INFRASTRUCTURE & ALLIED LIMITED
945	U70101MP2011PLC026944	JEEVAN SARAL INFRA HEIGHTS & PROPERTIES LIMITED
946	U70101MP2011PLC026990	SAI SUNDARAM MALWA PARIVAR REAL ESTATE LIMITED
947	U70101MP2012PLC028132	TRIBHUVAN REALCON LIMITED
948	U70101MP2012PLC028194	PIDL INFRASTRUCTURE& DEVELOPERS LIMITED
949	U70101MP2012PLC028346	SAHARA LANDMARK ANDINFRASTRUCTURE INDIA LIMITED
950	U70101MP2012PLC028520	INFRA INFINITY LIMITED
951	U70101MP2012PLC028721	GNT REALCON LIMITED
952	U70101MP2012PLC028805	MAHIMA INFRABUILD &PROPERTIES (INDIA) LIMITED
953	U70101MP2012PLC028828	RBX LAND DEVELOPERS INDIA LIMITED
954	U70101MP2012PLC029360	SAIDEEP FUTURE ESTATE DEVELOPERS INDIA LIMITED
955	U70101MP2013PLC029927	SAI VARDAN INDIA LIMITED
956	U70101MP2013PLC030679	G NINE INFRACON INDIA LIMITED
957	U70102MP2009PLC021499	AMAN INFRA HEIGHTS & PROPERTIES LIMITED
958	U70102MP2009PLC021531	GYANGANGA DEVELOPERS INDIA LIMITED
959	U70102MP2009PLC021618	SAI BHARTI SHAKTI REAL ESTATE & ALLIED INDIA LIMITED
960	U72200MP2000PLC014454	SOCRUS INFOTECH LIMITED
961	U74140MP1988PLC004794	CROWN CONSULTANTS LIMITED
962	U74140MP1995PLC009881	CICON ENVIRONMENT TECHNOLOGIES LIMITED
963	U74140MP2008PLC021253	KDG INDIA FINANCIALSERVICES COMPANY LIMITED
964	U74140MP2009PLC021518	SBN INSURANCE AND INVESTMENT LIMITED
965	U74140MP2009PLC022555	A S INSURANCE AND INFRASTRUCTURE INDIA LIMITED
966	U74140MP2012PLC027792	SANJEEVANI FINANCIAL ADVISORY INDIA LIMITED
967	U74900MP1992PLC007061	ARCSON INDUSTRIES LIMITED
968	U74900MP2010PLC022935	SPECTRUM CAPITAL VENTURES LIMITED
969	U74920MP1995PLC009211	MODULAR SECURITIES LIMITED
970	U74992MP2012PLC028054	SHINE BROKING INDIA WEALTH MANAGEMENT SERVICES LIMITED
971	U74995MP2008PLC021335	SHINE INSURANCE AND INVESTMENT SERVICES INDIA LIMITED
972	U74995MP2010PLC023345	TANISHQ INSURANCE AND INVESTMENT SERVICES INDIA LIMITED
973	U76120MP1993PLC007600	PRMILA INVESTMENT AND FINANCE LIMITED
974	U80211MP1998PLC012613	DYNAMIC EDUCATION SYSTEMS (INTERNATIONAL) LIMITED
975	U80302MP1997PLC011960	OSHO VISIONS LIMITED
976	U85110MP1988PLC004419	LOKPRIYA HOSPITALS LIMITED
977	U85195MP1985PLC003223	CADENCE LABORATORIES LIMITED
978	U92413MP2012PLC028960	EMG MULTI SERVICES (INDIA) LIMITED

HARIHARA SAHOO
Dy. Registrar of Companies
Madhya Pradesh

FORM No. STK-6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of the striking off or removal of names of companies under section 248 (2) of the Companies Act, 2013 in respect of :

Pune-411004, the 30th January 2018

No. ROC P/STK6/248(2)/2018/10418, 10492—

Sr. No.	CIN	Company Name	SRN
1	U74900PN2010FTC138060	ITCONCEPTS PROFESSIONAL PRIVATE LIMITED	G69788511
2	U72909PN2016PTC166165	TEKINF GLOBAL SERVICES PRIVATE LIMITED	G68185651
3	U72900PN2014PTC152979	VMANTECH PRIVATE LIMITED	G74621137
4	U72900PN2012PTC145414	EQUIPROCAL SYSTEMS PRIVATE LIMITED	G73245003
5	U72900PN2010PTC137821	WYSE NETBOOK TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	G72801863
6	U72900PN2004PTC129232	CAPSILON TECHNOLOGY SERVICES PRIVATE LIMITED	G71131908
7	U72500PN2016PTC164138	WAYTOBIZZ BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	G73134009
8	U72200PN2011PTC138484	A AND F TECHDEN PRIVATE LIMITED	G73306292
9	U72200PN2010PTC136188	XEBRIUM TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	G73184095
10	U65923PN2014PTC151265	ARTHAVISHWA CHIT FUND PRIVATE LIMITED	G71419857
11	U63090PN2013PTC148711	GYPSY TRAVEL PRIVATE LIMITED	G74356593
12	U52399PN2013PTC147280	SRI KAUMARI SPECIALITY TRADE PRIVATE LIMITED	G74131368
13	U51909PN2014PTC151033	TOUCHPOINT INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED	G71872311
14	U51100PN2010PTC137403	CHHATRAPATI ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	G71151112
15	U45400PN2014PTC151273	HARMONY SURYA INFRA PRIVATE LIMITED	G72533086
16	U45309PN2016PTC167426	B&B ASSOCIATE INFRA PRIVATE LIMITED	G73174245
17	U45309PN2016PTC164899	CRV HOMES PRIVATE LIMITED	G69736171
18	U45201MH1989PTC050848	GEO-MARINE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	G72179229
19	U45200PN2013PTC148410	SAEE REALTY PRIVATE LIMITED	G68914779
20	U45200PN2012PTC143574	RIGHT MARK PROPERTIES PRIVATE LIMITED	G74587015
21	U45200PN2012PTC142283	ANIRUDHHA LANDMARKS PRIVATE LIMITED	G74114182
22	U40300PN2014PTC150579	SDT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	G72352644
23	U40108PN2007PLC131211	SAPTASHREE WIND POWER LIMITED	G74464488
24	U40106PN2015PTC154257	MAITRIKIRAN RENEWABLE ENERGY PRIVATE LIMITED	G73069478
25	U40103PN2011PTC140364	SAHYADRI ENERCO PRIVATE LIMITED	G69884484
26	U40101PN2016PTC165991	BKOMES POWER PRIVATE LIMITED	G73669129
27	U37100PN2010PTC136857	GF- POWER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	G71280341
28	U36912PN2015PTC153796	SHIELD MANUFACTURING AND TRADE PRIVATE LIMITED	G73291833
29	U32109PN1984PTC033951	IMPEL CONTROL ENGINEERING P LTD	G73011645
30	U29268PN2015PTC156856	MERIDIAN PRECISION PRIVATE LIMITED	G72995830
31	U29222PN2013PTC149256	SHRIYANS COMPONENTS AND TOOLS PRIVATE LIMITED	G72749971
32	U17115PN2005PTC020836	S2 FASHION HOUSE PRIVATE LIMITED	G70045828
33	U15490PN2016PTC167545	HORIZON MILK AND MILK PRODUCT PRIVATE LIMITED	G73068850
34	U15203PN2004PTC020085	GAWALIBABA DOODH PRIVATE LIMITED	G68730340

35	U15203PN2002PTC016823	PRAVARA DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED	G73350795
36	U15139PN2010PTC136479	RMP BRAND WAGON MARKETING PRIVATE LIMITED	G73258386
37	U02001PN1996PTC098518	AAMRAI FARMS PRIVATE LIMITED	G71731947
38	U01122PN2013PTC149628	SUPARSHWANATH AGRO FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED	G73355901
39	U01122PN1995PTC095437	IXORA FARMS PRIVATE LIMITED	G71730840
40	U01122MH1995PTC095440	JACARANDA PLANTATIONS PRIVATE LIMITED	G71730196
41	U93000PN2014PTC152381	JAI EXPRESS LOGISTICS (INDIA) PRIVATE LIMITED	G71309769
42	U93000PN2013PTC146041	SHASHWAT EXECUTORS & TRUSTEES PRIVATE LIMITED	G74078155
43	U91990PN2004PTC018836	SRUJAN FITNESS FIRST PRIVATE LIMITED	G71851083
44	U85100PN2011PTC139179	JAMBUSTER LIFESTYLE PRIVATE LIMITED	G73278269
45	U74999PN2017OPC170630	BALAJI INTERCEDERS (OPC) PRIVATE LIMITED	G73803850
46	U74999PN2016PTC165982	UNICORNIA STARTUP SERVICES PRIVATE LIMITED	G72955818
47	U74999PN2016PTC165057	SHANROH EXIM PRIVATE LIMITED	G71078653
48	U74999PN2016PTC164348	POMAL MULTITRADE PRIVATE LIMITED	G73708166
49	U74999PN2015PTC157003	AK AUTO WORLD & ENGINEERING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	G73742348
50	U74999PN2015PTC156301	GOLDENWEAVER HOMESOLUTION PRIVATE LIMITED	G74203563
51	U74999PN2014PTC151268	AGARWAL NEXTGEN REALTY PRIVATE LIMITED	G72687502
52	U74999PN2013PTC149021	JBRC HR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	G71183156
53	U74990PN2014PTC151784	SKYRAY INFRA AGRO SERVICES PRIVATE LIMITED	G68341072
54	U74900PN2014PTC153383	NUDGE HOLISTIC SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	G71534580
55	U74900PN2014PTC152283	VALUE CONNECT VENTURES PRIVATE LIMITED	G68855493
56	U74900PN2014PTC152248	LOGIC EDUVENTURES PRIVATE LIMITED	G73221038

Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above mentioned companies under section 248(2) of the companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company (ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(2) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above mentioned companies from the Register of Companies.

(3) Any person objecting to the proposed removal or striking off of name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

P.S. KHADE
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra